

# विकसित भारत समाचार

वर्ष : 09 | अंक : 298 | गुवाहाटी | रविवार, 28 मई, 2023 | मूल्य : 10 रुपए | पृष्ठ : 12 | VIKSIT BHARAT SAMACHAR | Regd. RNI No. ASSHIN/2014/

लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है सरकार

पेज 3

मोदी सरकार महिलाओं के हितों के कार्य में जुटी है : वाजपेयी

पेज 4

क्रिएटिव क्षेत्रों से जुड़े युवा : बीके सिंह

पेज 5

नए संसद भवन का विरोध करने वालों से अनिल विज ने किया सवाल

पेज 8

## नीति आयोग की बैठक में पीएम ने साझा किया विकसित भारत @ 2047 का लक्ष्य, बोले- राज्य बढ़ते हैं, तो बढ़ता है भारत

## अधीनम प्रमुख ने पीएम को सौंपा सेंगोल, आज नए संसद भवन में स्थापित होगा पवित्र राजदंड

नई दिल्ली। नीति आयोग की आठवीं गवर्निंग काउंसिल की शनिवार को हुई बैठक में इस बार पीएम मोदी ने विकसित भारत के रोडमैप को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए साझा दृष्टिकोण विकसित करने की जरूरत को रेखांकित किया और राज्यों से नागरिकों के सपनों को पूरा करने वाले कार्यक्रमों को पूरा करने में सक्षम वित्तीय रूप से विवेकपूर्ण निर्णय लेने को कहा। मोदी ने नीति आयोग की आठवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक को संबोधित करते हुए यह बात कही, जिसमें कई मुख्यमंत्रियों, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों और केंद्रीय मंत्रियों ने भाग लिया। नीति आयोग ने एक ट्वीट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से वित्तीय रूप से विवेकपूर्ण निर्णय लेने का आग्रह किया ताकि वित्तीय रूप से मजबूत और नागरिकों के सपनों को पूरा करने वाले कार्यक्रमों को पूरा करने में सक्षम बन सकें। नीति आयोग की आठवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे

-शेष पृष्ठ दो पर



### प्रधानमंत्री के विरोध में 11 राज्यों के सीएम ने बैठक से किया किनारा

नई दिल्ली। देश के तेजी से विकास के लिए दिल्ली में नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस बैठक में विकसित भारत पर चर्चा हुई। हालांकि ये बैठक भी राजनीति की भेंट चढ़ गई, जहां 11 राज्यों के सीएम ने आने से

इन्कार कर दिया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के भगवंत मान, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, बिहार के नीतीश कुमार, तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव, राजस्थान के अशोक गहलोत, केरल के पिनारयी विजयन और तमिलनाडु के एमके स्टालिन के साथ ही तीन अन्य सीएम इस

बैठक में शामिल नहीं हुए। इस फैसले को भाजपा ने जनविरोधी और गैर जिम्मेदाराना बताया। उन्होंने कहा कि बैठक से किनारा करके सीएम अपने राज्यों की आवाज दबा रहे हैं। नीति आयोग की बैठक के बाद सीईओ बीबीआर सुब्रह्मण्यम ने बैठक में जिन मुद्दों पर

-शेष पृष्ठ दो पर

नई दिल्ली। संसद के नए भवन के उद्घाटन की पूर्व संध्या पर अधीनम महलों ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पवित्र राजदंड सेंगोल सौंपा। अधीनम महलों ने उन्हें एक खास तोहफा भी दिया। आज राष्ट्रीय राजधानी के लिए रवाना हुए अधीनम प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे। प्रधानमंत्री ने उनका आशीर्वाद भी लिया। इससे पहले दिन में धर्मपुरम और थिरुवदुथुराई के अधीनम राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे। रविवार को नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन में ऐतिहासिक और पवित्र सेंगोल की स्थापना करेंगे। उद्घाटन समारोह अंधिमनों में शामिल थे, जो समारोह में भाग लेने के लिए के लिए रवाना हुए थे। धर्मपुरम अधिनम, पलानी अदीनम,



विरुधाचलम अधिनम और थिरुकुयिलूर अधिनम उन अंधिमनों में शामिल थे, जो समारोह में भाग लेने के लिए के लिए रवाना हुए थे।

-शेष पृष्ठ दो पर

### सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, कहा- नैतिकता, सदाचार पर समाज को उपदेश देने वाली संस्था नहीं है कोर्ट

नई दिल्ली। अदालत नैतिकता और सदाचार पर समाज को उपदेश देने वाली संस्था नहीं है, बल्कि यह फैसले लेते समय कानून के शासन के अधीन होती है। सुप्रीम कोर्ट ने दो बच्चों की हत्या के लिए दोषी ठहराई गई एक महिला को समय से पहले रिहा करने का आदेश देते हुए यह टिप्पणी की। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के पास दया याचिका लेकर पहुंच महिला का एक ऐसे सख्त से संबंध था जो अक्सर उसे धमकता रहता था। इसलिए उसने अपने बच्चों के साथ आत्महत्या करने का फैसला किया था। उसने कोटनाशक खरीदी और अपने दो बच्चों को जहर दे दिया। इसके बाद, जब उसने कोटनाशक को



-शेष पृष्ठ दो पर

### कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने विधवा से छिनी नौकरी

बेंगलुरु (हि.स.)। कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन के बाद राज्य की कांग्रेस सरकार ने स्व. प्रवीण नेट्टारु की पत्नी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। हिंदुवादी कार्यकर्ता प्रवीण नेट्टारु की पत्नी प्रॉफ ऑफ ईडिया (पीएफआई) के लक्ष्मणगौड़ ने बेरहमी से हत्या की थी। इसके बाद तत्कालीन भाजपा सरकार ने मानवीय आधार पर उनकी पत्नी नूतन नेट्टारु को सरकारी नौकरी दी थी। सिद्धारमैया के नेतृत्ववाली कांग्रेस सरकार ने दिवंगत प्रवीण नेट्टारु की पत्नी को सरकारी नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। पिछले साल पीएफआई से जुड़े लोगों ने हिंदुवादी कार्यकर्ता प्रवीण नेट्टारु की बेरहमी से हत्या कर दी थी। प्रवीण पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। प्रवीण की हत्या के बाद उनके परिवार में कोई आय का जरिया नहीं था। इसलिए तत्कालीन भाजपा सरकार ने उनकी पत्नी नूतन कुमारी को मैंगलोर शहर में मुख्यमंत्री सहायता कोष कार्यक्रम में सहायक के रूप में नौकरी दी थी, ताकि वह प्रवीण के बाद परिवार का भरण-पोषण कर सके। पिछले एक साल से वह नौकरी कर परिवार को पाल रही थी, लेकिन हाल ही में कर्नाटक में

-शेष पृष्ठ दो पर

### अनुशासन के नाम पर स्कूल टीचर ने काटे बच्चों के बाल



ज्यादा बच्चों के बाल काट दिए। इस घटना पर स्कूल ने अनुशासन और नियमों का हवाला दिया है। वहीं अभिभावकों ने नाराजगी जताते हुए सवाल किया है कि स्कूल को बच्चों के बाल काटने का अधिकार किसने दिया। माजुली की डिप्टी कमिश्नर ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मामला माजुली इंग्लिश स्कूल का है। एक छात्र, जिसके बाल काटे गए, उसने बताया कि जिसके भी बाल

माजुली। असम के माजुली में एक स्कूल में कथित तौर पर कई बच्चों के बाल काट दिए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि स्कूल टीचर ने सुबह की प्रार्थना के वक्त 30 से अधिक बच्चों के बाल काट दिए। पिछले दिनों राज्य में हिंसा भड़क थी, जिससे सरकारी संपत्ति सहित कई निजी संपत्तियां भी जलकर खाक हो गई थी। जनरल पांडे, पूर्वी कमांड के अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल राणा

-शेष पृष्ठ दो पर

### सेना प्रमुख पांडे पहुंचे मणिपुर, राज्यपाल से की बात

इंफाल। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने शनिवार को सैन्य अधिकारियों के साथ मणिपुर की राज्यपाल अनुसुइया उइके से राजभवन में मुलाकात की। सेना प्रमुख जनरल पांडे शनिवार को दो दिवसीय यात्रा के लिए मणिपुर पहुंचे। यहां उन्होंने कानून व्यवस्था को स्थिति को समीक्षा की। पिछले दिनों राज्य में हिंसा भड़क थी, जिससे सरकारी संपत्ति सहित कई निजी संपत्तियां भी जलकर खाक हो गई थी। जनरल पांडे, पूर्वी कमांड के अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल राणा



प्रताप कलिता के साथ टिकेन्द्रजीत इंफाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे उतरे थे। सेना प्रमुख ने राज्यपाल से राज्य के वर्तमान स्थिति और भविष्य की स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने राज्य

-शेष पृष्ठ दो पर

### सेना ने विद्रोहियों के खिलाफ तेज किया अभियान

इंफाल। हिंसाग्रस्त मणिपुर में सेना ने संवेदशील इलाकों में तेजाती बढ़ा दी है। शनिवार को सेना और असम राइफल के जवानों ने खुफिया आधार पर मिली जानकारी के आधार पर संवेदनशील फ्लैश पॉइंट्स के साथ-साथ इंफाल घाटी के आसपास के ऊंचे इलाकों में बड़े पैमाने पर विद्रोहियों के खिलाफ तलाशी अभियान तेज कर दिया है। इस बीच आरएएफ के तीन कर्मियों को निर्लांबित कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक सेना के ऑपरेशंस को जारी रखते हुए, सेना और असम राइफल ने मणिपुर में शनिवार से कांगचुक,

-शेष पृष्ठ दो पर

### अब पूरे अमेरिका में होगी दिवाली की तैयारी, संसद में पेश किया गया विधेयक

वाशिंगटन (हि.स.)। न्यूयॉर्क विधानसभा में दिवाली पर अवकाश के प्रस्ताव के बाद अब पूरे अमेरिका में दिवाली पर छुट्टी की तैयारी है। दिवाली को पूरे देश में यानी संघीय अवकाश घोषित करने के लिए अमेरिकी संसद में विधेयक पेश किया गया है। अमेरिका में अभी साल में 11 संघीय अवकाश हैं, यानी साल में 11 दिन पूरे अमेरिका में एक साथ छुट्टी रहती है। अब दिवाली को 12वें संघीय अवकाश के रूप में स्वीकार



करो के लिए संसद ग्रेस में अमेरिकी संसद में दिवाली दिवस विधेयक पेश किया है। अगर दिवाली दिवस विधेयक संसद से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति से इसे मंजूरी मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा और दिवाली अमेरिका में 12वीं संघीय छुट्टी हो जाएगी। अमेरिका में अभी साल में 11 संघीय अवकाश हैं, यानी साल में 11 दिन पूरे अमेरिका में एक साथ छुट्टी रहती है। अब दिवाली को 12वें संघीय अवकाश के रूप में स्वीकार

-शेष पृष्ठ दो पर

### नई संसद का निर्माण स्वतंत्र भारत की यात्रा में मील का पत्थर : नड्डा

नई दिल्ली (हि.स.)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा ने नई संसद को स्वतंत्र भारत की यात्रा में मील का पत्थर बताते हुए कहा कि यह देश की संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को ट्वीट कर कहा कि नया संसद भवन स्वतंत्र भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह संसद भवन केवल एक वास्तुशिल्प उपकरण नहीं है, बल्कि यह वास्तव में भारत की जीवंत संस्कृति और

-शेष पृष्ठ दो पर

### मोबाइल छीनने पर गुस्साइ लड़की ने स्कूल में लगा दी आग, 20 की मौत

वाशिंगटन। गुस्से और अशहनीलाता का भयानक मामला सामने आया है जिसके चलते एक नाबालिग लड़की ने स्कूल में आग लगा दी जिसमें जंदा जलने से 20 लोगों की मौत हो गई है। हैरानी की बात ये है कि मोबाइल के लिए स्कूल को आग लगाने वाली आरोपी नाबालिगा भी इस आग में बुरी तरह जल गई है। ये चोंका देने वाला मामला साउथ अमेरिकी के देश गुयाना में सामने



आया है। यहां 14 साल की नाबालिग लड़की पर आरोप है कि उसने गुस्से में आकर अपने ही स्कूल में आग लगा दी। आग लगाने की वजह सामने आई तो दुनिया हैरान रह गई। जांच में खुलासा हुआ कि लड़की का मोबाइल टीचर ने जब्त कर लिया था जिसके चलते छात्रा बेहद नाराज थी। दरअसल सोमवार गुयाना के मेंहदिया सेकेंड्री स्कूल के गर्ल्स हॉस्टल में आग लगी

-शेष पृष्ठ दो पर

## पूर्वोत्तर विकास नीति को रेखांकित करते हैं म्यांमार में सितवे बंदरगाह, बांग्लादेश रेल लिंक

गुवाहाटी / अगरतला। म्यांमार में बहुप्रतीक्षित सितवे बंदरगाह का विना किसी तड़क-भड़क के इस महीने की शुरुआत में उद्घाटन किया गया, जिससे भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के साथ-साथ दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की अपार उम्मीद पैदा हुई है। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने म्यांमार के उप प्रधानमंत्री एडमिरल टिन आंग सान के साथ 9 मई को संयुक्त रूप से म्यांमार में सितवे बंदरगाह का उद्घाटन किया।



बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने 4 मई को कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह से कुल 1,000 टन सीमेंट के 20,000 बैग लदे एक जहाज को रवाना किया जो म्यांमार के रखाइन राज्य में सितवे बंदरगाह पर पहुंचने वाला पहला शिपमेंट था। बंदरगाह कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (केएमटीटीपी) के हिस्से के रूप में भारत से प्राप्त अनुदान की मदद से बनाया गया है। सितवे पोर्ट का निर्माण 20 किलोमीटर

-शेष पृष्ठ दो पर

### एगरा ब्लास्ट मामला : 11 दिन बाद मुख्यमंत्री ने मांगी माफी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रमुख ममता बनर्जी ने पूर्व मेदिनीपुर जिले के एगरा इलाके के लोगों से शनिवार को माफी मांगी। उन्होंने कहा कि अगर खुफिया तंत्र ने ठीक से काम किया होता तो हादसे को रोका जा सकता था। बता दें, एगरा इलाके में 16 मई को एक अवैध पटाखा कारखाने में विस्फोट होने से 12 लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हो गए थे। टीएमसी प्रमुख विस्फोट के 11 दिन बाद खड़कुल गांव पहुंची हैं। इस दौरान उन्होंने घटना में गारे गए और घायल हुए लोगों के परिजनों को मुआवजे के चेक बांटे। बाद में, उन्होंने



-शेष पृष्ठ दो पर

श्रीर्वाक्षल केशरी  
(असमिया दैनिक)  
**PURVANCHAL KESARI**  
(ASSAMESE DAILY)  
GOOD LUCK PUBLICATIONS  
House No. 30, D. Neog Path,  
ABC, Guwahati - 781005  
Mob: 94350 14771, 97070 14771

S.S. Traders  
Suppliers in : All kinds of Door Fittings Modular Kitchen & Accessories, etc.  
D. Neog Path, Near Dona Planet ABC, G.S. Road, Guwahati - 05  
97079-99344

सुप्रभात  
शिकारपरस्त राजा धर्म और अर्थ दोनों को नष्ट कर लेता है।  
- आचार्य चाणक्य

न्यूज गैलरी  
मेघालय में मांस की दुकानों में जानवरों के शवों के प्रदर्शन पर रोक

शिलॉन्ग। मेघालय उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह मांस की दुकानों में जानवरों के शवों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाए। मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एक फैसले में कहा कि राज्य एक उदाहरण स्थापित करे और मांस की दुकानों में जानवरों के शवों के प्रदर्शन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाए। खंडपीठ ने कहा कि हालांकि उन्हें रेफ्रिजरेटर या कंटेनरों में या परिसर के भीतर शोकेस में भी संग्रहित किया जा

-शेष पृष्ठ दो पर

**CLASSIFIED**

For all kinds of classified advertisements please contact **97070-14771** **86382-00107**

**MURTI AVAILABLE**

Available all kinds of Marble & White Metal Murties, Ganesh Laxmi, Radha Krishna, Bishnu-Laxmi, Hanuman, Maa Durga, Saraswati, Shivaling, Nandi etc. **ARTICLE WORLD, S-29, 2nd Floor, Shoppers Point, Fancy Bazar, Guwahati-01, Ph. : 94350-48866, 94018-06952**

# एनआईए रेड में बड़ा खुलासा

## जबलपुर में आईएसआईएस की एंट्री

### 2050 तक इस्लामिक देश बनाने का लक्ष्य

**नई दिल्ली।** राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने मध्य प्रदेश में तीन लोगों को गिरफ्तार कर आईएसआईएस से जुड़े एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। संघीय जांच एजेंसी के एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। एजेंसी के एक प्रवक्ता ने बताया कि मध्य प्रदेश पुलिस के आतंकवाद विरोधक दस्ते (एटीएस) के साथ खुफिया विभाग के नेतृत्व वाले संयुक्त अभियान में जबलपुर में 13 स्थानों पर रातभर की गई

लोगों की पहचान सैयद ममूर अली, मोहम्मद आदिल खान और मोहम्मद शाहिद के रूप में की और कहा कि उन्हें भोपाल में एनआईए की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। प्रवक्ता ने बताया कि छापेमारी के दौरान धारदार हथियार, गोला-बारूद, आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण भी जब्त किये गये। एनआईए के अधिकारियों ने एडवोकेट ए उस्मानी के घर पर छापेमारी की है। उस छापेमारी के दौरान यह खुलासा हुआ है। अधिकारी ने गिरफ्तार तीन

## मेयर तामे फसांग के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव

**इटानगर ( हिस )।** अरुणाचल प्रदेश की राजधानी इटानगर के वार्ड नं-10 के नगरसेवक युकर यारो ने राज्य सरकार से इटानगर नगर निगम (आईएमसी) मेयर तामे फसांग के विरुद्ध *अविश्वास प्रस्ताव* पर शीघ्र फैसला करने की अपील की, जो उनके द्वारा इटानगर नगर निगम (आईएमसी) के 12 भाजपा नगरसेवकों के समर्थन से पेश किया गया है। अरुणाचल प्रेस क्लब में आज यहां मीडियाकर्मी को संबोधित करते हुए, नगरसेवक युकर यारो ने बताया कि बीते जनवरी माह में कमिश्नर आईएमसी और राज्य के मुख्यमंत्री को भाजपा के आईएमसी के 18 नगरसेवकों में से 13 भाजपा पार्षदों ने *अविश्वास प्रस्ताव* पेश किया है। लेकिन, राज्य सरकार ने अभी तक इस मामले में पहल नहीं की है। गत 24 फरवरी को मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने कार्यालय में अविश्वास प्रस्ताव के प्रस्तावकों (नगरसेवकों) को आमंत्रित किया और हमसे अविश्वास प्रस्ताव वापस लेने की अपील की और 3 मार्च तक बहुमत की मांगों पर निर्णय लेने का आश्वासन दिया था। उनके आश्वासन के अनुसार आज तक मुख्यमंत्री ने कोई पहल नहीं की है। यारो ने दावा किया कि मेयर की सुविधा के तहत 196 पदों पर सविदात्मक नौकरी का विज्ञापन दिया गया था और बाद में पार्षदों की सहमति के बिना वॉक-इन-इंटरव्यू भी आयोजित किया गया था जिसको लेकर सभी पार्षदों ने उसके विरोध में चले गये। गत 13 जनवरी को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, बाद में 26-27 जनवरी को अवैध तरीके से वॉक-इन-इंटरव्यू आयोजित किया गया था।

## चुनाव आयोग ने मिजोरम विस चुनाव की तैयारियों का लिया जायजा

### राज्यपाल ने असम प्रीमियर हैंडबॉल लीग के दूसरे संस्करण का किया उद्घाटन

**एजल।** एक बयान में बताया गया है कि उपचुनाव आयुक्त धर्मेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुख और नोडल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। एक बयान में बताया गया है कि उपचुनाव आयुक्त धर्मेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुख और नोडल अधिकारी मौजूद थे। बयान के मुताबिक, बैठक में शर्मा ने राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की निर्वाचन आयोग की प्रतिबद्धता को दोहराया। निर्वाचन आयोग ने मिजोरम में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए शुक्रवार को आइजो में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। एक बयान में बताया गया है कि उपचुनाव आयुक्त धर्मेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुख और नोडल अधिकारी मौजूद थे। बयान के मुताबिक, बैठक में शर्मा ने राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की निर्वाचन आयोग की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव में धन-बल के इस्तेमाल पर नजर रखने की जिम्मेदारी राज्य में कार्य कर रही केंद्रीय एजेंसियों पर होगी। बयान के अनुसार, बैठक में शर्मा ने केंद्रीय एजेंसियों को आपसी समन्वय के साथ काम करने और हर पल निगरानी बनाए रखने का निर्देश दिया।



**गुवाहाटी ( हिस )।** असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने असम प्रीमियर हैंडबॉल लीग के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। इसका आयोजन असम हैंडबॉल अकादमी और असम हैंडबॉल एसोसिएशन ने आज यहां सौरसजाई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि यह खेल पूर्वोत्तर भारत में बहुत लोकप्रिय है। मुझे खुशी है कि असम हैंडबॉल अकादमी और असम हैंडबॉल फेडरेशन ने राज्य में खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राज्यपाल ने कहा कि उनके प्रयासों से दूसरी बार इस टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है। राज्यपाल ने खेलों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि खेलों में लोगों को एक साथ लाने, टीमों और महत्वाकांक्षियों को पार करने और टीमवर्क और सहयोग की गहरी भावना पैदा करने का एक जादुई तरीका है। खेल खिलाड़ियों

को अर्थिक अनुशासित, स्वस्थ, सक्रिय और समयनिष्ठ बनाने हैं। यह हर खिलाड़ी को व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करने की ताकत देता है। यह शरीर और मन की शक्ति और ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है। यह टीम सहयोग और टीम भावना विकसित करके सभी को एक टीम में

## पृष्ठ एक का शेष

को सदस्य जेनिफर राजकुमार ने कहा कि इस साल हमने देखा कि हमारा पूरा राज्य दिवाली और दक्षिण एशियाई समुदाय को मान्यता देने के समर्थन में एक स्वर से बोल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार में मेरी भावनाओं में गंभीरता और दिवाली के संघीय अवकाश घोषित करने के लिए अपने ऐतिहासिक कानून के साथ आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर ले जा रही हैं।

**नई संसद का...**

विरासत की भावना का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह भारत के लोगों के लिए एक सम्मान है, जिन्होंने लोकतंत्र के मूल्य को लगातार बनाए रखा है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमारे देशवासियों के संकल्प का प्रतिनिधित्व करता है।

**मोबाइल खीनने पर ...**

गई थी। आग स्कूल के कई हिस्से में फैल गई थी। इस आग में स्कूल के कई टीचर व छात्र फंस गए। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई, लेकिन तब तक 200 मील की दूरी पर सेंट्रल गुयाना मार्टनिंग टाउन में हुई थी। पुलिस को शुरुआती जांच में शक हुआ कि ये आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई है। अब जांच के बाद पुलिस ने खुलासा किया है कि आग लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि स्कूल की ही एक छात्रा थी। मोबाइल जब्त होने से नाराज छात्रा ने स्कूल में आग लगा दी थी। घटना वाले दिन बच्ची अपना मोबाइल स्कूल ले गई थी। उसकी टीचर ने मोबाइल देखा तो सभी के सामने उससे मोबाइल ले लिया। बताया जा रहा है कि इस बच्ची पर अपने से काफी उपद्रवगार वार्डन के साथ अफेयर का भी आरोप है। बच्ची पर डिस्मिशन एक्ट के तहत रिट्रैक्टेड अपनाई जा रही थी इस वजह से उसका फोन खीन लिया गया था। लेकिन उसने गुस्से में स्कूल में आग लगाकर बीस लोगों की जान ले ली।

**पूर्वोत्तर विकास नीति...**

लंबे सिलीगुड़ी कॉरिडोर (चिकन नेक कॉरिडोर) के वैकल्पिक मार्ग के रूप में किया गया है। यह पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी शहर के चारों ओर भूमि का एक खंड है, जो असम और पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। एक बार पूरी तरह से चालू हो जाने के बाद, बंदरगाह भारत के पूर्वी तट को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ देगा, जिसके परिणामस्वरूप लागत और समय में काफी बचत होगी। साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सितवे बंदरगाह के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग तक पहुंचने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होगा। भारत के चार राज्य - मिजोरम, नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर - म्यांमार के साथ 1,643 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। दोनों तरफ के लोगों के जातीय जुड़ाव, समान भाषा और जीवन शैली के कारण उनके बीच पारिवारिक संबंध हैं। इसके अलावा, भारत-म्यांमार की बंगाल की खाड़ी में समुद्री सीमा भी है। इसके अलावा 1,000 करोड़ रुपए की लागत वाली अगरतला-अखौरा (बांग्लादेश) रेलवे परियोजना जो इस साल के अंत या अगले साल की शुरुआत में पूरी होने की संभावना है, पहाड़ी पूर्वोत्तर और शेष देश तथा दुनिया के दूसरे देशों के साथ बांग्लादेश के माध्यम से एक और संपर्क मार्ग होगा। भारतीय अनुदान से बन रही अगरतला-अखौरा रेलवे परियोजना के चालू होने के बाद पूर्वोत्तर राज्यों के लोग, विशेष रूप से त्रिपुरा, असम और मिजोरम के दक्षिणी भाग के लोगों के लिए कोकामती की दूरी 22 घंटे छोटी हो जाएगी। कुल 12.24 किमी की लंबाई में से 6.78 किमी बांग्लादेश में और शेष 5.46 किमी त्रिपुरा में है। 110 किलोमीटर लंबी ज़िरीबाम (दक्षिणी असम के साथ) -इंफाल नई रेलवे लाइन पर 90 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है और मणिपुर की राजधानी के दिसंबर 2023 तक भारतीय रेलवे के नरेश पर आने की उम्मीद है, जिससे यह रेल से जुड़ने वाली पूर्वोत्तर की चौथी राजधानी बन जाएगी। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (एनएफआर) के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सब्यसाची डे ने आईएनएस को बताया कि 14,322 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजना को दिसंबर 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

**एगार ब्लास्ट मामले ...**

कहा कि आज मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं आपके सामने सिर झुकाकर इस घटना के लिए माफी मांगती हूँ। अगर खुफिया तंत्र ने ठीक से काम किया होता तो हादसे को रोका जा सकता था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि एगार में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट में मृतकों के परिजनों को 2.5 लाख रुपए की सहायता राशि और परिवार के एक सदस्य को होमगार्ड की नौकरी दी जाएगी। इसका नियुक्ति पत्र में साथ लेकर आई हूँ। इसके साथ ही बिजली गिरने से हुई मौत पर मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि अवैध कारखाने के मालिक एवं मुख्य आरोपी के परिवार के दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीएम ने आगे कहा कि हमारी सरकार ने तय किया है कि इस घटना को लेकर अगले दो हफ्तों में मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके तहत ग्रीन पटाखों का क्लस्टर बनाया जाएगा।

**मेघालय में मांस...**

सकता है। अदालत ने कहा कि यह बाहर से जनता के लिए खुला नहीं होना चाहिए था। उच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य को जानवरों के साथ नैतिक व्यवहार सुनिश्चित करना चाहिए, यहां तक कि उन जानवरों के लिए भी जिन्हें मानव उपयोग के लिए मारा जाता है और जिन्हें खेत के जानवरों के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसमें परिवहन का तरीका भी शामिल है। राज्य सरकार ने कहा कि जून, 2022 में इस संबंध में विस्तृत उपाय किए गए हैं और बार-बार निर्देशों का पालन किया गया है। जर्नाल याचिका को ज्ञान फाउंडेशन द्वारा दायर की गई थी, जो गैर-लाभकारी संगठन है। यह संगठन गायों को बचाने, संरक्षित करने के लिए काम करता है। यह मामला उन जानवरों के उपचार से संबंधित है जिन्हें मानव उपभोग और राज्य भर में जानवरों को मारा जाता है। खंडपीठ ने कहा कि केंद्रीय अधिनियम और स्थानीय नियम होने के बावजूद याचिकाकर्ता ने दिखाया है कि अधिकांश दिशानिर्देशों और मानदंडों का पालन नहीं किया जा रहा है और स्थानीय स्तर की समितियां काम नहीं कर रही हैं।

**नैतिकता, सदाचार पर...**

खुद खाने के लिए एक गिलास में डाला, तो उसकी भतीजी ने उसे नीचे धकेल दिया। दुर्भाग्य से, अस्पताल पहुंचने पर दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया गया और भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत महिला पर प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके बाद ट्रायल कोर्ट ने महिला को आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 309 (आत्महत्या) के तहत दोषी ठहराया और जुर्माने के अलावा आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके बाद उच्च न्यायालय ने आईपीसी की धारा 309 को हटा दिया, लेकिन धारा 302 के तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखा। महिला ने समय से पहले रिहाई की गुहार लगाते हुए कहा था कि वह करीब 20 साल से जेल में है। हालांकि, राज्य स्तरीय समिति की सिफारिश को तमिलनाडु सरकार ने उसके द्वारा किए गए अपराध की कसर और कसर प्रकृति को देखते हुए खारिज कर दिया था। जस्टिस अजय रेस्मोगी और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि महिला ने अपने अवैध संबंधों को जारी रखने के लिए कभी भी अपने बेटों की हत्या करने की कोशिश नहीं की। इसके विपरीत, उसने अपने प्रेमी के साथ अपने अवैध संबंधों को जारी रखने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि अपने प्रेमी द्वारा उठाए गए झगड़े पर निराशा और हताशा में अपने बच्चों के साथ आत्महत्या करने की कोशिश की थी।

**सेना ने विद्रोहियों ...**

मोटबंग, सैकुल, पुखाओ और सगोलमंग के इलाकों में कई तलाश अभियान शुरू किए हैं ताकि इन क्षेत्रों में सक्रिय किसी भी शांति विद्रोहियों पर नजर रखा जा सके। ये ऑपरेशन मणिपुर राज्य में सशस्त्र और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सेना और असम राइफलस के समग्र चल रहे प्रयासों का हिस्सा हैं। सेना की टुकड़ियां जंगली और पहाड़ी इलाकों में काम करते हुए नवीनतम प्रौद्योगिकी हथियारों, उपकरणों और अन्य फोर्स मर्टलीप्लायरों का उपयोग कर रहे हैं। कल रात सेना और असम राइफलस द्वारा लगातार कार्रवाई के परिणामस्वरूप चुराचांदपुर और इंफाल पूर्वी जिले के एक-एक गांव में जनहानि को झल्कानेपूर्वक रोका गया। मणिपुर पुलिस ने इंफाल ईस्ट के एक चेकपॉइंट में आग लगाने की कोशिश के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों ने पुष्टि की कि 26 मई की रात को, चार लोगों ने, जिनमें से तीन आरएएफ के जवान और कथित रूप से आग लगाने की कोशिश की। सूत्रों के मुताबिक, आरएएफ के जवान सादे कपड़ों में थे। तीन आरएएफ कर्मियों, जिन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया उनकी पहचान हरियाणा कुलदीप सिंह हैं, हरियाणा के सोनीपत के प्रदीप कुमार और यूपी के अलीगढ़ के सोमदेव आर्य के रूप में हुई है। चौथा गिरफ्तार व्यक्ति इंफाल पूर्व के एक भूपेंद्र सिंह है, जो वाहन चला रहा था। चारों फिलहाल पोरामपत पुलिस से हिरासत में ले लिया है। सेना ने अपने आदेश में तीन आरएएफ कर्मियों के निलंबन का कारण नहीं बताया।

लंबे थे, उनको प्रेरक के दौरान बुलाया गया और टीचर ने बाल काट दिए।

## राज्य बढ़ते हैं...

के विकास सहित कई मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल और उत्तर प्रदेश, असम, झारखंड और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल, पंजाब और दिल्ली के मुख्यमंत्री बैठक का बहिष्कार कर रहे हैं। आमतौर पर पूर्ण परिपद की बैठक हर साल होती है और पिछले साल 7 अगस्त को मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी। कोरोना वायरस महामारी के कारण 2020 में परिपद की बैठक नहीं बुलाई गई थी। परिपद को पहली बैठक 8 फरवरी, 2015 को हुई थी। भारत का विकास राज्यों के विकास के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। इसी बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 76वें स्वतंत्रता दिवस संबोधन में कहा था कि जब हमारे राज्य बढ़ते हैं, भारत बढ़ता है। यह अगली तिमाही सदी के लिए एक की समावेशी और टिकाऊ दृष्टिकोण की मार्गदर्शक भावना होगी। इस दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए, शासी परिपद की 8वीं बैठक केंद्र-राज्य सहयोग को मजबूत करने और विकसित भारत के 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साझेदारी बनाने के लिए एक मंच प्रदान करेगी।

## प्रधानमंत्री के विरोध में ...

चर्चा की गई उनके बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्वस्थ, एमएसएमई, महिला सशक्तिकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर और पीएम गतिशक्ति पर चर्चा की गई। उन्होंने आगे बताया कि देश में डिजिटलाइजेशन उच्च स्तर पर है। हमारे पास विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब सिस्टम है। हम सड़क, बिजली, पानी जैसे आधारभूत जरूरतों को पूरा करने के बाद अब विकास की तरफ अग्रसर हैं। सीईओ बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने कहा कि बैठक में 11 राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं आए। यह पहली बार नहीं था, इससे पहले भी ऐसा देखा गया है, लेकिन कई लोगों की लिखित वक्तव्य पत्रों के कारण हैं। उन सब को संज्ञान में लेकर ही पॉलिसी बनती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए साझा विजन विकसित करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने राज्यों से आग्रह किया कि वे नागरिकों के सपनों को पूरा करने वित्तीय रूप से विकसित करने के लिए नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की आठवीं बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि जब राज्य बढ़ते हैं तो भारत बढ़ता है। नीति आयोग ने एक अन्य दृष्टि में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से वित्तीय रूप से विवेकपूर्ण निर्णय लेने का आग्रह किया है ताकि वे वित्तीय रूप से मजबूत बन सकें और नागरिकों के सपनों को पूरा करने वाले कार्यक्रमों को पूरा करने में सक्षम हो सकें। आयोग की गवर्निंग काउंसिल की आठवीं बैठक में स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे के विकास सहित कई मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया, जिसका उद्देश्य 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है।

## अधीनम प्रमुख ने ...

हुए थे। नए संसद भवन में सेंगोल को स्थापित करने से पहले अधिनम महलों का आशीर्वाद लेते हुए अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज मेरे निवास स्थान पर आप सभी के चरण पड़े हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है कि कल नए संसद भवन के लोकार्पण के समय आप सभी वहां आकर आशीर्वाद देने वाले हैं। उन्होंने कहा कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में तमिलनाडु की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत की आजादी में तमिल लोगों के योगदान को वो महत्व नहीं दिया गया जो दिया जाना चाहिए था। अब भाजपा ने इन विषय को प्रमुखता से उठाना शुरू किया है। मोदी ने कहा, तमिल परंपरा में शासन चलाने वाले को सेंगोल दिया जाता था, सेंगोल इस बात का प्रतीक था कि उसे धारण करने वाले व्यक्ति पर देश के कल्याण की जिम्मेदारी है और वो कभी कर्तव्य के मार्ग से विचलित नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन को लोकतंत्र का मंदिर बताया और कामना की कि यह भारत के विकास पथ को मजबूत करता रहे और लाखों लोगों को सशक्त बनाए। *माई पॉलिटिक्स* *माई प्राइड* हैशटैग के साथ ट्विटर पर नई इमारत का वीडियो साझा करने का लोगों से आग्रह करने वाले मोदी ने यह भी कहा कि बहुत भावनात्मक वॉयसओवर के जरिए लोग गर्व की भावना व्यक्त कर रहे हैं कि राष्ट्र को एक नई संसद मिल रही है, जो लोगों की आकांक्षाओं को और अधिक उत्साह के साथ पूरा करने के लिए काम करती रहेगी। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि पवित्र राजटंड सेंगोल अंग्रेजों से भारत में सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि संसद भवन ऐतिहासिक सेंगोल स्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त और पवित्र स्थान है। पीएम मोदी ने सेंगोल को अमृत काल के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाने का निर्णय लिया। न्याय के प्रतीक सेंगोल की स्थापना के बारे में बात करते हुए थिरुवदुथुराई अधीनम के अंबालावाना देसीणा परमाचरिया स्वामीगल ने शुक्रवार को कहा था कि यह तमिलनाडु के लिए गर्व की बात है कि सेंगोल को इसका महत्व दिया जा रहा है।

## अनुशासन के नाम ...

लंबे थे, उनको प्रेरक के दौरान बुलाया गया और टीचर ने बाल काट दिए।

की हालत को सामान्य करने पर विचार विमर्श किया। इंफाल के मंत्रीपुखरी में असम राइफलस के आईजी मुख्यालय पर उन्होंने सुरक्षा के साथ पहुंचाया गया। सेना के एक अधिकारी ने बताया कि जातीय संघर्ष के कारण बने हालातों की समीक्षा करने के लिए जनरल पांडे इंफाल आए हैं। जनरल स्थिति का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री और सुरक्षा सलाहकार से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा सेना प्रमुख सुरक्षा बलों के अधिकारियों से मिलकर कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। रविवार को जनरल पांडे वापस दिल्ली रवाना हो जाएंगे। जबकि, लेफ्टिनेंट जनरल गृहमंत्री अमित शाह के कार्यक्रम के बाद यहां से रवाना होंगे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने गुरुवार को हिंसाग्रस्त मणिपुर को लेकर बड़ा बयान दिया है। गृहमंत्री ने पहली बार कहा कि मैं केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश के सभी लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सबके साथ न्याय होगा। हिंसा करने वालों को हम बख्शेंगे नहीं। उन्होंने कहा, पहले दोनों गुप शांति बनाने का निर्णय करें। मणिपुर की बहुसंख्यक मैतेई समुदाय अनुसूचित जनजाति का दर्जा पाने की मांग कर रही है। उनका कहना है कि उन्हें एस्टी वर्ग में शामिल किया जाए। इसके विरोध में उन्होंने आदिवासी एकजुटता मार्च निकाला था। मार्च के दौरान चुराचांदपुर और तोरबंग इलाके में हिंसा भड़क गई थी। रक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, अब तक करीब 23 हजार लोगों को सुरक्षित सैन्य छावनियों में भेज दिया गया है। इलाके में अर्धसैनिक बलों के साथ-साथ केंद्रीय पुलिस के भी करीब 10 हजार जवानों को तैनात किया गया है। दावा किया जा रहा है कि झड़प में करीब 60 लोगों की मौत हुई है। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए इलाके में कर्फ्यू भी लगा दिया गया था।

## कर्नाटक में कांग्रेस ...

सत्ता परिवर्तन के बाद कांग्रेस सरकार ने नूतन कुमारी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। कांग्रेस सरकार ने अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए नूतन कुमारी को नौकरी से हटाया है। सिद्धारमेया सरकार के फैसले की कर्नाटक भाजपा ने कड़ी निंदा की है। कर्नाटक में भाजपा सरकार के कार्यकाल में समय-समय पर लिये गए फैसलों को फलटने का काम शुरू हो गया है। पिछली भाजपा सरकार ने हिजाब बैन पर अनुकूल रुख रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश किया था, लेकिन अब कांग्रेस सरकार इस हलफनामे को वापस लेने जा रही है और एक हलफनामा पेश करने जा रही है कि कर्नाटक में हिजाब पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सरकार पुरानी सरकार के कई फैसलों को फलटनेगी।

## अब पूरे अमेरिका...

महत्वपूर्ण दिनों में से एक है। दिवाली पर संघीय अवकाश परिवारों और दोस्तों को एक साथ त्योहार का जश्न मनाने की अनुमति देगा। इस दिन छुट्टी यह साबित करेगी कि सरकार राष्ट्र के विविध सांस्कृतिक अवसरों को महत्व देती है। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क के क्रीस में हर साल होने वाले दिवाली समारोह अद्भुत होते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका की ताकत इस राष्ट्र को बनाने वाले विविध अनुभवों, संस्कृतियों और समुदायों से है। मंग ने कहा कि उनके द्वारा पेश किया गया दिवाली डे एक्ट इस दिन के महत्व पर सभी अमेरिकियों को बताने और अमेरिकी विविधता का जश्न मनाने की दिशा में एक कदम है। वह अमेरिकी कांग्रेस के माध्यम से इस विधेयक को पारित करने के लिए उत्सुक है। इस कदम का स्वागत करते हुए न्यूयॉर्क विधानसभा

**स्वर्वेद भाष्य**

**चतुर्थ मंडल** **द्वादश अध्याय**

**(चार प्रकार के भक्त)**

**(ज्ञानी)**

**भीतर बाहर प्रभु दिशे, सर्व दिशा सब गात।**

**देव सदापल ज्ञानि गम, प्रभु जन सहज संघात। ३7। ॥**

**शब्दार्थ** : (सब गात) समस्त देह-संघात और सर्व शरीर (प्रभु जन) हरिजन, संतगण, (सहज) स्वभाविक (संघात) संबंध।

**भाष्य** : ज्ञानी-भक्त को चेतन गमन से सब दिशा और समस्त शरीर या देह-संघात में भीतर-बाहर सर्व और प्रभु ही दृष्टिगोचर होता है और उसे परमप्रभु से स्वाभाविक संबंध हो जाता है।

**॥ इति स्वर्वेद चतुर्थ मंडल, द्वादश अध्याय भाष्य समाप्त ॥**

# कांग्रेस नेता अजय माकन ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है सरकार

गुवाहाटी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने शनिवार को भाजपा पर हमला किया है। उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वह चुनावी लाभ के लिए देश की सुरक्षा से समझौता कर रहे हैं। माकन का कहना है कि वह नफरत की राजनीति करके संवैधानिक और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर अधिकार जमाकर, उन्हें कमजोर कर रही है। कांग्रेस नेता ने शुक्रवार को कहा था कि केंद्र सरकार आने वाले कुछ दिनों में केंद्र सरकार की विफलताओं पर प्रेस कांफ्रेंस करेगी। माकन ने बताया था कि कांग्रेस अलग-अलग 35 शहरों में नौ साल-नौ साल नाम से कार्यक्रम आयोजित करेगी। माकन ने कहा कि पीएम मोदी महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी राय नहीं रखते। इसलिए कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाते हुए सरकार से जवाब मांगेगी। उन्होंने कहा



कि सरकार बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर बात नहीं करेगी। बल्कि वह छोटे-छोटे मुद्दों से ध्यान भटका देगी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा के शासन वाले राज्यों में भ्रष्टाचार चरम पर है। भाजपा विपक्ष के खिलाफ बदले की राजनीति कर

रही है। संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर कर रहे हैं। भाजपा देश की सुरक्षा से समझौता कर रही है। माकन का आरोप है कि भाजपा चीन के लिए जमीन भी छोड़ रही है। पार्टी ने वादा किया था कि आम जनता की आय दोगुनी की जाएगी, लेकिन वह भी सिर्फ एक जुमला ही साबित हुआ। कल्याणकारी योजनाओं के बजट में कटौती कर रहे हैं। गरीबों-आदिवासियों के खिलाफ भाजपा सरकार प्रतिबंधक नियम बना रही है। कोविड में सरकार का खराब प्रशासन दिखाई दिया। इस वजह से कई लोगों की जान गई। लेकिन सरकार उन्हें मुआवजा नहीं दे सकी। पीएम मोदी एक भी प्रेस कांफ्रेंस संबोधित नहीं कर पाए। माकन ने उम्मीद जताई है कि विपक्ष की भूमिका निभाते हुए हमारे द्वारा पूछे गए नौ सवालों का सरकार जवाब देगी।

## मेघालय : सोनापुर में भारी भूस्खलन हजारों वाहन फंसे

ईस्ट जयंतिया (हिस)। मेघालय के ईस्ट जयंतिया हिल्स जिला के सोनापुर में गुवाहाटी-बराक घाटी को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-6 पर शनिवार अहले सुबह भारी भूस्खलन हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग-6 मेघालय के बीचों-बीच से गुजरता है। सोनापुर सुरंग के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए भूस्खलन के कारण हजारों भारी मालवाहक वाहन और छोटे-बड़े यात्री वाहन सड़क के दोनों ओर फंस गए हैं। हालांकि भूस्खलन में किसी भी प्रकार के जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। भूस्खलन के कारण बराक घाटी के तीन जिलों, कछार, करीमगंज और हैलाकांटी तथा त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर के कुछ हिस्सों से परिवहन संपर्क बाधित हो गया है। बीआरओ के जवान मिट्टी के मलबे को हटा कर राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए अनुकूल बनाने में जुटे हुए हैं।

## देश सेवा के प्रति एसएसबी ने विद्यार्थियों को किया जागरूक



कोकराझाड़ (विभास)। छठीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) रानीगुली के कमांडिंग अधिकारी लोकेश कुमार सिंह के मार्गदर्शन में एमई स्कूल शांतिपुर, चिरांग के छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों के द्वारा बाह्य सीमा चौकी टुकड़बस्ती तथा भारत-भूटान सीमा के भ्रमण का कार्यक्रम आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान समाज प्रभारी टुकड़बस्ती के द्वारा स्कूली छात्र-छात्राओं को पुलिस फोर्स के बारे में विभिन्न जानकारी दीं और सशस्त्र सीमा बल के जवानों

के प्रतिदिन क्रिया कलाओं तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा में तैनात जवानों व सीमा चौकियों की महत्व के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही विद्यार्थियों को सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करने के लिए प्रेरित किया गया तथा उनके दिलों में देश के प्रति भावनाओं पर जागरूक कार्यक्रम का आयोजन किया। जिसमें छात्र-छात्राओं ने बड़-चड़कर हिस्सा लिया। इसके अलावा विद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का दौरा करवाया गया और छात्र-छात्राओं तथा शिक्षकों के लिए बड़े खाने का आयोजन किया गया था।

## काँटन विवि के 123वें स्थापना दिवस में शामिल हुए राज्यपाल

गुवाहाटी (हिस)। काँटन विश्वविद्यालय गुणवत्ता का पर्याय है और असाधारण मानव संसाधन बनाने में सहायक है। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने आज यहाँ विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित संस्था के 123वें स्थापना दिवस पर बोलते हुए उपरोक्त बातें कहीं। स्थापना दिवस पर राज्यपाल कटारिया ने माणिक चंद्र बरुवा, सर हेनरी जॉन स्टेडमैन काँटन जैसे सभी प्रमुख व्यक्तियों और संस्थान की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते वाले अन्य लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि



काँटन विश्वविद्यालय पहले ही राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षाविदों और शोध प्रकाशनों में अपनी उल्लेखनीय भूमिका के लिए प्रशंसा प्राप्त कर चुका है। राज्यपाल ने कहा कि उच्च उम्मीदों के साथ, यह उम्मीद की जाती है कि विश्वविद्यालय

भविष्य की ओर अपने यात्रा में अपनी सम्मानित प्रतिष्ठा बनाए रखेगा। राज्यपाल ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि अपने नाम और प्रसिद्धि के अलावा काँटन विश्वविद्यालय को वर्तमान समय में समाज के सामने आने

वाली चुनौतियों का मुकाबला करने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय को अपनी नवीन और वैज्ञानिक गतिविधियों के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के प्रावधान को अपने पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम संरचना में शामिल करने के साथ अकादमिक विकास की दिशा में काम करना चाहिए। जलवायु परिवर्तन का जिक्र करते हुए, जिसने एक वैश्विक चुनौती पेश की है, इसके प्रभावों से निपटने के लिए एकिकृत और समर्पित प्रयासों की आवश्यकता है, राज्यपाल ने कहा कि इसके महानजर

काँटन विश्वविद्यालय को अपने असाधारण संसाधन पूल के साथ जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों को छात्रों को अपार क्षमता और नए विचारों वाले व्यक्तियों के रूप में आकार देने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जो समाज की दबाव वाली चुनौतियों का समाधान करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि असम प्रचुर संसाधनों से संपन्न है और इसमें अपार संभावनाएँ हैं।

## रंगिया बालिका प्राथमिक विद्यालय में अकादमिक उत्कृष्टता पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित

रंगिया (विभास)। रंगिया 29 नंबर मुरारा बालिका प्राथमिक विद्यालय में शुक्रवार को अकादमिक उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह के साथ विद्यालय के सामने की पक्की दीवार के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। विद्यालय के प्रधान शिक्षक अजान बैश्य के संचालन में आयोजित इस कार्यक्रम के अंतर्गत रंगिया के मुरारा निवासी समाजिक कार्यकर्ता तथा पुत्र कामरूप महाविद्यालय के अवसर प्राप अध्यापक पवोन कलिता द्वारा उनके अनुदान से बनाई जाने वाली विद्यालय के सामने की पक्की दीवार का आधारशिला सुबह 10.30 बजे रखी गई। इसके पश्चात विद्यालय संचालन समिति के अध्यक्ष खगेन कलिता की अध्यक्षता एवं प्रधान शिक्षक अजान बैश्य के मंच संचालन में एक खुली बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें विद्यालय के विशेष उत्कृष्टता प्रदर्शन करने वाले तीन



छात्रों को अवसरप्राप्त अध्यापक पवोन कलिता ने नगद पुरस्कार से नवाजा। कार्यक्रम में समग्र शिक्षा, कामरूप की परियोजना अधिकारी फुलपाहि नाथ, वरिष्ठ नागरिक रेंद्र शर्मा, समाज सेवक महावीर जाजोदिया, परीक्षित कलिता, विद्यालय संचालन समिति की उपाध्यक्ष मामोनी दास, संचालन समिति के पूर्व अध्यक्ष दिनेश पाठक, अजित कलिता, भूपेन काकोती सहित विद्यालय के शिक्षक-

शिक्षिकाएँ, छात्र-छात्राएँ, अभिवाचक, विद्यालय के कर्मचारियों सहित बहुत से गणमान्य लोग उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि कार्यक्रम के दौरान विद्यालय की ओर से उपस्थित समाजसेवक महावीर जाजोदिया और परीक्षित कलिता को फुलाम गामोछा से सम्मानित किया गया जिनके द्वारा हाल ही आर्थिक रूप से पिछड़े विद्यालय के कुछ छात्रों के लिए जुते और मोजे की व्यवस्था की गई है।

## अप्रैल माह में कई ट्रैक नवीनीकरण कार्य हुए

गुवाहाटी (हिस)। रेल पटरियों को उचित अवस्था में रखने और रेल यात्रियों को सुरक्षित यात्रा प्रदान करने के लिए पूर्वोत्तर सीमा रेल (पूसीरे) ने अप्रैल माह में कई ट्रैक नवीनीकरण कार्य किए हैं। पूसीरे के सीपीआरओ सब्यसाची दे ने बताया कि अप्रैल महीने के दौरान 15.25 किमी प्लेन ट्रैक की डीप स्क्रॉपिंग की गई। उक्त महीने के दौरान 6.93 किमी ट्रैक का थ्रू स्लीपर रिनुअल, 4.5 समतल्य सेटों का थ्रू टर्नआउट रिनुअल किया गया। इसके अलावा, उक्त महीने के दौरान 6 पुलों को पुनः मजबूत किया गया और पूसीरे में विभिन्न क्षमताओं वाले 393 सिग्नलिंग बैरियरों को बदला गया।

## पर्यावरण जागरूकता को लेकर साइकिल रैली आयोजित

शोणितपुर (हिस)। असम रायफल की अगरतला सेक्टर अंतर्गत लोकरा बटालियन के द्वारा आज चातुर्दुआर में पर्यावरण जागरूकता को लेकर एक साइकिल रैली आयोजित की गई। साइकिल रैली बालीपारा होते हुए लोकरा तक-कुल 13 किमी दूरी तक आयोजित की गई। उल्लेखनीय है कि आज की रैली में लोकरा गैसिन के 50 और क्षेत्रीय इलाके से 15 लोगों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। रैली के जरिए मुख्य तौर पर लोगों को पर्यावरण में बदलाव और इसके दुष्परिणामों को लेकर जागरूकता पैदा करना था। इस मौके पर असम रायफल

के एक अधिकारी ने कहा कि वर्तमान दौर में पर्यावरण असंतुलन की सबसे बड़ी समस्या ग्लोबल वॉर्मिंग है। जिसकी वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। इसकी वजह से मानव जीवन के कदम विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में अगर हमने पर्यावरण को बचाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाया तो वह दिन दूर नहीं, जब हमारा अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। अधिकारी ने कहा कि हमें जितना जल्दी हो यह जान लेना चाहिए कि मानव जाति के कल्याण एवं अस्तित्व के लिए पर्यावरण की सुरक्षा एवं सुधार आवश्यक है।

## रंगिया : दिव्यांगजनों को निःशुल्क रेलवे यात्रा रियायत कार्ड वितरित

रंगिया (विभास)। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुफ्त रेल यात्रा शुरू करने के उद्देश्य से शुक्रवार को उत्तर पूर्व सीमा रेलवे के रंगिया समंडल के सौजन्य से तथा कामरूप जिला प्रशासन, रंगिया महकमा प्रशासन और कामरूप जिला समाज कल्याण विभाग के सहयोग से रंगिया रेलवे स्टेशन के मुद्रा भवन प्रांगण में दिव्यांग लोगों के लिए रेलवे रियायत कार्ड वितरण शिविर का आयोजन किया गया। उल्लेखनीय है कि इस शिविर में रेलवे विभाग, स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग द्वारा उठाए गए कदमों के जरिए एक ही दिन में सभी प्रक्रियाएँ पूरी कर ली गईं और किराया छूट कार्ड जारी किए गए। मालूम हो कि दिव्यांगों को किराया छूट कार्ड प्राप्त करने के लिए अन्य प्रमाणों के साथ विशिष्ट विकलांगता आईडी की आवश्यकता होती है। इसके लिए उन्हें रेलवे अधिकारियों के पास पहले विशिष्ट विकलांगता आईडी के साथ अन्य सभी आवश्यक प्रमाण-पत्र आदि जमा पड़ता था जिसमें झूठ समय लागता था। इस कठिनाई को दूर करने के लिए असम तथा उत्तर पूर्व चाल के भीतर पहली बार इस तरह के रियायत कार्ड जारी करने का शिविर का आयोजन कर एक



ही दिन में बहुत से दिव्यांगों को एक ही दिन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को पूरा करके एक ही स्थान पर रियायत कार्ड जारी किया गया। वहीं शुक्रवार को लगभग एक हजार दिव्यांगों ने इस कार्ड के लिए आवेदन किया। इस प्रक्रिया में रेलवे विभाग की विभिन्न शाखाओं के अधिकारियों सहित 9 विशेषज्ञ चिकित्सकों ने भाग लिया। मालूम हो कि इस रेलवे रियायत कार्ड के माध्यम से दिव्यांगजन मुफ्त रेल यात्रा

की सुविधा प्राप्त करने के साथ-साथ उनके सहयोगी को रेल किराए में 50 प्रतिशत कटौती मिलेगी। कार्यक्रम में कामरूप जिले की उपायुक्त कीर्ति जल्ली सहित अतिरिक्त उपायुक्त तथा रंगिया के प्रभारी महकमाधिपति दीपन बर्मन और रेल विभाग के अधिकारियों ने आधिकारिक रूप से इन रियायत कार्डों का वितरण किया। कार्यक्रम में बोले हुए उपायुक्त कीर्ति जल्ली ने कहा कि रियायत कार्ड विकलांग व्यक्तियों

और उनके सहयोगियों को ट्रेन से यात्रा करने में मदद करेगा। उन्होंने शिविर में इतने सारे विकलांग व्यक्तियों की उपस्थिति और इस सुविधा के लिए उनके आवेदनों के लिए विशेष धन्यवाद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि शिविर का आयोजन रंगिया रेलवे मंडल, समाज कल्याण विभाग, जिला एवं महकमा प्रशासन की प्रचेस्टा पर आयोजित किया गया है जिसमें विकलांग व्यक्तियों को इस सुविधा का लाभ उठाने का एक सुनहरा अवसर प्रदान किया गया। उन्होंने इस संबंध में रंगिया रेल मंडल के क्षेत्रीय वाणिज्यिक प्रबंधक दीपांकर गोगोई द्वारा निर्भाई गई सक्रिय भूमिका को भी सराहा। उन्होंने कहा कि यह सेवा भविष्य में भी जारी रहेगी और इसी तरह का शिविर दक्षिण कामरूप में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने जिले के दिव्यांगजनों से इसका लाभ उठाने का आग्रह किया। कार्यक्रम में जिला समाज कल्याण अधिकारी निशा मोनी कलिता सहित रेलवे व प्रशासन के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। दूसरी ओर शुक्रवार को रंगिया रेलवे स्टेशन पर कार्यक्रम में बोले हुए उपायुक्त कीर्ति जल्ली ने कहा कि रियायत कार्ड विकलांग व्यक्तियों

## मेघालय बोर्ड ने 10वीं कक्षा के नतीजे घोषित किए, सिर्फ 51.93 फीसदी विद्यार्थी उत्तीर्ण

मेघालय। परीक्षा में 656 स्कूलों के कुल 51, 280 विद्यार्थी शामिल हुए थे, जिनमें से सिर्फ 26, 629 को उत्तीर्ण घोषित किया गया। इस साल उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत घटकर 51.93 फीसदी रहा गया, जो पिछले साल 56.96 प्रतिशत था। मेघालय स्कूल शिक्षा बोर्ड (एमबीओएसई) ने शुक्रवार को 10वीं कक्षा की परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए। इसमें सिर्फ 51.93 प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हो सके। तुरा के शेरकुड स्कूल की समृद्धि दास ने 600 में से 572 अंक हासिल कर 10वीं कक्षा की सेकेंडरी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (एसएसएलसी) परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया। वहीं, शिलांग के सेंट मरिगेट हायर सेकेंडरी स्कूल की ज्योतिप्रिया भट्टाचार्जी 570 अंक प्राप्त कर दूसरे स्थान पर रहीं। परीक्षा में 656 स्कूलों के कुल 51,



280 विद्यार्थी शामिल हुए थे, जिनमें से सिर्फ 26, 629 को उत्तीर्ण घोषित किया गया। इस साल उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत घटकर 51.93 फीसदी रहा गया, जो पिछले साल 56.96 प्रतिशत था। एमबीओएसई ने कक्षा 12 के हायर सेकेंडरी लीविंग सर्टिफिकेट (एसएसएलसी) परीक्षा के कला विषयों के परिणामों की भी घोषणा

कर दी। इसका उत्तीर्ण फीसदी 80.30 रहा, जो पिछले वर्ष के 81.17 प्रतिशत से मामूली कम है। इस इम्तिहान में 246 स्कूलों के कुल 25, 434 विद्यार्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 20, 425 को उत्तीर्ण घोषित किया गया। मुख्यमंत्री कोनराज के संगमा ने दोनों कक्षाओं की परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दीं।

## सरकार ने गुवाहाटी पाइपलाइन फटने की जांच के लिए समिति बनाई में एक व्यक्ति की हो गई मौत

गुवाहाटी। असम सरकार ने शुक्रवार को उस घटना की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जिसमें गुवाहाटी में एक पानी का पाइप फट गया, जिससे एक महिला की मौत हो गई और पांच लोग घायल हो गए। एक अधिसूचना के अनुसार, समिति की अध्यक्षता आवास और शहरी मामलों के सचिव पबित्र राम खांड करेगी, जबकि अन्य दो सदस्य सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग के सेवानिवृत्त सचिव रामेंद्र सुंदर चौधरी और सिंचाई विभाग के सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता संजय कुमार महंत हैं। कमेटी तीन दिन में अपनी रिपोर्ट देगी। असम मानवाधिकार आयोग (एचआरसी) ने इस घटना का स्वतः संज्ञान लिया और गुरुवार को हुई इस घटना की जांच के लिए कामरूप में

जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया। एचआरसी के सदस्य शंतनु भराणी ने एक बयान में कहा कि यह निर्देश दिया गया है कि जांच रिपोर्ट जल्द से जल्द जमा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि घटना का वारंटाविक कारण अभी भी ज्ञात नहीं है और जिला मजिस्ट्रेट को इससे जुड़े सभी पहलुओं की जांच करनी चाहिए। एचआरसी ने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट में मृतक और घायल व्यक्तियों के नाम और पते और क्षतिग्रस्त वाहनों, घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के विवरण का उल्लेख करना चाहिए। इसने उस कंपनी का नाम और पता भी मांगा जिसने पाइपलाइन स्थापित की और प्रभावित लोगों को सहायता और राहत प्रदान करने के लिए प्रशासन द्वारा किए गए उपाय। जापान

इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) के सहयोग से स्थापित की जा रही गुवाहाटी जल आपूर्ति परियोजना का मुख्य आपूर्ति पाइप कुछ तकनीकी खराबों के कारण फट गया।

## बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब जब्त

शिवसागर (असम) (हिस)। शिवसागर जिला शहर की जयसागर पुलिस चौकी की टीम ने छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में अवैध रूप से छिपाकर रखी गई अंग्रेजी शराब को जब्त किया है। पुलिस ने बताया कि यह छापेमारी जयसागर पुलिस चौकी अंतर्गत आने वाले रंगसाला गांव में की गई। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई।

## होजाई : रविंद्रनाथ टैगोर विवि सप्ताह-2023 का पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न

होजाई (होस)। होजाई स्थित रवींद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय सप्ताह 2023 का पुरस्कार वितरण अनुष्ठान 26 मई 2023 (शुक्रवार) को आनंद और उत्साह के साथ एक दिवसीय कार्यक्रम के साथ संपन्न हुआ। गौरतलब है, पिछले 26 मार्च से 31 मार्च तक तक, साहित्य और कला, सांस्कृतिक व खेल विभाग के अधीन आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं। एक हफ्ते चले उक्त कार्यक्रम में कुछ विशेष कारणों के कारण पुरस्कार वितरण विश्वविद्यालय सप्ताह के दौरान नहीं हो पाया था। इसी को ध्यान में रखते हुए 26 मई 2023 को छात्र एकता सभा के सभापति चिन्मयी मालाकार, संपादक धनी फांच, सांस्कृतिक संपादक विशाल भद्र के साथ-साथ छात्र एकता सभा के अन्य सदस्य गण की तत्परता पर उक्त कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिसमें मुख्य अतिथि होजाई जिले के पुलिस अधीक्षक सौरभ गुप्ता उपस्थित थे। विश्वविद्यालय के शैक्षणिक पंजीयक डॉ. अमर गौतम की अध्यक्षता में आयोजित उक्त



कार्यक्रम में छात्र एकता सभा के विभिन्न विभागों के तत्वावधायक डॉ. सत्यजीत कुमार, देवराज मिली, डॉ. पवित्र राय के साथ-साथ कई शिक्षक उपस्थित थे। इस दौरान शिक्षकों

ने छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए कई बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए उल्लेखित किया। प्रतियोगिताओं में अंश ग्रहण किए विभिन्न विभागों में श्रेष्ठ विभाग का सम्मान असमिया


विभाग को दिया गया। वही इतिहास विभाग को द्वितीय, बांग्ला और वाणिज्य विभाग को तृतीय श्रेष्ठ विभाग का सम्मान दिया गया। इस वर्ष आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजय प्रतियोगियों के बीच में से इतिहास विभाग की छात्री दिव्यानी बोरा को श्रेष्ठ कंट शिल्पी, असमिया विभाग के छात्र अंकुर ज्योति बोरा को श्रेष्ठ साहित्य प्रतियोगिता का खिताब से नवाजा गया। लड़कों के कबड्डी और क्रिकेट में सद्दाम उल हुसैन, वॉलीबॉल में फ़राद हुसैन, खोखो में आचार्य टोमूंग, बास्केटबॉल में आकाश शाह और फुटबॉल में प्रतिम हाकमचार्डी को श्रेष्ठ खेल सम्मान से पुरस्कृत किया गया। लड़कियों के क्रिकेट में श्रेष्ठ खेल का सामान प्रीति एमपीए श्रेष्ठ तर्क अब सुफियान। श्रेष्ठ वक्ता के रूप में सम्मान अर्जित किया कस्तूरीम दास, ट्रैक एंड फील्ड शाखा में श्रेष्ठ पुरस्कार अर्जित किया समीर सिंह, राहुल चौहान, गौरी माहातो और जयालक्ष्मी छेत्री ने। उक्त कार्यक्रम में छात्र एकता सभा के कई सदस्य उपस्थित थे।



## मथुरा के पत्रकारिता दिवस समारोह में देंगे निरंजनी अखाड़ा के पीठाधीश्वर आशीर्वचन

30 मई को 31 वां पत्रकारिता दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा

मथुरा, (हि.स.)। गणेश शंकर विद्यार्थी की याद में नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स इंडिया, उ.प्र. जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन व ब्रज प्रेस क्लब के संयुक्त तत्वावधान में 30 मई को 31 वां पत्रकारिता दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी शनिवार दोपहर एनयूजेआई के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, ब्रज प्रेस क्लब के अध्यक्ष व उपजा के जिलाध्यक्ष डॉ. कमलकान्त उपमन्यु एडवोकेट ने दी है। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि निरंजनी अखाड़ा के पीठाधीश्वर स्वामी कैलाशानंद



गिरि जी महाराज तथा वरिष्ठ पत्रकार व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय द्वारा सरस्वती की छवि के समक्ष दीप प्रज्वलित कर व छवि पर माल्यार्पण कर किया जायेगा। एनयूजेआई के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, ब्रज प्रेस क्लब के अध्यक्ष

# क्रिएटिव क्षेत्रों से जुड़े युवा : वीके सिंह

गाजियाबाद, (हि.स.)। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्यमंत्री जनरल (रि.) डॉ. वीके सिंह ने शनिवार को कहा कि देश का नाम रोशन करने के लिए क्रिएटिव क्षेत्रों से जुड़े युवाओं को क्रिएटिव क्षेत्रों से जुड़ना चाहिए। वीके सिंह आरकेजीआईटी कॉलेज में नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित "युवा उत्सव कार्यक्रम" को बतौर मुख्य अतिथि सम्बोधित कर रहे थे। कार्यक्रम के मुख्य विषय पंच प्रण एवं इंडिया @2047 के अंतर्गत गाजियाबाद के युवा कलाकारों के लिए पेंटिंग, युवा कविता पाठ एवं मोबाइल फोटोग्राफी कार्यशाला का आयोजन किया गया। उन्होंने युवाओं से अपील की कि सभी युवा क्रिएटिव क्षेत्रों से जुड़ें, खेलें से जुड़ें ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे एवं आपकी प्रतिभाएं सामने आएँ। इसके साथ ही खेलों एवं नए रचनात्मक कार्यों के प्रति युवाओं का रुझान बढ़े ताकि अनेक राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का विश्व में परचम लहरें। इस "युवा उत्सव" के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों, गाजियाबाद



के विद्यालयों, स्टेडियम और खेल मैदानों से जुड़े हुए युवा खिलाड़ियों को भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खेल प्रोत्साहन किट देकर सभी का मनोबल बढ़ाया और खेलों एवं अन्य क्षेत्रों के प्रति युवाओं की रुचि बढ़ाने के लिए सभी को जागरूक भी किया। कार्यक्रम में

## जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर ने खेलों इंडिया गेम्स प्रतियोगिता का किया निरीक्षण

बोले, खिलाड़ियों को खाने-पीने, रहने की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए

वाराणसी, (हि.स.)। पुलिस कमिश्नर मुथा अशोक जैन के साथ जिलाधिकारी एस. राजलिंगम ने शनिवार को खेलों इंडिया युनिवर्सिटी गेम्स में बीएचयू आईआईटी के रमेश श्रीनिवास स्टूडेंट्स एक्टिविटी सेंटर में चल रहे कुश्ती प्रतियोगिता कार्यक्रम का निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया कि खिलाड़ियों एवं उनके कोचों को खाने-पीने व रहने आदि की समस्त व्यवस्थाएं समुचित तरीके से सुनिश्चित कराएँ। कोई भी न हो। उन्होंने खिलाड़ियों से भी व्यवस्थाओं के बाबत जानकारी ली। जिलाधिकारी ने प्रतियोगिता के आयोजकों को भी



निर्देशित किया कि सभी व्यवस्थाएं मानक के अनुरूप पूर्ण की जाएँ। उन्होंने मौके पर एक-दो जगह बैरि-केडिंग कराए जाने का भी निर्देश दिया। उल्लेखनीय है कि खेलों इंडिया युनिवर्सिटी गेम्स के अंतर्गत बीएचयू

## प्रमिला पांडेय ने दूसरी बार महापौर पद की शपथ ली, चौमुखी विकास का किया वादा

कानपुर (कान्हापुर), (हि.स.)। प्रदेश की औद्योगिक नगरी कानपुर में दूसरी बार निर्वाचित महापौर प्रमिला पांडेय ने शनिवार को शपथ ग्रहण करने बाद कहा चौमुखी विकास होगा। जनता ने मुझे पुनः मौका दिया उसका लाभ जनता को देने का पूरा प्रयास करूंगी। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विकास सौत्री महाना और उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने हार्दिक बधाई एवं उज्वल कार्यकाल की शुभकामनाएं दीं।



प्रमिला पांडेय और नवनिर्वाचित पार्षदों को नगर निगम में शपथ दिलाई। समारोह में सम्मिलित विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने हार्दिक बधाई एवं उज्वल कार्यकाल की शुभकामनाएं दीं।

## पिहानी में एसडीएम ने पालिका अध्यक्ष और सभासदों को दिलाई शपथ

हरदोई, (हि.स.)। जूनियर हाई स्कूल प्रांगण में शनिवार को आयोजित शपथ ग्रहण कार्यक्रम में उपजिलाधिकारी (एसडीएम) धीरेन्द्र श्रीवास्तव ने नवनिर्वाचित पालिकाध्यक्ष शाहीन बेगम को पालिका अध्यक्ष की शपथ दिलाई। हालांकि तेज हवा व आंधी ने शपथ ग्रहण समारोह में व्यवधान डाल दिया। शपथ ग्रहण कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. हाफिज सलीमुल्लाह कुरैशी ने की। चेयरमैन शाहीन बेगम व सभासदों का स्वागत माल्यार्पण कर किया गया। अधिशासी अधिकारी अमित कुमार सिंह ने चेयरमैन को ब्रुकेंट कर सम्मान किया। इसके बाद अलग-अलग वाडों से निर्वाचित सभासदों में अचन्त मियां, रेनु गुप्ता,

शानू सिंह, रेनु देवी, विनोद, हिना, सविता कुमारी, नासिर, इकरार उर्फ कटन, मोहम्मद अतीक, आलिम, शादब, सुमन देवी, मटरे, मानसिंह, बलील, आबिद रजा, विनीत कुमार, फरजाना, मोहम्मद तैयब, चांद मियां, यामीन बेगम रिजवी, आफरीन, संतोष, बदनरत, समेत 25 सभासदों ने पद व गोपनीयता की शपथ ली। इस मौके पर एसडीएम धीरेन्द्र श्रीवास्तव ने कहा कि नव निर्वाचित अध्यक्ष व सभासद अपने दायित्वों को ईमानदारी और निष्ठा पूर्वक कार्य करेंगे। उन्होंने सभी सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई और उनके उज्वल भविष्य की कामना की। चेयरमैन शाहीन बेगम ने

ने शपथ ग्रहण के दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जनता ने जो भी जिम्मेदारी मुझे दी है, मैं उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ पूरा करने का काम करूंगी और अपने नगर को आदर्श नगर पालिका बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगी। शपथ ग्रहण समारोह को शैफ सईद खान, डाक्टर अंजल खान, चांद खान आदि लोगों ने संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन कैफी ने किया। सुरक्षा के दृष्टिकोण से सी ओ हेमंत उपध्याय मौजूद रहे। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद पिहानी अमित कुमार सिंह के साथ पालिका के कर्मचारी शपथ ग्रहण समारोह की व्यवस्थाओं में लग रहे।

## भरोली-सुजानपुर खंड में ब्लॉक के चलते छह ट्रेनों हॉंगी प्रभावित

मुरादाबाद, (हि.स.)। उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मण्डल के वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबन्धक/कोचिंग सुधीर सिंह ने शनिवार को बताया कि फिरोजपुर रेल मंडल के भरोली और सुजानपुर खंड के बारी-ब्राह्मण स्टेशन (बीबीएमएन) पर एफओबी के शुभारंभ पर 29 व 30 मई को यातायात ब्लॉक लिया जाएगा। जिसके चलते दो ट्रेनें निरस्त रहेंगी, एक ट्रेन शॉर्ट टर्मिनेशन, एक ट्रेन शॉर्ट ऑरिगिनेशन और दो रेलगाड़ियां रीशेड्यूलिंग (देरी से) चलेंगी। उन्होंने बताया कि रेलगाड़ी संख्या 04141 सुबेदारगंज-उधमपुर 29 मई को निरस्त रहेगी और ट्रेन संख्या 04142 उधमपुर सुबेदारगंज 30 मई को निरस्त रहेगी। रेलगाड़ी संख्या



12237 वाराणसी-जम्मूतवी 28 और 29 मई को पठानकोट कैंट पर शार्टटर्मिनेट रहेगी। रेलगाड़ी संख्या 12238 जम्मूतवी-वाराणसी 29 और 30 मई को पठानकोट कैंट पर शार्ट ऑरिगिनेशन रहेगी। रेल गाड़ी संख्या 15655 कामाख्या-श्री माता वैष्णो देवी कटरा 28 मई को कामाख्या स्टेशन से 240 मिनट देरी से और ट्रेन संख्या 12587 29 मई को गोरखपुर-जम्मूतवी गोरखपुर स्टेशन से 180 मिनट देरी से चलेगी।

## केंद्रीय गृह विभाग ने झारखंड पुलिस मुख्यालय से 66 डीएसपी के कैरेक्टर की मांगी जानकारी

रांची, (हि.स.)। केंद्रीय गृह विभाग ने झारखंड पुलिस मुख्यालय को पत्र लिखकर 66 डीएसपी के कैरेक्टर की जानकारी मांगी है। राज्य पुलिस सेवा में दस साल पूरे कर चुके 66 डीएसपी को एमएसपी का लाभ दिया जायेगा। गृह विभाग का पत्र मिलने के बाद पुलिस मुख्यालय ने जिले के एडीजी वायरलेस, बोकारो और हजारीबाग के डीआईजी, सभी जिले के एसएसपी, एसपी और सभी कमांडेंट से इन सभी डीएसपी के कैरेक्टर की जानकारी मांगी है। यह जानकारी झारखंड पुलिस मुख्यालय के आईजी एचआर अखिलेश झा ने शनिवार को दी। उन्होंने बताया कि 66 डीएसपी के कैरेक्टर की जानकारी एडीजी वायरलेस, डीआईजी, सभी जिले के एसएसपी, एसपी और सभी कमांडेंट से मांगी गई है। जानकारी मिलते ही मामले में नियम के तहत आगे की



कार्रवाई की जाएगी। इन डीएसपी में ओमप्रकाश तिवारी, विकास आनंद लालगुरी, मनीष कुमार, दिलीप खलखो, सुमित कुमार, चंद्र कुमार वरस, संतोष कुमार, प्रमोद कुमार केसरी, नाजीर अख्तर, अनुज उरांव, अभिषेक कुमार, अरविंद कुमार, अमर कुमार पांडे, पूनम मिंज, पुरुषोत्तम कुमार सिंह, प्रवीण कुमार सिंह, राजा कुमार मित्रा, दीपक कुमार, जीत वाहन उरांव, कपिल उरांव, प्रकाश सोए, जयदीप लकड़, बैजनाथ प्रसाद, नवनीत एंथोनी हेंब्रम, अजीत कुमार विमल, प्रदीप उरांव, मनोज

कुमार झा, आनंद ज्योति मिंज, मंगल सिंह जामुदा, धीरेन्द्र नारायण बंका, संजीव कुमार बेसरा, पवन कुमार, संदीप भगत, सकील आबिद शम्स, अजीत कुमार सिन्हा, विकास चंद्र श्रीवास्तव, कौसर अली, ज्ञानरंजन, तौकीर आलम, प्रदीप कुमार कच्छप, अमित कुमार कच्छप, अशोक कुमार सिंह, रणवीर सिंह, संजय कुमार, स-दुर्शन कुमार शानितक, मजबूल होदा, अविनाश कुमार, वचन देव कुजुर और सतीश चंद्र झा, संदीप कुमार गुप्ता, राजकिशोर, नीरज कुमार रजवार, समीर कुमार सवेया, अजीत केरकेट्टा, अरविंद कुमार वर्मा, वेंकटेश्वर रमन, बहामन टूटी, फैज अकरम, आशीष कुमार महली, मनोज कुमार महतो और भूपेंद्र प्रसाद रावत शामिल हैं।

## झारखंड के उत्कृष्ट विद्यालयों में प्रवेश परीक्षा 30 मई को

रांची, (हि.स.)। झारखंड के उत्कृष्ट विद्यालयों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। झारखंड के इन स्कूलों में एडमिशन के लिए आवेदन आना भी शुरू हो गया है। अब तक पूरे राज्यभर से एडमिशन के 40 हजार से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। पूरे राज्य में अभी फिनहल 12,146 सीटों पर एडमिशन होने वाला है। इन आवेदनों की स्कूटीने के बाद 30 मई को इन स्कूलों में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा ली जाएगी। प्रवेश परीक्षा के प्रत्येक जिलावार तैयार किए जाएंगे। सात जून को इस परीक्षा की मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। इस मेरिट लिस्ट के आधार पर 12 जून से एडमिशन शुरू हो जाएगा। इस आदेश के अनुसार अब से झारखंड के इन उत्कृष्ट विद्यालयों को सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के नाम से जाना जाएगा। स्कूली शिक्षा सचिव के र-चिकुमार ने बताया कि सभी जिलों में ये उत्कृष्ट विद्यालय अलग-अलग नामों से जान जायेंगे। पर सभी जिलों में नाम अलग-अलग रहने से सामंजस्य नहीं बन पा रही थी। इसलिए शिक्षा विभाग की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इन स्कूलों को अब से सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के नाम से जाना जाएगा। लड़कियों के स्कूल को सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गर्ल्स के नाम से जाना जाएगा। इसी के साथ ही साथ जिला स्कूलों के नाम के आगे डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ होगा।



आज जन औषधि केंद्र जन-जन्म को लाभ देकर वरदान साबित हो रहा है। जहां कि ना केवल 50 से 90 प्रतिशत तक कम दामों पर दवायां मिल रही हैं। बल्कि, महिलाओं के लिए उपयोगी सेनेटरी पैड भी मात्र एक रुपये में मिल रहा है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र गरीब मरीजों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस केंद्र के खुलने गरीब मरीजों को सस्ता और सुलभ दवा उपलब्ध हो रही है। इससे गरीब लोगों को दवा के खर्च में 50 से 90 प्रतिशत तक बचत हो रही है। यह परियोजना है तो पूरे देश के लिए वरदान। लेकिन सिर्फ बेगूसराय की बात करें तो आज की तारीख में है दस प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खुल चुके हैं। जिससे प्रत्येक वर्ष पांच लाख से अधिक लोग लाभान्वित हो रहे हैं तथा

## जिलास्तरीय खरीफ कर्मशाला-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ सफल आयोजन

बेतिया, (हि.स.)। खरीफ महाभियान-2023 अंतर्गत जिलास्तरीय खरीफ कर्मशाला-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल आयोजन शनिवार को डीआरसीसी के सभागार में सम्पन्न हुआ। जिलास्तरीय खरीफ कर्मशाला-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि खरीफ महाभियान के तहत किसानों को जागरूक एवं प्रेरित करने के उद्देश्य से 24 मई को राज्य स्तर पर जागरूकता रथ को जिले में रवाना किया गया था। आज इस कर्मशाला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम से सभी अधिकारी एवं कृषक गण लाभ उठाएँ। उन्होंने कहा कि खरीफ महाभियान अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा प्रगतिशील किसानों सहित अन्य किसानों को लाभान्वित किया जाना है। खरीफ महाभियान के तहत कृषि



विभाग सहित अन्य विभागों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से जिले के सभी किसानों को अवगत कराए तथा पात्र किसानों को लाभान्वित करें। परंपरागत कृषि के अलावे आधुनिक पद्धति को अपनाते हुए कृषि क्षेत्र में जिले को अग्रणी बनाएँ। कर्मशाला का उद्देश्य किसानों को जागरूक

## जिला परिषद उपचुनाव में देव चौहान ने मारी बाजी, पूर्व मंत्री गुट को झटका


नवादा, (हि.स.)। जिले में 303 सीटों पर ग्राम पंचायत उपचुनाव की मतगणना सोमवार को संपन्न करा ली गई है। जिसमें महत्वपूर्ण माने जाने वाले प्रतिष्ठा की नारादींग जिला परिषद पर पूर्व विधायक कौशल यादव गुट के देवा चौहान ने चुनाव जीतकर पूर्व मंत्री राजबल्लभ गुट को करारा पटकनी दी है। नवादा जिले के नारादींग जिला परिषद सीट उत्तरी भाग पूर्व मंत्री राजबल्लभ प्रसाद के भतीजे अशोक यादव के विधान पार्षद बन जाने के बाद खाली हुआ था। जिस कारण उस सीट के लिए राजबल्लभ प्रसाद ने बाल्मीकि यादव को प्रत्याशी बनाया था। वहीं पूर्व विधायक कौशल यादव ने जमात की राजनीत बताते हुए चौहान समाज के देवा चौहान को अपना उम्मीदवार बनाया। जिला परिषद सीट के लड़ाई में 4000 के वोट के अंतर से जोड़ी दर्ज करारक देवा चौहान ने पूर्व मंत्री राजबल्लभ गुट को करारा झटका



दिया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी दीपक कुमार मिश्रा ने चुनाव आयोग के निर्देश के बाद देवा चौहान को जीत का प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया है। वहीं छोटे-छोटे पदों के लिए हुए चुनाव के विजय प्रत्याशियों को भी विजय प्रमाण-पत्र निर्गत किए जाने का सिलसिला जारी है जो आज शाम 7:00 बजे तक पूरा कर लिया जाएगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी दीपक मिश्रा ने बताया कि शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना संपन्न करा ली गई है। सभी प्रक्रियाओं को पूरी कर सभी को प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया जाएगा।

## चित्रकूट मंडल के चारों जनपदों में रविवार को होगी अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा

बांदा, (हि.स.)। चित्रकूट धाम मंडल मुख्यालय के अखरोड़ गांव में नवनिर्मित आवासीय विद्यालय में प्रथम सत्र के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जा रही है। पहले सत्र में कक्षा छह के लिए प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होंगे। पहले सत्र में 40 बालक और 40 बालिकाओं का प्रवेश लिया जाएगा। इसके लिए कुल 323 बच्चे परीक्षा में सम्मिलित होंगे। इस आवासीय विद्यालय में श्रमिकों के बच्चों को जवाहर नवोदय विद्यालय के तर्ज पर शिक्षा दी जाएगी। उप ग्राम आधुनिक चित्रकूट क्षेत्र बांदा ए.के. सिंह ने बताया है कि अटल आवासीय विद्यालय अखरोड़, बांदा में शैक्षणिक सत्र 2023-24 कक्षा-6 में प्रवेश के लिए प्रवेश-परीक्षा, 28 मई 2023 को मण्डल के चारों जनपदों में आयोजित की जा रही है। जिसमें बांदा में 111, हमीरपुर में 143, महोबा में 49 व चित्रकूट में 20, कुल-323 छात्र-छात्राओं को परीक्षा पात्रता के



आधार पर प्रवेश-पत्र जारी किये गये हैं। जनपद-बांदा, राजकीय इण्टर कालेज में, जनपद-हमीरपुर, राजकीय बालिका इण्टर कालेज में, जनपद-महोबा, राजकीय बालिका इण्टर कालेज व जनपद-चित्रकूट राजकीय बालिका इण्टर कालेज के परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश परीक्षा आयोजित की जानी है। प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र पावे उम्मीदवारों का प्रवेश पत्र 21 मई 2023 से सम्य 10 बजे से पांच बजे तक प्रतिदिन वितरित किया जा है, किन्तु कुछ उम्मीदवार अपना प्रवेश-पत्र अपने-अपने जनपदीय कार्यालय-ग्राम अपने-अपनी तक प्राप्त नहीं किया गया है। ऐसे उम्मीदवार जो अपना प्रवेश पत्र

नहीं ले गये हैं, वे 27 मई 2023 को ग्राम कार्यालय से उपस्थित होकर प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं तथा जिन आवेदनकर्ताओं द्वारा प्रवेश-पत्र 27 मई तक किसी कारणवश प्राप्त नहीं किया जा सका है। उनके प्रवेश-पत्र जनपद के निर्धारित परीक्षा केंद्र पर परीक्षा के लिए नियत तिथि पर परीक्षा के प्रारम्भ होने के एक घण्टे पूर्व वहीं से प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि सभी परीक्षार्थी अपने परीक्षा केंद्र के एक घण्टे पूर्व पहुंच जायेंगे। प्रश्न-पत्र में 4 विकल्प दिये गये होंगे, जिसमें से एक सही होगा, जिसपर सही का निशान लगाना होगा। एक से अधिक विकल्प पर टिक करीने पर उत्तर गलत माना जायेगा। परीक्षा में काले, नीले बॉल प्वाइन्ट का ही प्रयोग किया जाय। पेन्सिल का प्रयोग न किया जाय तथा परीक्षा केंद्र पर मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी व कलकुलेटर लेकर उपस्थित होना वर्जित है।

## इस्लामिक जिहादियों के मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे: नीरज दौनरिया

गोण्डा, (हि.स.)। बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक नीरज दौनरिया ने कहा कि इस्लामिक जिहादियों के मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। विद्यार्थियों को यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत का इतिहास पराभव नहीं पराक्रम का इतिहास है। उन्होंने कहा कि संगठित हिन्दू युवा इन इस्लामिक जिहादी षड्यंत्रों को उखाड़ फेंकेगे। वह गोण्डा के सरस्वती विद्या मंदिर इण्टर कालेज बड़गांव में आयोजित बजरंग दल के प्रांतीय शौर्य प्रशिक्षण वर्ग में हिस्सा लेने आये थे। बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक का इन दिनों देशभर में प्रवास चल रहा है। अवध प्रांत के शौर्य प्रशिक्षण वर्ग में अपने प्रवास के तहत व गोण्डा आये थे। प्रान्तभर से प्रशिक्षण लेने आये बजरंगियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महाराजा सुहेलदेव ने इसी अवधि की



धरती पर सैय्यद सालार मसूद गाजी को उसकी सेना समेत गाजर मूली की तरह काट डाला था। नीरज दौनरिया ने कहा कि पहले भी महा-राणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज ने विदेशी आक्रमणकारियों को उखाड़ फेंका था। उन्होंने कहा कि हर हालत में हम कट्टरपंथ को समाप्त करेंगे। लव जिहाद, लैड

जिहाद, गो बह्या व तस्करी के सामने बजरंग दल चुनौती बनकर खड़ा है। इससे कट्टरपंथी भयभीत हैं। बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात करने वाले पत्राप और छत्रपति शिवाजी महाराज ने विदेशी आक्रमणकारियों को उखाड़ फेंका था। उन्होंने कहा कि हर हालत में हम कट्टरपंथ को समाप्त करेंगे। लव जिहाद, लैड

## आदिवासी सेंगल अभियान का भारत बंद 15 जून को

रांची, (हि.स.)। आदिवासी सेंगल अभियान के अध्यक्ष सालखन मुर्मु ने सरना धर्म कोड को मान्यता देने सहित बंद काँगों को लेकर 15 जून भारत बंद का की घोषणा की है। सरना समिति के सदस्यों और आदिवासी समाज के साथ बैठक करने के बाद आदिवासी सेंगल अभियान के अध्यक्ष सह पूर्व सांसद सालखन मुर्मु ने कहा कि भारत बंद के बाद 30 जून विषय सरना धर्म जनसभा का आयोजन



कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में किया जाएगा। इसमें पांच लाख से ज्यादा लोग शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि 2011 की जनगणना में जैन धर्म को मानने वालों की संख्या 44 लाख

है जबकि आदिवासियों की संख्या 50 लाख। इसके बावजूद सरना धर्म कोड को अवतक मान्यता नहीं मिली है। जैन समुदाय वालों को मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि गिरिडीह के पुरसननाथ में मारांग बुर पहाड़ आदिवासियों के ईश्वर हैं लेकिन झारखंड सरकार ने पांच जनवरी को भारत सरकार को यह लिखकर दे दिया कि वह पहाड़ जैन धर्म का है, जो कि आदिवासी समाज को अस्वीकार है।

## गरीबों के लिए वरदान साबित हो रहा है "प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र"

बेगूसराय, (हि.स.)। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेन्द्र मोदी ने सस्ती और सुलभ दवा उपलब्ध कराने के लिए जन औषधि केंद्र को बढ़ावा देना शुरू किया। इससे करोड़ों लोगों को दवा पर होने वाली खर्च की चिंता से मुक्ति मिली। आज जन औषधि केंद्र जन-जन्म को लाभ देकर वरदान साबित हो रहा है। जहां कि ना केवल 50 से 90 प्रतिशत तक कम दामों पर दवायां मिल रही हैं। बल्कि, महिलाओं के लिए उपयोगी सेनेटरी पैड भी मात्र एक रुपये में मिल रहा है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र गरीब मरीजों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस केंद्र के खुलने गरीब मरीजों को सस्ता और सुलभ दवा उपलब्ध हो रही है। इससे गरीब लोगों को दवा के खर्च में 50 से 90 प्रतिशत तक बचत हो रही है। यह परियोजना है तो पूरे देश के लिए वरदान। लेकिन सिर्फ बेगूसराय की बात करें तो आज की तारीख में है दस प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खुल चुके हैं। जिससे प्रत्येक वर्ष पांच लाख से अधिक लोग लाभान्वित हो रहे हैं तथा

प्रेरित नहीं करते हैं। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर भी नहीं चाहते हैं कि लोग यहां से सस्ते मूल्य पर दवा खरीदें। क्योंकि जन औषधि केंद्र की दवा खरीद कर डॉक्टरों को मोटा तो छोड़िए, छोटा कमीशन भी नहीं मिलता है। जन औषधि केंद्र के संचालक नितेश कुमार कहते हैं कि यहां पर डायबिटीज, कैंसर, हृदय रोग समेत सभी गंभीर से गंभीर बीमारी की दवा उपलब्ध है। जन औषधि केंद्र में बेटियों और महिलाओं का भी खास ध्यान रखा गया है। यहां सेनेटरी पैड मात्र एक रुपये में मिलती है, जो बाजार से कई गुणा सस्ता है। उन्होंने कहा कि संचालित हैं। जहां की बड़े पैमाने पर लोग दवाओं की खरीद कर रहे हैं। दवा खर्च में हो रहे अभूतपूर्व बचत से लोगों को बड़े पैमाने पर बचत हो रही है। हालांकि इस केंद्र में गरीबों को सस्ती दवा मिलने से दवा व्यवसाय पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। जिसके कारण ना केवल दवा मालिक को नुकान हुआ है कुचक्र रचते रहते हैं। बल्कि डॉक्टर भी यहां लोगों को दवा लेने के लिए



# अमेरिका में किशोर ने की अपने ही परिवार हत्या की: इनमें 5 साल का भाई भी शामिल, आरोपी बोला- वो नरभक्षी थे, मुझे खाना चाहते थे



**टेक्सास।** अमेरिका के टेक्सास में एक 18 साल के किशोर सीजर ओलेड ने अपने मां-बाप और भाई-बहनों की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक, पृष्ठछाप के दौरान उसने बताया कि उसके परिवार के लोग नरभक्षी थे और उसे खाने की प्लानिंग कर रहे थे। टेक्सास के नाशा शहर में पुलिस को सूचना मिली थी कि एक किशोर ने अपने घर में परिवार वालों को बंदी बना रखा है। परिवार के सदस्यों की हत्या के बाद आरोपी ने खुद मौत करके पुलिस को इसकी जानकारी दी। फौंके पर पहुंची पुलिस ने ओलेड को संरेंडर

करने के लिए कहा। इसके बाद घर में जाने पर उन्हें 4 शव मिले। इसमें ओलेड के माता-पिता, बड़ी बहन और 5 साल के एक भाई का शव शामिल था। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने परिवारों वालों पर कई बार गोली चलाई। इसके बाद वो शवों को खींचकर बाथरूम तक ले गया। पूरे घर में कई जगहों पर खून था।

**आरोपी ने परिवार को बंदी बनाया था -** पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी सीजर ओलेड को मां लिसबेट ओलेड का घर नहीं गई थी। इस वजह से उनके साथ काम करने वाले जोसफ फ्लाइडर उनके घर हालचाल लेने पहुंचे। यहां उन्हें दरवाजा खटखटाते पर कोई

जवाब नहीं मिला। इसके बाद ओलेड के परिवार का एक सदस्य भी वहां आया। दोनों लोग जबरदस्ती घर में दाखिल हुए तो देखा कि सीजर ने अपने पूरे परिवार को बंदी बना रखा है। उसने घर आए लोगों को भी जान से मारने की धमकी दी। सीजर लगातार अपने घरवालों को नरभक्षी बता रहा था। इसके बाद फ्लाइडर ने पुलिस को मामले की सूचना दी। आरोपी सीजर को 82.5 करोड़ रुपए के बॉन्ड पर जेल भेजा गया है। उसके पड़ोसी रॉबर्ट वॉर्ड ने बताया कि ओलेड फैमिली के लोग काफी खुशहाल और मेहनती थे। उनकी बेटी लिसबेट ने हाल ही में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया था। आरोपी सीजर

भी बहुत अच्छे लड़का था और वो एल्मबर बनने के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होने वाला था।

**4 महीनों में 200 मास शूटिंग की घटनाएं -** गन वायलेंस आर्काइव के मुताबिक, इस साल अमेरिका में 200 से ज्यादा मास शूटिंग की घटनाएं हुई हैं। 2006 से लेकर अब तक अमेरिका में सामूहिक हत्या के 556 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें करीब 2,892 लोगों की जान गई है। पिछले 2 दशकों में औसत हर साढ़े तीन हफ्ते में ऐसा एक मामला सामने आता है।

**अमेरिका की आबादी 33 करोड़ और**

**यहां 40 करोड़ गन -** नागरिकों के बंदूक रखने के मामले में अमेरिका दुनिया में सबसे आगे है। स्विट्जरलैंड के स्मॉल आर्म्स सर्वेयानो एसएसएस की रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया में मौजूद कुल 85.7 करोड़ सिविलियन गन में से अकेले अमेरिका में ही 39.3 करोड़ सिविलियन बंदूक मौजूद हैं। दुनिया की आबादी में अमेरिका का हिस्सा 5 प्रतिशत है, लेकिन दुनिया की कुल सिविलियन गन में से 46 प्रतिशत अकेले अमेरिका में हैं। अक्टूबर 2020 के गैलप सर्वे के मुताबिक, 44 प्रतिशत अमेरिकी वयस्क उस घर में रहते हैं, जहां बंदूकें हैं, इनमें से एक तिहाई वयस्कों के पास बंदूकें हैं।

## इमरान की मेडिकल रिपोर्ट... यूरिन सैम्पल में शराब-कोकीन मिले

# 6 महीने प्लास्टर लगाकर घूमे, फ्रैक्चर तो दूर खरोंच तक नहीं निकली

**इस्लामाबाद।** पाकिस्तान सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट जारी कर दी है। खान को 9 मई को नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो यानी एनएबी ने 60 अरब रुपए के अल कादिर ट्रस्ट स्कैम में गिरफ्तार किया था। कस्टडी में लेने के बाद खान को मेडिकल टेस्ट कराया गया था। यह रिपोर्ट सामने आती, इससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने खान को तमाम कैशों में जमानत दे दी थी। अब इस रिपोर्ट के कुछ हिस्से हेल्थ मिनिस्टर अब्दुल कादिर पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पढ़कर सुनाए।

**यह रिपोर्ट क्यों अहम**



मुताबिक- अदालतें सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल की रिपोर्ट ही मानती हैं। हैरानी की बात है कि इमरान ने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट्स में अपने घरेलू हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स पेश कीं और उन्हें जमानत भी मिल गई।

9 मई को जब प्लान्की ने उन्हें गिरफ्तार किया तो पांच सीनियर डॉक्टरों का एक पैनल बनाया गया। इसने खान के तमाम टेस्ट किए। खान तो सैम्पल देने के लिए भी तैयार नहीं थे। किसी तरह जब सैम्पल दिए तो कन्सेंट फॉर्म पर सिग्नेचर नहीं किए। हालांकि, जांच एजेंसी ने सबूत के तौर पर वीडियोग्राफी करा ली थी।

**हेल्थ मिनिस्टर बोले- फ्रैक्चर तो था ही नहीं**

प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेल्थ मिनिस्टर अब्दुल कादिर पटेल ने कहा- इमरान दावा करते रहे कि सात महीने पहले वजीराबाद में उन पर जानलेवा हमला हुआ था और इसमें उनके पैर में गोली लगी थी। वो 6 महीने तक जहां जाते थे, पैर में प्लास्टर लगाकर जाते। सीनियर

डॉक्टरों के पैनल ने जो रिपोर्ट दी है, उसमें फ्रैक्चर की बात तो दूर, खरोंच तक नहीं मिली।

पटेल ने आगे कहा- खान के यूरिन सैम्पल में शराब और कोकीन (टॉक्सिक सबस्टेंस) मिली है। सबसे हैरानी की बात यह है कि खान को मेंटली अनफिट बताया गया है। सोचिए यह शख्स हमारे मुल्क का करीब चार साल तक वजीर-ए-आसम रहा। खान की दिमागी हालत पर मेडिकल पैनल ने लिखा- मेंटल स्टैबिलिटी इज कंशेचेनेबल।

मीडिया के सवालों के जवाब में पटेल ने कहा- खान की मेडिकल रिपोर्ट इसलिए जारी की जा रही है, क्योंकि यह पब्लिक डॉक्यूमेंट है। नशे के आदी इस आदमी ने पाकिस्तान के युवाओं को भी गलत रास्ते पर डाल दिया। डॉक्टरों ने साफ कहा है कि इमरान मेंटली फिट नहीं हैं।

**गिरफ्तारी के बाद पूरे पाकिस्तान में हुई थी हिंसा**

9 मई 2023 को इमरान खान को

## सोचते ही चलने लगा लकवाग्रस्त मरीज

# साइटिस्ट ने दिमाग-रीढ़ की हड्डी के कनेक्शन को जोड़ने वाली डिवाइस बनाई, विचारों को एक्शन में बदलती है



**बर्न (स्विट्जरलैंड)।** लकवाग्रस्त मरीज अब सोचते ही चल सकेंगे। कोई भी जरूरी काम कर सकेंगे। दरअसल साइटिस्टों ने एक ऐसी डिवाइस बनाई, जो दिमाग-रीढ़ की हड्डी के कनेक्शन को जोड़ती है और विचारों को एक्शन में बदलती है। इसे वायरलेस डिजिटल ब्रिज नाम दिया गया है। स्विट्जरलैंड के लुगाने स्थित स्विस् फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की टीम ने इस इंटरफेस ब्रिज को तैयार किया है। यह टूट चुकी रीढ़ और दिमाग के बीच के कनेक्शन को फिर जोड़ देता है। ये इलेक्ट्रिक स्विच, टच स्क्रीन की तरह काम करता है, जिसमें संकेत मिलते ही एक्शन होता है। दरअसल दिमाग और रीढ़ के बीच का कनेक्शन जब टूट जाता है तो कोई भी अंग लकवाग्रस्त हो सकता है। इसका प्राकृतिक रूप से दोबारा कनेक्शन मुश्किल है, लेकिन अब यह खोज उन्हें अपने काम करने में मदद करेगी। इसे स्विट्जरलैंड की पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी ईपीएफएल ने तैयार किया है। ये डिजिटल ब्रिज एक ब्रेन-स्पाइन

इंटरफेस होता है, जो दिमाग और रीढ़ की हड्डी के बीच खोए हुए कनेक्शन को रिस्टोर करने का काम करता है। आसान शब्दों में कहें तो ये वायरलेस डिजिटल ब्रिज डिवाइस लकवाग्रस्त अंग के मूवमेंट को कंट्रोल करने में मदद करता है। इस की मदद से 40 साल के गर्ट-जान ओस्कम, वॉकर के सहारे अपने पैरों पर खड़े हो सके और चल पाए। 2011 में नोर्दलैंड के गर्ट-जान ओस्कम का एक्सीडेंट हो गया था। उस दौरान वो चीन में रहते थे। हादसे का बाद वो पैरालाइज्ड हो गए थे। उनके पैरों ने काम करना बंद कर दिया था। वो न तो चल पाते थे और न ही खड़े हो पाते थे। अब डिजिटल इम्प्लांट के जरिए वो अपने दिमाग से ही पैरों को शिफ्ट करने का काम कर सकते हैं। इएसपीएल के न्यूरोसाइंस के प्रोफेसर प्रोगोइरे कोर्टाइन ने बताया, हमने दिमाग और रीढ़ की हड्डी के बीच एक वायरलेस इंटरफेस बनाया के लिए ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस तकनीक का इस्तेमाल किया। ये तकनीक दिमाग के थॉट को एक्शन में बदल देती है।

## नाटो प्लस का हिस्सा बने भारत, अमेरिकी समिति की बाइडन सरकार से मांग- चीन को टक्कर देने के लिए यह जरूरी

**वाशिंगटन।** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने अमेरिका के दौर पर जाने वाले हैं। इस बीच, अमेरिका की एक कांग्रेस समिति ने बाइडन सरकार से भारत को नाटो प्लस का हिस्सा बनाने की सिफारिश की है। समिति का कहना है कि भारत के शामिल होने से नाटो प्लस को मजबूती मिलेगी। बता दें, नाटो प्लस एक सुरक्षा व्यवस्था है, जो वैश्विक रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। इसमें पांच देशों के बीच गठबंधन है। ये देश अस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजरायल और दक्षिण कोरिया हैं।

**छठ सदस्य बनाने की सिफारिश -** बताया जा रहा है कि अगर नाटो प्लस का छठा हिस्सा भारत को बनाया जाता है, तो इन देशों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने में सुविधा होगी। साथ ही अगर भारत को नाटो प्लस में शामिल किया जाता है तो देश को अमेरिका के साथ रक्षा-सुरक्षा से आसानी से जोड़ा जा सकेगा।

**ताइवान की सुरक्षा के लिए जरूरी -** संयुक्त राज्य अमेरिका और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) के बीच सामरिक प्रतिस्पर्धा पर



सदन की चयन समिति के अध्यक्ष माइक गैलाघेर और रैकिंग सदस्य राजा कृष्णमूर्ति के नेतृत्व में, नाटो प्लस को मजबूत बनाने के लिए भारत को शामिल करने सहित ताइवान की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक नीति प्रस्ताव को रखा गया। सदन की चयन समिति ने सिफारिश करते हुए कहा कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ रणनीतिक प्रतिस्पर्धा जितना और ताइवान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका को भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने की जरूरत है।

**इसलिए समिति का नाम -** समिति ने कहा कि अगर नाटो प्लस का हिस्सा भारत को बनाया जाता है तो वैश्विक सुरक्षा को मजबूत मिलने के साथ ही भारत-प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामकता को रोकने के लिए अमेरिका और भारत की करीबी साझेदारी बढ़ेगी।

## जंग का खर्चा निकालने रूस बेचेगा जेलेंस्की का पेंटहाउस, रूसी नेता बोले- ये हमारी संपत्ति, इससे दुश्मनों को फायदा नहीं होने देगे

**क्रोमिया।** रूस-यूक्रेन जंग पिछले 15 महीनों से जारी है। इस बीच रूस ने जेलेंस्की का हॉलिडे पेंटहाउस बेचने का फैसला किया है। उसने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के इस घर के साथ ही 57 प्रॉपर्टीज को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया है। जेलेंस्की का ये घर उनकी पत्नी ओलेना जेलेंस्का के नाम पर है। ये क्रोमिया में ब्लैक सी के तट पर बना हुआ है। क्रोमिया के स्पीकर व्लादिमीर कोन्सटेंटिनोव ने कहा- हम इस घर को बेचने की सूचना जारी करेगे। इससे मिलने वाले पैसों का इस्तेमाल यूक्रेन में चल रहे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन और जंग में मारे गए सैनिकों के परिवारों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जेलेंस्की का पेंटहाउस बेचने पर रूसी नेता ने कहा कि क्रोमिया रूस का हिस्सा है। हम



यहां की संपत्ति से रूस के दुश्मनों को मुनाफा नहीं होने देगे। रूस जंग के दौरान अपनी मिलिट्री पर 7 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च चुका है। जेलेंस्की की पत्नी ने 2013 में खरीदा था पेंटहाउस, अब इसकी कीमत साढ़े 6 करोड़ रुपए तक बढ़ गई है। जेलेंस्की की पत्नी ओलेना जेलेंस्का

अभी रेनोवेशन का काम बचा हुआ था। रूसी स्टेट मीडिया ने अब इस घर की कीमत करीब साढ़े 6 करोड़ रुपए बताई है। क्रोमिया में 65 प्रतिशत लोग रूसी मूल के, जबकि 15 प्रतिशत लोग यूक्रेनी यूक्रेन साल 1991 में आजाद हुआ था। क्रोमिया हमेशा से यूक्रेन का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक सौंपत नेता ने तोहफे के तौर पर इसे यूक्रेन को सौंपा था। क्रोमिया में 65 प्रतिशत लोग रूसी मूल के हैं, जबकि 15 फीसदी यूक्रेनी मूल के लोगों की है। साल 2010 में, यूक्रेन ने रूस के साथ समझौता किया, जिसके तहत रूसी सेना के बेड़े को 25 साल तक क्रोमिया में रहने की इजाजत दी गई। इसके बजाय रूस ने गैस की कीमतें 30 फीसदी कम कर दीं। मार्च 2014 में क्रोमिया में रूसी शासन के पक्ष में 96 प्रतिशत मतदान हुआ था।

## सूडान सिविल वॉर से रुक सकती है सॉफ्ट ड्रिंक्स सप्लाई

# यहां पैदा होने वाली खास गोंद पेप्सी-कोक के लिए जरूरी, मेडिकल इंडस्ट्री पर भी असर

**सूडान।** 15 अप्रैल से शुरू हुए सूडान के सिविल वॉर का असर बहुत जल्द सॉफ्ट ड्रिंक्स इंडस्ट्री समेत कई बड़ी मैनुफैक्चरिंग यूनिट्स पर पड़ सकता है। इसकी वजह एक खास तरह की गोंद या गम है। इसे एकेसिया गम कहा जाता है। कोक और पेप्सी जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स मेकर ने साफ कर दिया है कि अगर यह जंग नहीं रुकी तो 3 से 6 महीने में सप्लाई बंद हो सकती है। इसके अलावा ड्रग इंडस्ट्री पर भी इसका असर पड़ सकता है। दुनिया में इस्तेमाल होने वाला कुल अरेबिक गोंद का 66 प्रतिशत सूडान में ही पैदा होता है।

**जंग का असर इन चीजों पर**

कोक और पेप्सी जैसे मल्टीनेशनल ब्रांड्स में सूडान और अफ्रीका के इस हिस्से में आने वाले कुछ देशों का गोंद इस्तेमाल होता है। अगर जंग इसी रफ्तार से जारी रहती है तो इसका असर इन ब्रांड्स की सप्लाई पर पड़ना तय है। इस गम का इस्तेमाल सॉफ्ट ड्रिंक्स के फ्लेवर को बनाए रखने में होता है। इसके अलावा सॉफ्ट

ड्रिंक्स के कलर और हर सिप के टेस्ट को बनाए रखने में भी इसका अहम रोल होता है। व्यूइंग गम और सॉफ्ट कैन्डी में यही गोंद इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा वॉटरकलर पेंट्स, टायल्स की शैडिंग, प्रिंट मैकिंग, ग्लू, कॉस्मेटिक्स, फार्मास्युटिकल्स, वाइन, शू पॉलिश क्रीम और कुछ रोजनपत्तों के प्रोडक्ट्स में भी यही गम काम आता है।

सूडान की जीडीपी का 70 प्रतिशत इसी गम या गोंद से आता है। इससे भी बड़ी बात यह है कि यूएन की एक स्पेशल एक्सपर्ट टीम इस गोंद की पैदावार बढ़ाने के लिए कई साल से काम कर रही है। इतना ही नहीं इससे 20 प्रतिशत के करीब प्रोडक्शन बढ़ा भी है।

**इन देशों में पाया जाता है ये गम**

सूडान में तो इस गोंद का उत्पादन होता ही है। इसके अलावा इसी जंग में आने वाले अफ्रीकी देशों मसलन- चाड, नाजिरिया, सेनेगल और माली में भी इस मैनुचुरल गम के पेड़ पाए जाते हैं। इस एकेसिया गम के अलावा इसका एक और रूप भी सूडान के कोडोफेन रोजन में पाया जाता है।



इस गोंद का नाम ही कोडोफेन गम पड़ गया है। दिक्कत यह है कि 15 अप्रैल को सूडान में सिविल वॉर शुरू होने के बाद इस गोंद की पैदावार तो पहले की तरह हो रही है, लेकिन दारफूर और खारतूम के रास्ते बंद हो चुके हैं, लिहाजा एक्सपोर्ट मुमकिन नहीं है। इस बिजनेस से जुड़े एक कारोबारी हमीदी कहते हैं- यह गोंद दूरदराज के रेगिस्तानी इलाकों में होता है। वहां के लोगों से बड़े कारोबारी इसे खरीदते हैं और फिर इसे दुनिया के

हर हिस्से में एक्सपोर्ट करते हैं। अब अगर कोई इसे शहरों तक लाने की कोशिश करता है तो उसकी जान भी जा सकती है। इस गोंद के पेड़ करीब 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैले हैं।

**यूएन की वॉरनिंग**

ट्रेड और डेवलपमेंट से जुड़े यूएन के एक एक्सपर्ट ने कहा- अगर जंग बंद नहीं हुई, हालात नहीं सुधरे तो यकीन मानिए कि दुनिया पर इसका जबरदस्त असर होगा। आखिर किसी न किसी तौर पर यह गोंद कई बेहद जरूरी चीजों को बनाने में इस्तेमाल होता है। इसलिए हम सभी पक्षों से अपील कर रहे हैं कि किसी तरह इस जंग को खत्म कराइए। उम्मीद है यह काम जल्द होगा।

**सूडान के लोग देश छोड़ रहे**

लड़ाई के चलते इलाकों में पानी और बिजली की सप्लाई रुक गई है। लोगों को खाने के लिए भोजन भी नहीं मिल रहा है। इसके चलते करीब 20 हजार लोगों ने देश छोड़ दिया है। इनमें से ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। इन्होंने पड़ोसी देश चाड में शरण ली है।

**सूडान में हिंसा की वजह**

सूडान में मिलिट्री और पैरामिलिट्री के बीच चर्चस्व की लड़ाई है। 2019 में सूडान के तत्कालीन राष्ट्रपति ओमर अल-बशीर को सत्ता से हटाने के लिए लोगों ने प्रदर्शन किया। अप्रैल 2019 में सेना ने राष्ट्रपति को हटाकर देश में तख्तापलट कर दिया, लेकिन इसके बाद लोग लोकतांत्रिक शासन और सरकार में अपनी भूमिका को मांग करने लगे। इसके बाद सूडान में एक जॉइंट सरकार बना गठन हुआ, जिसमें एक बहादुर जर्जुना और मिलिट्री दोनों का रोल था। 2021 में यहां दोबारा तख्तापलट हुआ और सूडान में मिलिट्री रूल शुरू हो गया।

आर्मी चीफ जनरल अब्देल फतह अल-बुरहान देश के राष्ट्रपति और लीडर मोहम्मद हमदान डगागोले उपराष्ट्रपति बन गए। इसके बाद से सेना के बीच संघर्ष जारी है।

सिविलियन रूल लागू करने की डील को लेकर मिलिट्री आमने-सामने हैं। सिविलियन गम की 10 साल बाद लागू कराता नहीं है, जबकि आर्मी का कहना है कि ये 2 साल में ही लागू हो जाना चाहिए।

विपक्षी नेता का दावा, पीएम मोदी से जलते हैं ऑस्ट्रेलियाई नेता, 20 हजार की भीड़ भी नहीं जुटा सकते

सिडनी (ऑस्ट्रेलिया)। ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता पीटर डटन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर सताधारी नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई राजनेता पीएम मोदी के जलते हैं। उन्होंने कहा कि वे इसलिए जलते हैं कि उनमें से कोई भी 20,000 लोगों को इकट्ठा करने और उनसे मोदी-मोदी उपनाम के जैसे नारे लगवाने में सक्षम नहीं है। उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए भारतीय समुदाय के काम की सराहना की। ऑस्ट्रेलियाई संसद को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष डटन ने कहा कि एक असाधारण घटना हुई। उन्होंने कहा कि वहां राजनीति के दोनों पक्षों से बहुत सारे लोग उपस्थित थे, लेकिन मैंने प्रधानमंत्री से कहा कि पिछली रात वहां हर राजनेता इस बात से जल रहा था कि वह (पीएम मोदी) दुनिया के दूसरे सेना में भी 20,000 लोगों को इकट्ठा करने और उनसे अपने उपनाम के नारे लगवाने में सक्षम थे। खासकर यह जलन लेबर पार्टी के नेताओं में था। उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि यह एक असाधारण घटना थी और मैं वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी की मेजबानी में भारतीय समुदाय के काम की सराहना करता हूँ।



उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई राजनेता पीएम मोदी के जलते हैं। उन्होंने कहा कि वे इसलिए जलते हैं कि उनमें से कोई भी 20,000 लोगों को इकट्ठा करने और उनसे मोदी-मोदी उपनाम के जैसे नारे लगवाने में सक्षम नहीं है। उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए भारतीय समुदाय के काम की सराहना की। ऑस्ट्रेलियाई संसद को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष डटन ने कहा कि एक असाधारण घटना हुई। उन्होंने कहा कि वहां राजनीति के दोनों पक्षों से बहुत सारे लोग उपस्थित थे, लेकिन मैंने प्रधानमंत्री से कहा कि पिछली रात वहां हर राजनेता इस बात से जल रहा था कि वह (पीएम मोदी) दुनिया के दूसरे सेना में भी 20,000 लोगों को इकट्ठा करने और उनसे अपने उपनाम के नारे लगवाने में सक्षम थे। खासकर यह जलन लेबर पार्टी के नेताओं में था। उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि यह एक असाधारण घटना थी और मैं वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी की मेजबानी में भारतीय समुदाय के काम की सराहना करता हूँ।

# नए संसद भवन का विरोध करने वालों से अनिल विज ने किया सवाल


चंडीगढ़ (हिस)। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने नए संसद भवन का बहिष्कार कर रहे सांसदों एवं विपक्षी दलों को आड़े हाथों लेते हुए उनसे सवाल किए हैं। विज ने शनिवार को ट्वीट करते हुए कहा कि नए संसद भवन का जो सांसद और पार्टियां बहिष्कार कर रही हैं वह बहिष्कार स्थाई है या अस्थायी है। इस बारे में देश की जनता को स्पष्ट करें। विज ने कहा कि बहिष्कार करने वाले सांसद बताएं कि क्या अब वह कभी भी इस नए संसद भवन में नहीं आएंगे और इसलिए संसद भवन



में आने के लिए वह चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। वहीं पत्रकारों से बातचीत में विज ने कहा कि वह जानना चाहते हैं कि नए संसद भवन का कुछ पार्टियां व सांसद बहिष्कार कर रहे हैं उनका बहिष्कार स्थाई है या अस्थायी है। क्या अब वह कभी भी इस सदन में आकर नहीं बैठेंगे। क्या वह लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, जिसके कारण यह सदन में आकर बैठते हैं। उन्होंने कहा कि जनता यह जानना चाहती है कि अब यह क्या करते हैं। नए संसद भवन का 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया जाना है।

# आंधी-तूफान में जान गंवाने वालों के परिजनों को मिलेंगे पांच लाख रुपए

जयपुर (हिस)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में गुरुवार रात आए आंधी-तूफान, बरसात और ओलावृष्टि से हुए नुकसान पर चिंता व्यक्त करते हुए आपदा में जान गंवाने वाले सभी मृतकों के परिजनों को पांच लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने शनिवार को सोशल मीडिया पर ये जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश के कई जिलों में आए आंधी, तूफान व बारिश से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। राज्य सरकार पीडितों को हरसंभव सहायता करेगी। इस आपदा में जान गंवाने वाले सभी मृतकों की आत्मा की शांति की कामना करता हूँ। सभी मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए सहायता राशि दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि गुरुवार रात को 96 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से आए तूफान के साथ बारिश ने प्रदेशभर में कहर बपा दिया। वर्षाजनित हादसों में प्रदेश में 16 लोगों की जान चली गई, जिनमें से छह बच्चे और सात बुजुर्ग थे। सबसे अधिक 12 मौतें टोंक में हुईं। यहां चालीस से अधिक घायल भी हुए। जयपुर के आमरे में एक व्यक्ति, सर्वाई माधोपुर में एक बुजुर्ग महिला, बीकानेर में पांच साल की बच्ची और



जोधपुर में ट्रैक्टर ड्राइवर की जान चली गई। तूफान और बारिश में हजारों बिजली के पोल और पेड़ गिरे। कई मकान धराशायी हो गए। इसके अलावा बिजली खंभे और ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त होने से आधे राजस्थान में ब्लैक आउट हो गया। पशुधन का भी बड़ा नुकसान हुआ है।

# लकवा ग्रसित मरीजों के विशेष एवं बेहतर उपचार के लिए स्ट्रोक यूनिट की शुरुआत

बीकानेर (हिस)। सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर से सम्बद्ध सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक (एसएसबी) के न्यूरोलॉजी विभाग में शनिवार को सभी प्रकार के लकवे से ग्रसित मरीजों के विशेष एवं बेहतर उपचार के लिए स्ट्रोक यूनिट की शुरुआत की गई। इस अवसर पर प्राचार्य एवं निर्यंत्रक डॉ. गुंजन सोनी, विभाग अध्यक्ष डॉक्टर जगदीश चंद्र कूकना, एसएसबी प्रभारी डॉ. गिरीश प्रभाकर, दिल्ली एम्स के लकवा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रोहित भाटिया, डॉक्टर इंद्रप्रदी, डॉक्टर महेंद्र सिंह सिसोदिया, डॉक्टर अजय श्रीवास्तव सहित विभाग के अन्य कार्मिक उपस्थित रहे। प्राचार्य डॉक्टर सोनी ने बताया कि बीकानेर के पीबीएम अस्पताल के न्यूरोलॉजी विभाग में यह स्ट्रोक यूनिट शुरू होने से लकवे से ग्रसित मरीजों को विशेष केयर के साथ अति विशेष स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर उन्हें जागरूक किया जाएगा। इसी के साथ मरीजों को टाइम बाउंड उपचार उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि लकवे से ग्रसित मरीजों को समय रहते बेहतर उपचार प्राप्त हो सके साथ ही अपनी बीमारी को लेकर जागरूक हो पाएंगे। न्यूरोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. जगदीश चंद्र कूकना ने बताया कि इस यूनिट में विशेष परिशिक्षित कार्मिकों की ड्यूटी लगाई जाएगी एवं समय समय पर इन कार्मिकों को विशेष प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा।

# सीएम के जनसंवाद कार्यक्रमों में फूटने लगा जनता का गुस्सा : अभय चौटाला

हिसार (हिस)। इनलो के प्रधान महासचिव एवं विधायक अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रमों में अब जनता का गुस्सा फूटने लगा है। उन्होंने कहा कि जैसे अब मुख्यमंत्री को बंधक बनाया गया है, वैसे आने वाले समय में लोग भाजपा और जजपा के उम्मीदवारों को भी गांवों में घुसने नहीं देंगे। वे शनिवार को परिवर्तन पदयात्रा आपके द्वार के 86वें दिन जिले के बरवाला, हंसी व नारनौद हलके के गांव राजली, धिराय, सिंघवा व मसूदपुर में ग्रामीणों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इनलो की सरकार बनने पर हम जनता की उम्मीद के अनुसार ही जनता के हित के फैसले लेंगे और जितनी भी समस्याएं इस यात्रा के दौरान लोगों ने सामने रखी हैं उनका पहली कलम से निवारण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी विघटन के दौरान इनलो को जो छोड़ कर गए थे, उनमें से 90 प्रतिशत लोगों की घर वापसी हो चुकी है। इनलो नेता ने कहा कि



मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रमों में प्रदेश की जनता ने जबरदस्त विरोध कर अपना रुख साफ करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट रहा है। शुक्रवार को महेंद्रगढ़ जिला के गांव दोगड़ा अहीरों में लोगों ने सीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और करीब चार घंटे तक बंधक बना कर रखा। इससे पहले सिरसा जिला के गांव बणी की महिला सरपंच ने विरोधस्वरूप जनसंवाद कार्यक्रम में मंच पर गले से दुपट्टा उतार कर मुख्यमंत्री के पैरों में फेंक दिया था। प्रदेश में भाजपा और जजपा के खिलाफ लहर चल चुकी है। जैसे अब मुख्यमंत्री को बंधक बनाया है वैसे आने वाले समय में लोग भाजपा और जजपा के उम्मीदवारों को भी गांवों में घुसने नहीं देंगे। अगर कोई गलती से गांव में घुस गया तो बंधक बना कर पीटेंगे। देश का विपक्ष भी अब एकजुट होना शुरू हो गया है और प्रधानमंत्री के गलत निर्णयों और गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने लगा है।

# राजस्थान में सरकार नहीं बदलेगा रिवाज : लांबा



जोधपुर (हिस)। कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा ने कहा कि राजस्थान में सरकार नहीं बदलेगा। केंद्र की भाजपा सरकार ने दो हजार का नोट बंद कर जनता के साथ धोखा

किया है। यह बात उन्होंने शनिवार को अपने जोधपुर प्रवास पर मीडिया से मुखातिब होते कही। वे जिला मुख्यालय कांग्रेस द्वारा आयोज्य प्रेसवार्ता में शिरकत करने पहुंची।

# पंडित जवाहर लाल नेहरू ने देश को विकास की पटरी पर आगे बढ़ाया : जयप्रकाश

हिसार (हिस)। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं जिला कांग्रेस प्रभारी जयप्रकाश ने कहा है कि देश की आजादी के बाद पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहर लाल नेहरू ने देश को विकास की पटरी पर आगे बढ़ाया। जिस समय वे प्रधानमंत्री बने थे, उस समय देश में कुछ नहीं बना था लेकिन उनके बाद ऐसी कोई चीज नहीं थी, जो ना बन रही हो। वे शनिवार को जिला कांग्रेस भवन में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कांग्रेसजनों के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। जयप्रकाश ने कहा कि देश जब आजाद हुआ तो उस समय भारत में कुछ नहीं बना था, एक सुई से लेकर जहाज तक बाने का काम स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने किया, भाखड़ा डैम उन्होंने बनाया, अनेक यूनिवर्सिटी का निर्माण उनके कार्यकाल में हुआ, आईआईटी उनकी देन है और पंचशील का सिद्धांत, पंचवर्षीय योजनाएं



जवाहरलाल नेहरू की देन है। देश जब आजाद हुआ तो उस समय खाने की बड़ी समस्या थी, देश में हरित क्रांति पंडित जवाहरलाल नेहरू की ही देन है। जयप्रकाश ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल

नेहरू ने भारत को आधुनिकता की राह पर चलने को एक जो नींव रखी थी, आज की सरकार उसे ध्वस्त करने में लगी हुई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री रहते हुए इस देश को एक नई

ऊंचाई पर ले जाने का कार्य किया लेकिन आज की सरकार इस देश को बेचने पर तुली है। देश के प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री दोनों ही इस देश की दुर्गति करने में लगे हुए हैं। उन्होंने कांग्रेसजनों के समक्ष पार्टी का संकल्प दोहराया कि कांग्रेस की सरकार आने पर कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देते, बुजुर्गों को प्रतिमाह छह हजार रुपए पेंशन दी जाएगी, प्रत्येक गरीब परिवार को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी, पीपीपी को खत्म किया जाएगा। इसके साथ ही इन जैसी अनेक जनकल्याण योजनाएं जो इस सरकार ने बंद कर दी हैं, उन सभी योजनाओं को पहली कैबिनेट में मंजूरी दी जाएगी। इस अवसर पर कांग्रेस नेता धर्मवीर गोयत, महिला अध्यक्ष प्रामोण्य सतीश गुप्त, महिला अध्यक्ष शहरी स्नेहलता निंबल, वजीर सिंह पूनिया, किसान नेता दिखलदास बिबू, अनूप सिंह सरसना, महिला नेत्री कमल सरावत, विक्टर डेविड सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे।

# मुठभेड़ में इनामी घायल महिला नक्सली कमांडर गिरफ्तार पेंशन बहाली संघर्ष समिति का एलान

कांकर (हिस)। जिले के थाना बडगांव क्षेत्रांतर्गत बीएसएफ कैंप में डरा बल एवं बीएसएफ 178 बटेलियन की संयुक्त पार्टी ग्राम मरकाचुवा की ओर शुक्रवार रात सचिंग के लिए खाना हुई थी। अभियान के दौरान थाना से लगभग 10 किमी उत्तर-पूर्व दिशा ग्राम उरपांजुर के पास मुठभेड़ हुई। जिला बल एवं बीएसएफ 178 बटेलियन की संयुक्त पार्टी के साथ हुए मुठभेड़ में एक महिला नक्सली को गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसकी पहचान आरकेबी डिवीजन की सदस्य फगनी पति विनोद मदनवाड़ा एलओएस कमांडर के रूप में की गई है। वहीं मुठभेड़ में एक बीएसएफ जवान विकास सिंह को मामूली चोट आई है। मुठभेड़ में घायल वर्दीधारी महिला नक्सली को पुलिस ने पकड़ है, जिसने परिश्रमक पूछताछ में 02 से 03 अन्य नक्सलियों के घायल होने की जानकारी दी है। शनिवार सुबह सर्चिंग में घटना स्थल से एक शिंगल शॉट रायफल के साथ जिंदा कारतूस, आईईडी बम व अन्य बड़ी



मात्रा में नक्सल सामग्री बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार घायल महिला नक्सली से जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार मुठभेड़

में लगभग 12 से 15 माओवादी मौजूद थे, जिसमें पांच लाख रुपए का इनामी नक्सली विनोद गावड़े भी मौजूद था। जवानों की जवाबी कार्रवाई में दो से तीन नक्सलियों के भी घायल होने की जानकारी मिली है, जिसे नक्सली अपने साथ ले जाने में कामयाब रहे, लेकिन घायल महिला नक्सली को छोड़ गए, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया है। वहीं मुठभेड़ के दौरान नक्सलियों ने आईईडी भी विस्फोट किया, जिसमें बीएसएफ के दो जवानों को मामूली चोट लगी है। कांकर एसपी शलभ कुमार सिन्हा ने शनिवार को जानकारी देते हुए बताया कि जिले में नक्सलियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत बीएसएफ और डीईएफ की संयुक्त टीम बडगांव के आस-पास के जंगल में नक्सल गस्त पर थी। इसी दौरान उरपांजुर के पास जवानों की नक्सलियों से मुठभेड़ हो गई। करीब आधे घंटे चली इस मुठभेड़ में नक्सली जंगल की आड़ लेकर भाग निकले। घटना स्थल का सर्च करने पर एक गंभीर रूप से घायल अवस्था में एक

महिला नक्सली मिली, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया है। महिला नक्सली के घेर में गोली लगने के कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। महिला नक्सली आरकेबी डिवीजन अंतर्गत कोटरी एरिया कमेटी के मदनवाड़ा-कोडेकुर्स संयुक्त एलओएस सदस्य फगनी पौडियामी है, जिस पर गंभीर अपराधों में एक लाख रुपए का इनाम घोषित था। घायल नक्सली का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। मुठभेड़ के बाद बैंकअप टीम भी रवाना की गई थी, जिनके द्वारा इलाके का सघन सर्च करने पर भारी मात्रा में नक्सल सामग्री मिली है, जिसमें शिंगल शॉट रायफल एक, शिंगल शॉट राउंड सात, 7.1 एमएफ राउंड 23, 8 एमएफ राउंड 15, 12 बोर राउंड 06, प्रेशर कुकर आईईडी 06, सोलर प्लेट एक, बिजली वायर 03 बंडल, रिमोट कंट्रोल सात, टार्च दो, छोटा बैटरी आठ, नक्सली वर्दी, पोच, पिट्टू, नक्सली साहित्य, पचां समेत भारी मात्रा में दवाइयां एवं अन्य दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की गई है।

# दो जून से शुरू करेंगे संकल्प यात्रा



चंडीगढ़ (हिस)। हरियाणा सरकार पर ओल्ड पेंशन बहाली के नाम पर गुमराह करने का आरोप लगाते हुए पेंशन बहाली संघर्ष समिति ने दो जून से प्रदेश में ओपीएस संकल्प यात्रा निकालने का एलान किया है। यह यात्रा प्रदेश के सभी जिलों में जाएगी। पेंशन बहाली संघर्ष समिति के अध्यक्ष बिजेंद्र धारीवाल ने शनिवार को चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रदेश के लाखों कर्मचारी ओल्ड पेंशन योजना के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 19 फरवरी को पंचकूला में रेली के दौरान मुख्यमंत्री ने अपने प्रधान सचिव, मुख्य सचिव तथा वित्त सचिव को शामिल कर एक कमेटी का

गठन किया था। इस कमेटी ने संघर्ष समिति के साथ तीन मार्च को बैठक की। जिसमें समिति द्वारा अपने तर्क रखे गए। इसके बाद ओल्ड पेंशन बहाली करना तो ठूरे सरकार की कमेटी ने आज तक कोई बैठक नहीं की है। उन्होंने कहा कि ओल्ड पेंशन बहाली के लिए सरकार को किसी तरह से भी संविधान में संशोधन की जरूरत नहीं है। सरकार ने कमेटी का गठन मुद्दे को हल खींचने के लिए किया है। 16 अप्रैल को प्रदेश भर में प्रदर्शन किए गए। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने पर संघर्ष समिति ने दो जून से ओपीएस संकल्प यात्रा निकालने का फैसला किया है। धारीवाल ने अनुभार दो जून को यह यात्रा नांगल चौधरी से शुरू की जाएगी। संकल्प यात्रा रेवाड़ी, पलवल, फरीदाबाद, गुरग्राम, झज्जर, रोहताक, चरखी-ददारी, शिवनी, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, कैथल, जौड़, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, युगुनानगर, अंबाला होते हुए 22 जून को पंचकूला पहुंचेगी। इसके बाद 23 जून को चंडीगढ़ में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात करके उन्हें जापन दिया जाएगा।

# भाजपा को मिली मजबूती 400 युवा पार्टी में शामिल

पटियाला। भारतीय जनता पार्टी पंजाब की उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की बेटी जय इंद्र कौर ने शुक्रवार को मोती महल में कार्यक्रम करवाया। इसमें 400 से अधिक युवाओं को पार्टी में शामिल कराया गया। प्रमुख युवा नेताओं में पूर्व एसओआई जिला पटियाला अध्यक्ष हरजीत सिंह बिट्टू, हरपाल सिंह लाडो, सतविंदर सिंह मणि, हरिंदर सिंह दुगल, राजकुमार शर्मा, अमनदीप सिंह, तरसेम सिंह सैनी, तरसेम सिंह सिद्धू आदि शामिल हैं। जय इंद्र कौर ने कहा कि युवा समाज की रीढ़ की हड्डी हैं और देश के समृद्धि-राजनीतिक परिदृश्य में ये युवा ही हैं जो भारत के भविष्य को तय करने जा रहे हैं। ऐसे में युवाओं को सक्रिय रूप से राजनीति में भाग लेते हुए देखकर बहुत खुशी हो रही है। पंजाब को एक स्थिर नेतृत्व की आवश्यकता है जो वर्तमान आप सरकार प्रदान करने में विफल रही है। भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष कंवरवीर सिंह टोहरा ने कहा कि एक नेता के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह कठिन समय में कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा रहे। इस बात को कैप्टन अमरिंदर सिंह के परिवार ने अच्छी तरह से प्रदर्शित किया है। भाजपा में शामिल होने के बाद पटियाला के पूर्व एसओआई जिला अध्यक्ष हरजीत सिंह बिट्टू ने कहा कि पंजाब में पार्टी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे।

# राजनेता योग कर रहे हैं क्योंकि उनका राजयोग ठीक रहता है : स्वामी रामदेव

भीलवाड़ा (हिस)। योग ऋषि स्वामी रामदेव ने कहा कि मैं सबको निरोगी बना कर रहूंगा और जनचेतना, आत्म चेतना, दिव्य चेतना का मैं प्रचार करूंगा। दुराचार, निराशा को मैं समाप्त करने में लगा हुआ हूँ। जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं लेकिन जो मां बच्चे पैदा करके उन्हें संस्कारित करती है वह मां भगवान समान होती है। हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा तभी जीवन सफल होगा। जिंदा रहते हुए भी मर्यादा बने रहना ऐसे लोग क्या बदलाव करेंगे। अपने कर्म को प्रधान रखें। पुरुषार्थ ही जीवन तारोता। त्याग, तपस्या हमारे जीवन में बनी रहनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद, शिवाजी, महात्मा प्रताप आदि के कार्यों को मैं आगे बढ़ाने में लगा हुआ हूँ। मैं सभी को कहता हूँ कि योग करें। आजकल राजनेता योग कर रहे हैं क्योंकि उनका राजयोग ठीक हो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और अन्य राजनेता है जो योग में लगे हुए हैं। योग ऋषि स्वामी रामदेव भीलवाड़ा में 27 से 29 मई तक प्रतिदिन प्रातः पांच से साढ़े सात

बजे तक भारत स्वाभिमान ट्रस्ट, पतंजलि योग समिति, युवा भारत, महिला पतंजलि योग समिति, पतंजलि किसान सेवा समिति के संयोजन एवं भारत विकास परिषद, हार्टफुलनेस, जीतो, जनहित योग एवं स्वास्थ्य प्रचार समिति के आयोजन में त्रिदिवसीय योग चिकित्सा एवं ध्यान शिविर के शनिवार सुबह शुभारंभ पर मुख्य डाकघर के सामने स्थित शांति भवन में हजारों लोगों को योग प्राणायाम का अभ्यास कराते हुए संबोधित कर रहे थे। भीलवाड़ा के इतिहास में पहली बार ढाई घंटे तक योग, प्राणायाम के साथ-साथ सतसंग, सात्विक व आध्यात्मिक बातें उनके द्वारा बताई गईं। स्वामी रामदेव ने रामायण की चौपाइयों का सामूहिक गान व भजन कीर्तन भी कराया। साथ ही जानलेवा बीमारियों के निवारण के लिए उपयोगी दवाओं के बारे में बताया। बिना सतसंग विवेक न हों इस पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। उनका साथ स्वामी परमार्थ देव ने पूरे विधि विधान से यज्ञ करवाया। हवन के बीच आसन, प्राणायाम व ध्यान का हजारों लोगों ने




अभ्यास किया। योग शिविर में बाहर से भी लोगों को बसों के माध्यम से लाकर कार्यक्रम को भव्य बनाने में कैलाश हेड़ा मदन मोहन भाई आदि जुटे हुए हैं। मीडिया प्रभारी लोकेश सोनी ने बताया कि शांति भवन में हुए कार्यक्रम में शनिवार सुबह सांसद सुभाष बर्हडिया, अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर ब्रह्मराम चैधरी, सीओ सिटी नरेंद्र लाम्बा भी मौजूद

रहे। जीवन भर तंग करने वाली बीमारियां योग से कर रहे दूर- योग ऋषि स्वामी रामदेव ने कहा कि योग से जीवन किस तरह रूपांतरित हो जाता है। शारीरिक एवं मानसिक रोगों का जड़ मूल से निवारण हो जाता है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हृदय रोग, गैस, कब्ज, मोटापा, सिर दर्द, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, इत्यादि से चैधरी, सीओ सिटी नरेंद्र लाम्बा भी मौजूद

है। इस योग विद्या की निःशुल्क दीक्षा वह दिला रहे हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से मिल रहा उपचार-योग के साथ-साथ शिविर स्थल पर तीनों दिन पतंजलि बैलेन्स के अनुभवी वैद्यों द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से निःशुल्क परामर्श एवं उपचार प्राप्त: नी से शाम पांच बजे तक प्रदान किया जा रहा है। प्राकृतिक चिकित्सा के साथ-साथ शेरलु उपचार के नुस्खे भी बताए जा रहे हैं। शाम को होगा विद्यार्थी संस्कार एवं चरित्र निर्माण शिविर- शिविर के मीडिया समिति के निवेश कौटंड एवं कैलाश सोनी ने बताया कि शिविर के पहले दिन 27 मई शनिवार को सांय 5 से रात्रि 8 बजे तक विद्यार्थी संस्कार एवं चरित्र निर्माण शिविर का आयोजन भी होगा। इसमें ऐसे सभी माता-पिता जो अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य, निरोगी एवं संस्कारवाना बनाने उनकी स्मृति व एकाग्रता बढ़ाने के लिए संकल्पित हैं उन सभी बच्चों को परम पूज्य स्वामी रामदेव महाराज के द्वारा योगासन, प्राणायाम, खानपान पर विशेष मार्गदर्शन दिया जाएगा।





# फोटोशॉप बनाने वाली कंपनी के सीईओ हर दिन कमाते हैं 70 लाख रुपये, भारत से है खास नाता

नई दिल्ली। भारतीय मूल के शांतनु नारायण दिसंबर 2007 से फोटोशॉप बनाने वाली कंपनी एडोबी के चेयरमैन, अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के रूप में काम कर रहे हैं। वह 2005 में कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में शामिल हुए।

हैदराबाद में पैदा हुए शांतनु नारायण के पिता चलाते थे एक प्लास्टिक कंपनी - शांतनु नारायण का जन्म हैदराबाद में एक तेलुगु भाषी परिवार में हुआ। उनकी माँ एक शिक्षक थीं और उनके पिता एक प्लास्टिक कंपनी चलाते थे। वह अब कैलिफोर्निया के पालो अल्तो में रहते हैं। वह 1980 के दशक के मध्य में बॉलिंग ग्रीन स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान अपनी रानी से मिले। उनके दो बेटे हैं। शांतनु नारायण ने हैदराबाद पब्लिक स्कूल में पढ़ाई की। उन्होंने हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की। आगे की शिक्षा हासिल करने के लिए उन्होंने अमेरिका जाने का फैसला किया। 1986 में

शांतनु ने ओहियो में बॉलिंग ग्रीन स्टेट यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर विज्ञान में मास्टर डिग्री प्राप्त की। उन्होंने हास स्कूल ऑफ बिजनेस, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से एमबीए किया।

1989 से 1995 के बीच शांतनु नारायण ने एपल के साथ किया काम - शांतनु नारायण 1986 में सिलिकॉन वैली स्थित स्टार्ट-अप मापक्स ऑटोमेशन सिस्टम से जुड़े। कंपनी ने ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट के ग्राहकों के लिए कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम बनाया। 1989 से

1995 के बीच उन्होंने एपल के साथ काम किया। इसके बाद उन्होंने सिलिकॉन ग्राफिक्स के साथ काम किया और पिक्चर के सहसंस्थापक बने। 1998 में शांतनु नारायण वरिष्ठ उपाध्यक्ष के तौर पर एडोबी से जुड़े। यहां 2001 से 2005 तक दुनिया भर के उत्पादों के कार्यकारी उपाध्यक्ष थे। उन्हें 2005 में अध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया। जब ब्रूस जि ने 2007 में एडोबी के सीईओ के रूप में पद छोड़ दिया, तो शांतनु नारायण ने उनकी जगह ली।

शांतनु नारायण दुनिया में सबसे अधिक वेतन पाने वाले अधिकारियों में से एक हैं। 2022 में उन्हें कंपनी की ओर से 31 मिलियन डॉलर यानी करीब 256 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। इस लिहाज से हर दिन की उनकी आमदनी करीब 70 लाख रुपये है। 2021 में शांतनु नारायण को 36.12 मिलियन डॉलर दिए गए थे। उन्हें 2020 में 45.8 मिलियन डॉलर का भुगतान किया गया। हुरुन लिस्ट के अनुसार 2022 में शांतनु नारायण की कुल संपत्ति 3,800 करोड़ रुपये थी।

शांतनु नारायण दुनिया में सबसे अधिक वेतन पाने वाले अधिकारियों में से एक हैं। 2022 में उन्हें कंपनी की ओर से 31 मिलियन डॉलर यानी करीब 256 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। इस लिहाज से हर दिन की उनकी आमदनी करीब 70 लाख रुपये है। 2021 में शांतनु नारायण को 36.12 मिलियन डॉलर दिए गए थे। उन्हें 2020 में 45.8 मिलियन डॉलर का भुगतान किया गया। हुरुन लिस्ट के अनुसार 2022 में शांतनु नारायण की कुल संपत्ति 3,800 करोड़ रुपये थी।

## न्यूज़ व्रीफ

**इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के फीचर्स घटा सकती हैं कंपनियां: सॉफ्टवेयर के बाद अब कम स्पेसिफिकेशन वाले वैरिएंट कर सकती हैं लॉन्च**

नई दिल्ली। फेम-2 स्क्रीम के तहत सॉफ्टवेयर के बाद अब इलेक्ट्रिक व्हीलर कंपनियां कीमतों को कॉम्प्यूटिटर बनाए रखने के लिए प्रोडक्ट्स में बदलाव करने पर विचार कर रही हैं। अधिकारियों के मुताबिक, प्रमुख इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनियां बैटरी के साइज और फीचर्स में

कटौती करके कम स्पेसिफिकेशन वाले वैरिएंट लॉन्च कर सकती हैं। दरअसल, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज ने 19 मई को एक नोटिफिकेशन जारी कर टू व्हीलर पर फेम-2 की सॉफ्टवेयर मोजुदा 15,000 रुपए प्रति किलोवाट से घटाकर 10,000 रुपए प्रति किलोवाट करने और अधिकतम सॉफ्टवेयर की सीमा 40 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। यह बदलाव 1 जून 2023 से लागू होगा। इसके चलते इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की कीमतों में 5,000 रुपए तक बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में कंपनियों को दाम कम रखने के अतिरिक्त उपाय करने होंगे, ताकि मांग बढ़ती रहे। ईवी और आम वाहनों के दाम में बड़ा अंतर है। इन्हें समान स्तर पर पहुंचाने में 2-2.5 साल लगेंगे। हो सकता है मोजुदा सॉफ्टवेयर के लिए पर्याप्त न हो। लिथियम-आयन बैटरी पैक बनाने वाली कंपनी सिग्नी जर्जी के सीईओ वेंकट राजा रमन ने कहा, 'जून जून 2021 में इलेक्ट्रिक दोपहिया पर इन्वेंट्री बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रति किलोवाट किया गया था, तो कई कंपनियों ने बैटरी का आकार बढ़ाकर 2.5-3 किलोवाट कर दिया था। अब सॉफ्टवेयर घटाकर 10,000 रुपए प्रति किलोवाट की जा रही है तो ज्यादातर वाहनों में 1.5-2 किलोवाट की कम क्षमता वाली बैटरी होगी। यदि पेट्रोलियम वाहनों के साथ प्रतिस्पर्धा करना है तो ईवी पर सॉफ्टवेयर जारी रखा जाना चाहिए। रुपए प्रति किलोवाट करने और अधिकतम सॉफ्टवेयर की सीमा 40 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। यह संशोधन एक जून 2023 से लागू होगा। इसके चलते ई दोपहिया की कीमतों में 5,000 रुपए तक बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में कंपनियों को दाम कम रखने के अतिरिक्त उपाय करने होंगे, ताकि मांग बढ़ती रहे।

**इस हफ्ते सोने-चांदी में बड़ी गिरावट: 60 हजार पर आया सोना, चांदी डेढ़ हजार रुपए से ज्यादा फिसली**



नई दिल्ली। इस हफ्ते सोने-चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार सर्राफा बाजार में इस हफ्ते की शुरुआत, यानी 22 मई को सोना 60,760 रुपए पर था जो अब 27 मई को 60,142 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 618 रुपए घटी है। इस हफ्ते चांदी में डेढ़ हजार रुपए से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। इस हफ्ते की शुरुआत में ये 72,095 रुपए पर थी जो अब 70,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 1,595 रुपए कम हुई है। अजय केडिया के मुताबिक, सोने में 2020 से शुरू सुपर साइकिल अब भी जारी है। इस साल सोना 62,000 तक पहुंचने का अनुमान था, लेकिन मोजुदा परिस्थितियों में ये 64,000 तक पहुंच सकता है। सिक्वोरिटीज के वाइस प्रिजिडेंट अनुरा गुप्ता कहते हैं कि शेयर बाजार में जारी उतार-चढ़ाव के कारण सोने को सपोर्ट मिल रहा है।

**अब एफडी पर मिलेगा ज्यादा ब्याज: बैंक ऑफ इंडिया में एफडी कराने पर मिलेगा 7.50 प्रतिशत तक का रिटर्न**



नई दिल्ली। बैंक ऑफ इंडिया ने फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज में बढ़ोतरी की है। अब 1 साल की एफडी पर बैंक आम नागरिकों को 7 प्रतिशत और वरिष्ठ नागरिकों को 7.50 प्रतिशत ब्याज दे रहा है। ये नई ब्याज दरें 3 करोड़ से कम की एफडी पर लागू हुई हैं। वरिष्ठ नागरिकों को 3 साल से कम की एफडी पर आम नागरिकों के मुकाबले 0.50 प्रतिशत ज्यादा ब्याज दिया जा रहा है। वहीं 3 साल या इससे ज्यादा की एफडी पर आम नागरिकों के मुकाबले 0.75 प्रतिशत ज्यादा ब्याज दिया जा रहा है। एफडी से मिलने वाला ब्याज पूरी तरह से टैक्सबल होता है। आप एक साल में एफडी पर जो भी ब्याज कमाते हैं, वो आपकी पनुअल इनकम में जुड़ता है। कुल आय के आधार पर, आपका टैक्स रेट निर्धारित किया जाता है। चूंकि एफडी पर अर्जित इंटररेस्ट इनकम को इनकम प्रॉम अदर सोर्सिंग माना जाता है, इसलिए इसे टैक्स डिडक्टेड टैड सोर्सिंग ट्रीडीएस के तहत चार्ज किया जाता है। जब आपका बैंक आपकी ब्याज आय को आपक अकाउंट में जमा करता है, तो उसी समय ट्रीडीएस काट लिया जाता है।

# 30 मई तक के लिए गो फर्स्ट की सभी उड़ानें रद्द कंपनी ने संचालन से जुड़ी दिक्कतों का दिया हवाला

नई दिल्ली। गो फर्स्ट एयरलाइंस ने शनिवार को घोषणा की कि उसका उड़ान संचालन 30 मई तक रद्द रहेगा और यात्रियों को पूरा रिफंड जारी किया जाएगा। गो फर्स्ट ने संचालन संबंधी दिक्कतों का हवाला देकर 30 मई 2023 तक की सभी उड़ानों को रद्द करने का फैसला किया है। विमानन कंपनी की ओर से कहा गया है कि ग्राहकों को भुगतान के मोड के अनुसार जल्द ही रिफंड कर दिया जाएगा। कंपनी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि हम जानते हैं कि उड़ानों के रद्द होने से लोगों के यात्रा से जुड़े प्लान प्रभावित होते हैं। हम अपनी ओर से लोगों को हर संभव सहायता मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम जल्द ही एक बार फिर बुकिंग की प्रक्रिया शुरू करेंगे।



व्यवस्था और वित्त पोषण की स्थिति और अन्य विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा है। सूत्र ने कहा कि गो फर्स्ट द्वारा प्रस्तुत पुनर्र्द्धार योजना की आगे की उचित कार्रवाई के लिए डीजीसीए द्वारा समीक्षा की जाएगी।

**पुनर्र्द्धार योजना की आगे की कार्रवाई के लिए डीजीसीए द्वारा समीक्षा की जाएगी**

इससे पहले नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने संकेतग्रस्त गो फर्स्ट से अपने परिचालन के पुनर्र्द्धार के लिए एक व्यापक योजना पेश करने को कहा था। नियामक ने इसके लिए विमानन कंपनी को तीस दिन का समय दिया है। कंपनी ने तीन मई को उड़ान बंद कर दी थी। एक सूत्र ने यह जानकारी दी। नियामक के एक सूत्र ने बताया कि नियामक ने 24 मई को एयरलाइन को परिचालन के सतत पुनर्र्द्धार के लिए तीस दिनों की अवधि के भीतर एक व्यापक पुनर्र्द्धार योजना पेश करने की सलाह दी है। सूत्र ने कहा कि नियामक ने एयरलाइन से ऑपरेशनल विमानों, पायलटों और अन्य कर्मियों की उपलब्धता, रखरखाव

**इन विमान पट्टेदारों ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा**

उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने वालों में एस्पिरिटर इन्वेस्टमेंट एयरक्राफ्ट 2 लिमिटेड, ईओएस एविएशन 12 (आयरलैंड) लिमिटेड, पेनब्रोक एयरक्राफ्ट लॉजिंग 11 लिमिटेड और एएसएमबीसी एविएशन कैपिटल लिमिटेड शामिल हैं। दिवालिया समाधान प्रक्रिया के मद्देनजर गो फर्स्ट की संपत्तियों के हस्तांतरण और वित्तीय दायित्वों पर रोक लागू होने के कारण पट्टेदार एयरलाइन को पट्टे पर दिए गए विमान का पंजीकरण रद्द करने और वापस लेने में असमर्थ हैं। पट्टेदारों के वकीलों ने कहा कि उन्होंने अपने विमान का पंजीकरण रद्द करने के लिए नागर विमानन नियामक से संपर्क किया था लेकिन उसने उनकी याचिका खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि उन्हें डीजीसीए से कोई सूचना नहीं मिली है, लेकिन नियामक की वेबसाइट पर उनके आवेदनों की स्थिति की जांच करने पर, उन्होंने पाया कि उनके अनुरोधों को खारिज कर दिया गया है।

## टीडीएस से टीसीएस को जोड़ने की तैयारी में सरकार, मुख्य आर्थिक सलाहकार बोले- करदाताओं को मिलेगी राहत

नई दिल्ली। आयकरदाताओं को राहत देने के लिए सरकार किसी व्यक्ति को आय के स्रोत पर की गई कर कटौती (टीडीएस) से उसके भुगतान के लिए स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) को जोड़ने की तैयारी कर रही है। मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) अनंत नागेश्वरन ने कहा, ऐसा करने के पीछे सोच यह है कि व्यक्तिगत करदाताओं के नकदी प्रवाह पर कोई असर न पड़े। सीईए ने सरकार के कदम के बचाव में कहा, आपके टीडीएस से टीसीएस को ऐसे जोड़ा जाएगा कि अगर आपने टीसीएस का भुगतान किया है तो वह कम टीडीएस के रूप में नजर आए। टीसीएस और टीडीएस के बीच कोई मेल न होने से परेशान करदाताओं को नई व्यवस्था से राहत मिलेगी। टीसीएस किसी विक्रेता की ओर से सामान या सेवा को विक्री के समय वसूला जाने वाला कर है। टीडीएस सरकार की ओर लाना या जाने वाला कर है।



20 फीसदी टीसीएस की व्यवस्था लागू होने जा रही है। सीईए ने कहा, सरकार ने 7 लाख रुपये तक के लेनदेन को टीसीएस से बाहर रखा है। इससे छोटे करदाताओं को राहत मिलेगी। इसका मतलब यह भी है कि ज्यादातर लेनदेन 2022-23 में अब तक 5.20 करोड़ टन चालत की खरीद की है। खाद्य मंत्रालय ने कहा, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हुई खरीद से 1.12 करोड़ किसानों को 1.6 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। भारतीय खाद्य निगम राज्य एजेंसियों से मूल्य समर्थन योजना के तहत धान को खरीद करता है। वहीं पिछले साल

## ओएनजीसी के चौथी तिमाही के नतीजे: कंपनी का नेट प्रॉफिट 53 फीसद घटकर 5,701 करोड़ रुपए रहा, रेवेन्यू 5 फीसद बढ़ा

मुंबई। ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड ने चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च) के नतीजे घोषित कर दिए हैं। मार्च तिमाही में बैंक का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट साल-दर-साल 53 प्रतिशत घटकर 5,701 करोड़ रुपए रहा। पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी को 12,061.44 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था।

रेवेन्यू 5 प्रतिशत बढ़कर 166,728.80 करोड़ रुपए रहा - चौथी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू साल-दर-साल 5 प्रतिशत बढ़कर 166,728.80 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की समान तिमाही में 158,660.49 करोड़ रुपए रहा था। स्टैंडअलोन बेसिस पर कंपनी को मार्च तिमाही में 248 करोड़ रुपए का नेट लॉस हुआ है। वहीं पिछले साल



की समान तिमाही में कंपनी को 8,860 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ था।

0.5 रुपए प्रति इन्क्रीटी शेयर डिविडेंड देगी कंपनी - चौथी तिमाही में कंपनी का स्टैंडअलोन ग्रॉस रेवेन्यू 5.2 प्रतिशत बढ़कर

- फाइनेंशियल इयर 2022-23 के दौरान ओएनजीसी ने कुल आठ भंडार खोजने की अनाउंसमेंट भी की है। इसमें पांच जमीन पर हैं और तीन समुद्र में हैं। इनमें से तीन स्पॉन्सोर हैं (दो जमीन पर और एक समुद्र में), जबकि पांच पूरा (तीन जमीन पर और दो समुद्र में) हैं।

कच्चे तेल का रियलाइजेशन 77.12 डॉलर प्रति बैरल रहा - तिमाही के लिए कच्चे तेल (नॉमिनेट) का रियलाइजेशन 77.12 डॉलर प्रति बैरल रहा। जो पिछले साल की इसी अवधि के दौरान 94.98 डॉलर प्रति बैरल के रियलाइजेशन की तुलना में 18.8 प्रतिशत कम है। वहीं रुपए के संदर्भ में औसत कच्चे तेल का रियलाइजेशन 6,344 रुपए प्रति बैरल रहा। जिसमें सालाना आधार पर 11.2 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली।

## अब भारत में मिलेगा दुनियाभर में पॉपुलर कॉर्न चिप्स रिलायंस जल्द तीन प्लेवर में लॉन्च करेगी एलन्स ब्यूगल्स, 10 में मिलेगा

मुंबई। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड की एफएमसीजी आर्म रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने अनाउंसमेंट की है कि वो जल्द ही भारत में पॉपुलर कॉर्न चिप्स स्नैक्स एलन्स ब्यूगल्स लॉन्च करेगी। एलन्स ब्यूगल्स यूके, स्पेस और मिडिल ईस्ट जैसे ग्लोबल मार्केट्स में एक बेहद पॉपुलर स्नैक्स ब्रांड है। 10 रुपए में मिलेगा एलन्स ब्यूगल्स अब एलन्स ब्यूगल्स के साथ वेस्टर्न स्नैक्स कैटेगरी में कदम रखेगी।

एलन्स ब्यूगल्स को पॉकेट फ्रेंडली प्राइस 10 रुपए की शुरुआती कीमत पर बेचा जाएगा। मार्केट में यह ओरिजनल (साल्टेड), टोमेटो और चीज तीन प्लेवर में मिलेगा। एलन्स ब्यूगल्स जनरल मिल्स के स्वामित्व वाला एक इंटरनेशनल कॉर्न चिप्स स्नैक्स ब्रांड है।

50 साल से चल रहा है एलन्स ब्यूगल्स - एलन्स ब्यूगल्स स्नैक्स ब्रांड 50



साल से ज्यादा समय से चल रहा है। अमेरिका की जनरल मिल्स कंपनी एलन्स ब्यूगल्स स्नैक्स की पेरेंट कंपनी है। जनरल मिल्स के पोर्टफोलियो में पिल्सबरी, बेट्टी क्रोकर, नेचर वैली, हेगन-डैज, चौथरियोस, ओल्ड एल पासो, एनीज, वंचाई फेरी और अन्य कई पॉपुलर ब्रांड्स शामिल हैं। जनरल मिल्स एक फूड कंपनी और मल्टीनेशनल मैनुफैक्चरर है। आरसीपीएल ने स्टेटमेंट में क्या

कहा - आरसीपीएल ने एक स्टेटमेंट में कहा कि वे चाहते हैं कि एस्पिरिटरल इंडियन इस तरह की प्रीमियम ऑफरिंग्स का स्वाद चखें और उनका आनंद लें। एफएमसीजी मार्केट में अपना बिजनेस बढ़ाने को लेकर कंपनी ने कहा, टेस्ट प्रोफाइल और ओवरऑल एक्सपीरियंस पर फोकस करने के लिए हम वेस्टर्न स्नैक्स मार्केट में एक्टिव रूप से भाग ले रहे हैं।

ब्यूगल्स को भारत में लाकर फाइनेंशियल डायरेक्टर शोभाद्रि सावलगी ने कहा, जनरल मिल्स ग्लोबल लेवल पर अपने सबसे पसंदीदा ब्रांडों में से एक - ब्यूगल्स को भारत में लाकर रोमांचित है। एलन्स ब्यूगल्स - कॉन शेड कॉर्न चिप्स है। इस चिप्स को 1964 में लॉन्च किया गया था। फिर इसके बाद यह दुनिया भर में पॉपुलर हो गया। चिप्स की लॉन्चिंग केरल से शुरू

**छंटनी के दौर में अलीबाबा करेगी 15,000 की गर्मी**

बीजिंग। चीनी टेक फर्म अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड ने कहा है कि वह इस साल 15,000 लोगों को नौकरी देगी। अलीबाबा ने ये बयान कई किंगडम कंपनियों में कर्मचारियों की छंटनी के बीच जारी किया है। चीनी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अलीबाबा ने कहा कि इस साल वह छह प्रमुख विभागों में कुल मिलाकर 15,000 नई भर्तियां करेगी। कंपनी ने कहा कि इन 15,000 में से 3,000 नए ग्रुपेट उम्मीदवार हैं। कंपनी ने कहा है कि छंटनी की खबर सिर्फ एक अपवाद है। कंपनी ने इस बात से इनकार किया है कि वह अपने यहां बड़े पैमाने पर कर्मचारियों को निकाल रही है। दरअसल कई मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अलीबाबा अपने यहां 20 फीसदी से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रहा है। अब कंपनी ने इन दावों को गलत बताया है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने इस माह की शुरुआत में पहली बार फर्म में कितने लोगों को नौकरी दी गई, इस पर जानकारी दी थी।

होगो - चिप्स की लॉन्चिंग केरल से शुरू होगी और फिर धीरे-धीरे इसे पूरे भारत में बेचा जाएगा। आरसीपीएल के एफएमसीजी पोर्टफोलियो में कैम्पा कोला, सोसाय, स्किक्क, इंडिपेंडेंस, टॉफीमैन, मालिबन, विलमर और डोजो शामिल हैं।

चॉकलेट कंपनी लोटस का किया

अधिग्रहण - आरसीपीएल ने लोटस चॉकलेट कंपनी में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी के अधिग्रहण को पूरा करने की अनाउंसमेंट की थी। लोटस कंपनी चॉकलेट, कोको प्रोडक्ट्स और कोको डेरिवेटिव्स बनाती है। यह कंपनी दुनिया भर में चॉकलेट मेकर्स और यूजर्स को अपने प्रोडक्ट्स की सप्लाई करती है।

## प्रियंका को अंडरवियर में देखना चाहता था निर्माता

-एक्ट्रेस ने किए कई बड़े खुलासे

मुंबई (ईएमएस)। एक बालीवुड फिल्म निर्माता ने एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा जोनस कहा था कि वह उन्हें अंडरवियर में देखना चाहता है। प्रियंका ने इंटरव्यू में एक फिल्म की शूटिंग के बारे में बात की, जिसमें एक्ट्रेस ने अंडरवियर एजेंट की भूमिका निभाई थी। प्रियंका चोपड़ा जोनस ने कई बड़े खुलासे किए हैं। घटना के बारे में, उन्होंने कहा कि यह एक अमानवीय क्षण था, मैंने इस फिल्म से किनारा कर लिया था। यह 2002 या 3 का किस्सा है। मैं फिल्म में अंडरवियर एजेंट का रोल निभा रही थी। एक सीन में मुझे एक शख्स को सिद्धांत करना था, जिसके लिए मुझे एक एक करके कपड़े उतारने थे। इसलिए इस सीन के लिए मैं ज्यादा कपड़े पहनना चाहती थी, लेकिन फिल्म निर्माता ने कहा, मैं उसे अंडरवियर में देखना चाहता हूँ, वरना



क्यों इस फिल्म को देखने आएगा? बता दें कि उन्होंने 2003 में अंदाज से बालीवुड में कदम रखा। उसके बाद वह ऐतराज, मुझसे शादी करोगी, फैशन, डॉन, बर्फी! बाजीराव मस्तानी, मैरी कॉम, द द्राइट टाइगर समेत कई हिंदी फिल्मों में नजर आईं। एक्ट्रेस ने आगे कहा उन्होंने ये बात सीधे मुझसे नहीं, बल्कि मेरे ही सामने

मेरी स्टाइलिस्ट से कही। यह इतना अमानवीय पल था, मुझे उस वक्त महसूस हुआ कि मेरा हृदय किसी काम का नहीं है। दो दिन काम करने के बाद उन्होंने कहा वह फिल्म से बाहर हो गई और उनके पैसे लौटा दिए। निर्देशक के बारे में बात करते हुए, प्रियंका ने यह भी कहा कि वह बस उन्हें हर दिन नहीं देख सकती थी।

## चिरंजीवी ने भोला शंकर की शूटिंग से तस्वीरों की वायरल

-फिल्म 11 अगस्त को सिनेमाघरों में होगी रिलीज

मुंबई (ईएमएस)। मेगास्टार चिरंजीवी अगली बार भोला शंकर में दिखाई देंगे। अभिनेता ने गाने की शूटिंग से तस्वीरें साझा करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। यह फिल्म 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अभिनेता वर्तमान में अपनी आगामी फिल्म के लिए एक गाने की शूटिंग कर रहे हैं। चिरंजीवी वर्तमान में अपनी आगामी फिल्म भोला शंकर की शूटिंग में व्यस्त हैं। वह एक गाने की शूटिंग के लिए स्विटजरलैंड रवाना हो गए। 23 मई को, अभिनेता ने गाने की शूटिंग से कुछ बीटोएस (बिहाइंड-द-सीन) तस्वीरें साझा करने के लिए अपने ट्विटर पेज का सहारा लिया। अपने ट्वीट में, उन्होंने उल्लेख किया कि गाना अच्छा बना है और तब तक दर्शकों को इन लोक तस्वीरों के साथ रहना होगा। भोला शंकर तमिल फिल्म वेदालम की आधिकारिक तेलुगु रीमेक है। 1 मार्च को, मेगास्टार चिरंजीवी ने भोला



शंकर के फर्स्ट-लुक पोस्टर का अनावरण किया। मास मसाला एंटरटेनर 11 अगस्त को प्रदर्शन के लिए तैयार है। कीर्ति सुरेश भोला शंकर में चिरंजीवी की बहन की भूमिका निभाएंगी। मेगास्टार चिरंजीवी ने ट्विटर पर भोला शंकर पर एक अपडेट साझा किया। तेलुगु में उनके ट्वीट का अनुवाद कुछ इस तरह किया गया है, स्विटजरलैंड में भोला शंकर के लिए गाने की शूटिंग बहुत मजेदार थी। मैं कह सकता हूँ कि गाना सभी प्रशंसकों को प्रभावित करेगा।

हम जल्द ही और अपडेट साझा करेंगे। तब तक, ये हैं लोक तस्वीरें। भोला शंकर मेहर रमेश द्वारा निर्देशित एक एक्शन एंटरटेनर है। फिल्म में तमना और कीर्ति सुरेश के साथ चिरंजीवी को टिट्युलर किरदार में दिखाया गया है। फिल्म की कहानी शिवा और आदि नारायण द्वारा लिखी गई है और संवाद ममीडाला थिरुपथी द्वारा लिखे गए हैं। रघु बाबू, मुरली शर्मा, रवि शंकर, वेनेला किशोर, स-शांत और तुलसी सहायक कलाकारों का हिस्सा है।

## लड़की ने सलमान खान से की शादी की मांग, शर्माए अभिनेता बोले मेरे लिए शादी के दिन खत्म हो चुके

बॉलीवुड के कुंवारे और सबके चहेते भाईजान यानी सलमान खान इस समय चर्चा में बने हुए हैं। हाल ही में सलमान की फिल्म 'किसी का भाई किसी की जान' ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन दर्शकों ने फिल्म को खूब पसंद किया। सलमान की फिल्मों के साथ-साथ उनकी पर्सनल लाइफ का भी खूब चर्चा होती है। उनकी लव लाइफ को लेकर हर कोई उत्सुक है। सलमान और ऐशवर्था की लव स्टोरी जगजाहिर थी, ऐशवर्था से कई झगड़ों के बाद सलमान का नाम कई एक्ट्रेस के साथ जुड़ा, लेकिन सलमान ने अभी तक शादी नहीं की।



लगातार हर इंटरव्यू या प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान से उनकी शादी के बारे में पूछा जाता है और सलमान अपने अनाखंड अंदाज में इसका जवाब देते हैं। हाल ही में एक इवेंट के दौरान सलमान से कुछ ऐसा ही सवाल किया गया। 'आईफा' अवार्ड समारोह के दौरान कई बड़े सितारों ने शिरकत की, इस बार रेड कार्पेट पर सलमान खान का नया लुक चर्चा में आया। इस इवेंट

के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए एक महिला ने सलमान से सीधे शादी के लिए पूछ लिया। उसने कहा, "सलमान क्या तुम मुझसे शादी करोगे?" सलमान ने अपने अनाखंड अंदाज में जवाब दिया। सलमान ने कहा, "मेरे लिए शादी के दिन खत्म हो चुके हैं। आपको मुझसे 20 साल पहले मिलना चाहिए था। सलमान से इस जवाब की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने इस बात को बड़े ही खुलकर स्वीकार किया।" इस इवेंट के दौरान दाढ़ी और मूंछ में सलमान का नया लुक भी काफी चर्चा में रहा। अब उनके फैंस भाईजान की 'टाइगर 3' का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

## सनी देओल और अभिनेत्री अमीषा पटेल की फिल्म 'गदर 2' का ट्रेलर रिलीज

बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल और अभिनेत्री अमीषा पटेल की फिल्म 'गदर 2' जल्द ही पर्दे पर दस्तक देगी। इस फिल्म का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है और सबका खूब ध्यान खींच रहा है। इसके साथ ही फिल्म की रिलीज डेट की भी घोषणा कर दी गई है। फैंस भी इस फिल्म के लिए उत्साहित हैं। 'गदर 2' के ट्रेलर की शुरुआत में तारा, सकीना और उसका बेटा अशरफ अली की ओर बढ़ते हुए नजर आते हैं। हालांकि एक बार फिर तारा के मुंह से 'हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा' गदर" में एक प्रेम कहानी देखने को मिली थी, लेकिन इस बार 'गदर 2' में

"गदर" को सिनेमाघरों में रिलीज करने का फैसला किया है। यह फिल्म 9 जून को कुछ ही सिनेमाघरों में रिलीज होगी। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, 'गदर 2' का प्लॉट 1970 के भारत-पाकिस्तान युद्ध पर आधारित होने वाला है। फिल्म में तारा सिंह और सकीना के बेटे 'जीत' एक भारतीय सैनिक की भूमिका में नजर आएंगे। इस रोल में उत्कर्ष शर्मा नजर आएंगे। 'गदर' में तारा सिंह अपनी पत्नी को वापस लाने पाकिस्तान गए थे। इस बार वह अपने बेटे को छुड़ाने के लिए पाकिस्तान में घुसते नजर आएंगे। 'गदर' में एक प्रेम कहानी देखने को मिली थी, लेकिन इस बार 'गदर 2' में

बाप-बेटे के रिश्ते की नाजुक डोर देखने को मिलेगी। सनी देओल ने सोशल मीडिया पर 'गदर 2' का पोस्टर शेयर कर रिलीज डेट का ऐलान किया है। यह फिल्म 11 अगस्त 2023 में रिलीज होगी। 'गदर' में हैडपॉज तोड़ते नजर आए थे सनी इस बार हाथ में हथौड़ी लिए नजर आ रहे हैं। फिल्म के पोस्टर में सनी तारा सिंह के अवतार में नजर आ रहे हैं, उनकी आंखों में गुस्सा है, हाथ में हथौड़ा है और हरे रंग की पगड़ी के साथ एक काला कुर्ता है। पोस्टर को देखने के बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि सनी एक बार फिर 'गदर 2' से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाएंगे।

# हीरामंडी नेटफ्लिक्स पर होगी स्ट्रीम

-भंसाली फिल्म की दोबारा करेंगे शूटिंग

मुंबई (ईएमएस)। बालीवुड की फिल्म हीरामंडी नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। संजय लीला भंसाली की इस अगली महत्वाकांक्षी परियोजना की शूटिंग वर्तमान में मुंबई में की जा रही है। सूत्रों के अनुसार, संजय लीला भंसाली सीरीज के लिए शूट के एक हिस्से से खुश नहीं हैं। हीरामंडी से जुड़े सूत्र बताते हैं, हीरामंडी के अलग-अलग एपिसोड अलग-अलग निर्देशकों द्वारा निर्देशित किए जा रहे हैं, जिन्होंने पहले संजय लीला भंसाली के तहत काम किया है। भंसाली श्रृंखला के लिए केवल प्रमुख दृश्यों का निर्देशन कर रहे हैं। हालांकि, हाल ही में, जब संजय लीला भंसाली ने अन्य निर्देशकों द्वारा शूट किए गए एपिसोड के कुछ दृश्यों को देखा, तो जाहिर तौर पर वह खुश नहीं थे। संजय लीला भंसाली उन एपिसोड्स के कुछ हिस्सों को फिर से शूट करने पर जोर दे रहे हैं, जिनके बारे में वह आश्वस्त नहीं हैं। प्रोडक्शन हाउस और कर्मचारी दुविधा में हैं क्योंकि शो का अधिकांश हिस्सा लगभग पूरा हो चुका था। इससे नेटफ्लिक्स पर सीरीज की रिलीज में देरी होगी या नहीं, यह अभी पता नहीं चल पाया है। संजय लीला भंसाली की ह-



रामंडी को नेटफ्लिक्स पर प्रदर्शित किए जाने की घोषणा कुछ समय पूर्व ही एक भव्य समारोह आयोजित करके की गई थी। नेटफ्लिक्स ने इस घोषणा से पहले कहा था, एक और समय, एक और युग, संजय लीला भंसाली द्वारा बनाई गई एक और जादुई दुनिया जिसका हम हिस्सा बनने का इंतजार नहीं कर सकते। यहां हीरामंडी की खूबसूरत और दिलचस्प दुनिया की एक झलक है। जल्द आ

रहा है। प्रेस विज्ञापित के अनुसार हीरामंडी 1940 के दशक के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की उथल-पुथल भरी पृष्ठभूमि के खिलाफ तनावपूर्ण और उनके संरक्षकों की कहानियों के माध्यम से, चकाचौंध करने वाले जिले, हीरामंडी की सांस्कृतिक वास्तविकता का पता लगाएंगी। कोठों में प्रेम, विश्वासघात, उत्तराधिकार और राजनीति का मिश्रण। हीरामंडी ने संजय लीला भंसाली को जीवन से बड़ी कहानियों, जटिल और

आत्मीय चरित्रों की हस्ताक्षर शैली, और भारत के लिए एक परिभाषित समय अर्वाधि के दौरान संघर्ष के साथ एक विश्व व्यापक की लहरदार गतिशीलता का वादा किया है। नेटफ्लिक्स ने सोशल मीडिया पर ऋचा चड्ढा, सोनाक्षी सिन्हा, मनीषा कोइराला, अदिति राव हैदरी और संजीदा शेख सहित प्रमुख महिलाओं की पहली उपस्थिति साझा की। फर्स्ट लुक ने सभी को हैरान कर दिया।

## शहनाज थाईलैंड के फूकेट में कर रही वेकेशन एंजाय




आजकल एक्ट्रेस शहनाज गिल थाईलैंड के फूकेट में जमकर वेकेशन एंजाय कर रही हैं। शहनाज वहां बीच साइड से फोटोज शेयर कर हॉटनेस का खूब कहर बरपा रही हैं। शहनाज ने समंदर किनारे मस्ती करते की अपनी कुछ नेटवर्क तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्हें देख फैंस उनके खूब दीवाने हो रहे हैं और कमेंट कर तारीफ भी कर रहे हैं। सामने आई तस्वीरों में देखा जा सकता है शहनाज गिल समंदर किनारे ब्यू इसे

पहन खूब इटलाली नजर आ रही हैं ब्लू क्रॉप टॉप के साथ एक्ट्रेस ने मैचिंग लॉन्ग स्कर्ट पहनी है। नो मेकअप लुक के साथ एक्ट्रेस ने लो बन बनाकर अपने लुक को कंफर्टि किया है और कैमरे के सामने दिलकश पोज देते हुए फैंस को इम्प्रेस कर रही हैं। तस्वीरों में कभी शहनाज बीच बैड तो कभी नेस्ट की तरह बनी हट में लेट पोज देती दिख रही हैं। फैंस सना को इन तस्वीरों के खूब दीवाने हो रहे हैं।

## पुष्पा-2 का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार, पुलिस की भूमिका में दिखेंगे रणवीर सिंह

मुंबई (ईएमएस)। बालीवुड के मशहूर स्टार रणवीर सिंह इन दिनों अपनी असफलताओं के दौर से गुजर रहे हैं। गत वर्ष प्रदर्शित फिल्म सर्कस असफल हो गई थी। इससे पूर्व भी उनकी कबीर खान निर्देशित फिल्म को भी असफलता का सामना करना पड़ा था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अब रणवीर सिंह ने निर्देशक सुकुमार का हाथ थाम लिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रणवीर सिंह सुकुमार के निर्देशन में बन रही अल्लू अर्जुन अभिनीत पुष्पा-2 में कैमियो करने जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रणवीर सिंह पुष्पा-2 में पुलिस वाले की भूमिका में नजर आएंगे, जिसके चलते फिल्म को एक अलग मोड़ मिलने की आशा है। बताया जा रहा है कि रणवीर सिंह पर कुछ एक्शन दृश्य भी फिल्माए जाएंगे, जिससे एक्शन का डोज डबल हो जाएगा। हालांकि अभी तक इसे लेकर कोई



आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। अल्लू अर्जुन के फैंस फिल्म पुष्पा-2 में रणवीर सिंह को कैमियो करने का खूब इंतजार कर रहे हैं। जब फिल्म का पहला भाग आया था तो पूरे देश के पुष्पा ने धमाल मचाया था। फिल्म के गाने, डायलॉग और हर एक सीन लोगों को जुबानी याद हो गया था। फिल्म के हीरो अल्लू अर्जुन की फैन फॉलोइंग इस फिल्म से कई गुना बढ़ चुकी है। इन

दिनों फिल्म का पोस्टर प्रोडक्शन वर्क जारी है। मेकर्स ने बीते दिनों फिल्म का एक वीडियो भी जारी किया था, जिसमें यह नजर आया था कि पुष्पा फरार हो गया है और पूरे देश की पुलिस उसे खोज रही है। मेकर्स ने फैंस को इस वीडियो के साथ यह जानकारी भी दी थी कि फिल्म को इस साल के अंत तक रिलीज किया जा सकता है।

## ऑटो से घर पहुंची सारा अली खान

मुम्बई में फिल्म के प्रमोशन प्रोग्राम में शामिल होने के बाद घर लौटने के लिए सारा अली खान को ऑटो की सवारी लेनी पड़ी, क्योंकि उनकी गाड़ी नहीं आई थी। सारा अली खान का ऑटो की सवारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। हालांकि ट्रोल्स ने उनके इस कदम को सस्ता पब्लिसिटी स्टंट बताया है। गौरतलब है कि सारा अली खान इन दिनों अपनी अगली फिल्म जरा हटके जरा बचके के प्रमोशन में व्यस्त हैं।

सेफ अली खान की बेटी सारा अली खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म जरा हटके जरा बचके को लेकर काफी चर्चा में बनी हुई हैं। इस फिल्म में सारा अली खान विक्की कौशल के साथ नजर आएंगी। इसी बीच सारा अली खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसी वीडियो में सारा अली खान ऑटो की सवारी करती हुई नजर आ रही हैं।

## रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का पहला लुक जारी

अभिनेत्री आलिया भट्ट और रणवीर सिंह की नई मूवी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी काफी समय से चर्चा में बनी हुई है। अब डायरेक्टर करण जोहर ने 25 मई को अपने बर्थडे के मौके पर फिल्म का फर्स्ट लुक जारी किया है। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की अपडेट का फैंस लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे। इस बीच शूटिंग के कुछ वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर लीक हुए थे, जिन्होंने लोगों की उत्सुकता बढ़ा दी थी। करण जोहर पिछले काफी सालों से डायरेक्शन की कुर्सी से दूरी बनाए हुए थे, लेकिन रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए उन्होंने एक बार फिर वापसी की। अब करण ने अपने 51वें



बर्थडे के मौके पर फिल्म से आलिया भट्ट और रणवीर सिंह का फर्स्ट लुक रिलीज किया है। करण ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की कई तस्वीरें शेयर की हैं। इसमें आलिया लगभग सभी फोटो में साड़ी में दिख रही हैं। वहीं, रणवीर सिंह वेस्टर्न और फंकी लुक में दिखाई दे रहे हैं।

**सूडोकु नवताल - 6444** \* \* \* \* \*

	6	4		5	8		
9				1			7
6	5			4		7	1
	4					2	
1	2			6		9	8
	3			8			9
		8	6		9	5	

**सूडोकु नवताल - 6443 का हल**

■ प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरने ज़रूरी आवश्यक हैं।  
 ■ प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3x3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें।  
 ■ पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते।  
 ■ पहली का केवल एक ही हल है।

2	4	5	6	9	8	1	7	3
1	7	6	4	3	5	8	2	9
3	8	9	1	2	7	6	5	4
9	1	7	3	6	2	4	8	5
5	6	3	8	7	4	9	1	2
4	2	8	5	1	9	3	6	7
7	3	1	9	5	6	2	4	8
8	9	2	7	4	1	5	3	6
6	5	4	2	8	3	7	9	1

**शब्दजाल - 7191**

उ जा ला ह दा प उ झि सा झ आ  
 ज अ ल म आ मो ल ब्ब तें शा अ  
 अं इ नु दि ल दा ख र ला ब  
 ज कु उ ल बे ला लू उ त रा ना  
 स ति श द व दा ल उ ग वी ट  
 री रं ल चु बि लि र्त क्ष दा प च  
 जो उ ल के गा ला म उ कौ र ले  
 श ता जी स त क व क ग श ता  
 म व मि न व न ज सा शा जू द  
 द ल ल ल म ह उ ठ ना स प ना  
 थो औ र प्यार उ ल झ न र क

शब्दजाल में 'उ' से शुरु होने वाले दस शब्द ढूंढिए, दिये गए शब्द उपर से नीचे व तिरछे हो सकते हैं।  
 उकसाना, उतावला, उलझन, उठाना, उजाला, उड़ीसा, उलजलूल, उतराना, उदबिलावा, उदारता

**शब्दजाल - 7190 का हल**

के	मे	रि	दु	ला	य	ल	क	लं	क	
बू	खु	क	दू	ई	जी	क	शि	या	इ	नी
त	पी	जा	ल्ले	र	ग	बा	ल	ह	प	ल
र	ग	ए	र	जा	बा	बू	ल	यु	लि	प्रे
व	र	र	जा	जी	क	ला	कि	यो	ग	म
ल	इ	वि	मो	ग	प	ला	शी	ह	जी	श
न	अ	ल	य	व	मा	जो	ई	व	प	क्ति
क	रि	ल	र	क	र	ह	त्या	ल	वि	क
र	क	ल	श	य	न	ज	जी	शा	जू	म
र	ग	ल	नो	मा	व	शि	का	री	टि	जो
बां	क	र	तू	त	च	ले	स	क	म	र

**अष्टयोग - 6144**

7	4	5	2				
		38		32	1	27	7
		3			6		2
		30		40	7	32	
6	1	4				5	3
		24		36	4	30	5
1			7			2	

प्रस्तुत खेल सुडोकू व जोड़ की पद्धति का मिश्रण है, खड़ी व आड़ी पंक्तियों में 1 से 7 तक के अंक लिखने अनिवार्य हैं, गहरे काले वर्ग में लिखी संख्या चारों ओर के 8 वर्गों की संख्या का कुल योग होगी, सीधी अथवा आड़ी पंक्तियों में 1 से 7 तक के अंक होना अनिवार्य है।

**अष्टयोग 6143 का हल**

5	1	3	6	7	2	4
6	34	6	33	1	33	7
7	5	1	3	6	4	2
1	26	2	29	4	33	5
4	1	5	6	2	7	3
3	30	4	37	5	33	6
2	4	7	5	3	6	1



# गिल प्लेऑफ में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज: वीरेंद्र सहवाग को पीछे छोड़ा; आईपीएल के फाइनल में विराट के 2 रिकॉर्ड पर नजर

नई दिल्ली। शुभमन गिल, दिसंबर 2022 से आईपीएल प्लेऑफ तक, क्रिकेट फैंस के बीच ये नाम बहुत तेजी से गुंजा है। शुक्रवार को गिल ने 5 बार की आईपीएल चैंपियन मुंबई इंडियंस के खिलाफ क्वालिफायर-2 में 129 रन की पारी खेलकर एक बार फिर फैंस को उनका नाम याद दिला दिया। गिल ने चौथे मैच में अपना तीसरा शतक लगाया और वह आईपीएल में ऐसा करने वाले पहले ही खिलाड़ी बने।

मुंबई के खिलाफ शतकीय पारी के साथ ही शुभमन अरिज कैप पर भी कब्जा जमा लिया है। इस सीजन उनके 16 मैचों में 851 रन हो गए हैं। वह विराट कोहली के अल्टिमाटम रिकॉर्ड को तोड़ने के भी करीब हैं। विराट के नाम एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा 973 रन बनाने का रिकॉर्ड है।

आगे स्टोरी में हम जानेंगे कि गिल किस तरह विराट के इस रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं, MI के खिलाफ उनकी संभूरी ने कौन से रिकॉर्ड बनाए और कैसे पिछले 9 महीनों में गिल ने क्रिकेट फैंस के दिमाग में अपने नाम का परचम लहराया।

प्लेऑफ का बेस्ट स्कोर बनाया-गिल की टीम गुजरात टाइटंस 23 मई को सीएसके के खिलाफ क्वालिफायर-1 में हारने के बाद क्वालिफायर-2 में आई थी। मुंबई ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी और शुभमन ने उनके फैसले को गलत साबित कर दिया। उन्होंने महज 49 गेंदों पर शतक लगाया और 17वें ओवर में 129 रन की पारी खेल कर आउट भी हो गए। उनकी पारी के दम पर गुजरात ने 233 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया, जो मुंबई के लिए बहुत बड़ा साबित हुआ।

60 गेंदों में 129 रन की पारी के साथ गिल ने आईपीएल प्लेऑफ में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाया। उनसे पहले पंजाब क्रिकेट के वीरेंद्र सहवाग ने 2014 में सीएसके के खिलाफ 122 रन की पारी खेली थी। उनकी टीम ने प्लेऑफ का सबसे बड़ा स्कोर भी है। पंजाब ने ही 2014 में 226 रन का रिकॉर्ड बनाया था।

## न्यूज ब्रीफ

मैत्री मैच में गिनी, सेनेगल से मिडेगा ब्राजील



रियो डी जेनेरो। ब्राजील अगले महीने यूरोप में गिनी और सेनेगल के खिलाफ मैत्री मैच खेलेगा, क्योंकि दक्षिण अमेरिकी दिग्गज 2026 विश्व कप क्वालिफायर की तैयारी कर रहे हैं। ब्राजील अपने 2026 विश्व कप क्वालिफायर की तैयारी कर रहे हैं। ब्राजील अपने 2026 विश्व कप क्वालिफायर की तैयारी कर रहे हैं।

## मेग लेनिंग महिला एशेज टॉर से बाहर



मेलबर्न। ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मेग लेनिंग चिकित्सकीय कारणों से ब्रिटेन के महिला एशेज टॉर से बाहर हो गई हैं। सीए मेडिकल स्टाफ की सलाह पर लेनिंग को एक मेडिकल मुद्दे के कारण टीम से वापस ले लिया गया है जिसके लिए घर से प्रबंधन की आवश्यकता होती है। लेनिंग के खेलने के लिए वापसी की समयरेखा नियत समय में स्पष्ट हो जाएगी। सीए के प्रदर्शन प्रमुख (महिला क्रिकेट) शॉन फ्लेगलर ने कहा, यह मेग के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण झटका है और वह स्पष्ट रूप से एशेज से बाहर होने से निराश है, यह टीम के लिए एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है और उसे याद किया जाएगा, लेकिन वह पहले अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता को समझती हैं। मेग घर पर ही रहेगी जहां वह मेडिकल स्टाफ के साथ काम करना जारी रखेगी ताकि जल्द से जल्द खेल में लौट सकें। हम चाहते हैं कि इस समय मेग की गोपनीयता का सम्मान किया जाए। एलिसा हीली आगामी एशेज श्रृंखला में महिला टीम की कप्तानी करेंगी और उप-कप्तान के रूप में ताहलिया मैक्या द्वारा उन्हें सहयोग दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ए टैर के कारण लेनिंग को टीम में नहीं बदला जाएगा, जो खिलाड़ियों को आवश्यकतानुसार दोनों टीमों के लिए उपलब्ध होने और पार करने की अनुमति देता है।

## चीनी शटलरों ने मलेशिया मास्टर्स के सेमीफाइनल में तीन स्थान हासिल किये



कुआलालम्पुर। चीनी खिलाड़ियों ने मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप के चौथे दिन तीन क्वार्टरफाइनल मैच जीते। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, पुंश एफल में चीन के वेंग होंगयांग ने एंश एनजी का लॉग को 23-21, 14-21, 21-14 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। महिला एफल में चीन की हान यू ने थार्डलैंड की बुसानन ओंगबामरंगफान को 22-20, 21-9 से मात दी, लेकिन उनकी हमवतन वांग झियी और झांग यिमन बाहर हो गईं। भारत की ग्रेगोरिया मारिस्का तुनजुंग ने चांग को 21-11, 21-14 से हराया और भारत की ही पीवी सिंधु ने झांग को 21-16, 13-21, 22-20 से हराया। मिथिल सुगल में चीन की फेन यान्घे और हुआंग डोंगपिंग ने जापान की यमाशिता क्योई और शिनोगा नारु को 22-20, 11-21, 21-17 से हराया। फिर भी, यह चीनी शटलरों के लिए क्लोन स्वीप नहीं था, क्योंकि थार्डलैंड के डेवापोल पुवारानुकोड और सपसीरी तेरातानाचाई ने जियांग झेनबैंग और वेई याक्सन को 21-8, 21-17 से हराया। मलेशिया मास्टर्स 23 से 28 मई तक एक्सिसटा एरिना में चलेंगा।

## ईपीएल : मैनचेस्टर यूनाइटेड को मिला चैंपियंस लीग का टिकट

# चेल्सी को 4-1 से हराकर शीर्ष चार टीमों में बनाई जगह

लंदन। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने दो साल बाद फिर से चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई कर लिया है। यूनाइटेड ने चेल्सी को 4-1 से हराकर इंग्लिश प्रीमियर लीग की शीर्ष चार टीमों में जगह पक्की कर ली। चैंपियंस लीग का टिकट हासिल करने के लिए ईपीएल की शीर्ष चार टीमों में शामिल होना जरूरी था। मैनचेस्टर को सिर्फ डूँ खेलेनी की जरूरत थी, लेकिन केशमिरो और ब्रूनो फर्नांडीज के शानदार प्रदर्शन की बदौलत यूनाइटेड ने अपने घरेलू मैदान ओल्ड ट्रैफर्ड पर शानदार जीत हासिल की।



कोच टेन हेग ने बताया सफल सत्र: डच कोच एरिक टेन हेग की कोचिंग में यूनाइटेड ने सत्र की शुरुआत में क्रिस्टियानो रोनाल्डो विवाद से उबरते हुए ईपीएल की शीर्ष चार टीमों में जगह पक्की कर ली है। मैनचेस्टर इस जीत के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गया है, लेकिन उसे और चौथे स्थान पर मौजूद न्यूकैसल को अभी एक-एक मैच खेलना है। टेन हेग ने जीत के बाद कहा कि यह हमारे लिए सफल सत्र रहा है, लेकिन सत्र अभी खत्म नहीं हुआ है। यूनाइटेड को वेंबले में तीन जून को ईपीएल विजेता मैनचेस्टर सिटी के साथ एफए कप का फाइनल भी खेलना है।

बदलाव के दौर से गुजर रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड : टेन हेग फरवरी में यूनाइटेड को 2017 के बाद उसकी पहली ट्रांफी लीग कप के रूप में जिता चुके हैं। 20 बार ईपीएल का खिताब

मिली थी। छठे मिनट में केशमिरो ने दिलाई बढ़त : यूनाइटेड को छठे ही मिनट में ब्राजीली मिडफील्डर केशमिरो ने हेडर के जरिए गोल कर बढ़त दिला दी। क्रिस्टियानो एरिक्सन के क्रास के शुरुआत ने हेडर जमाया। पहला हाफ के इंगुरी टाइम में एंथोनी मार्शल ने जाडेन सांको के पास पर गोल किया। दूसरे हाफ में यूनाइटेड के लिए ब्रूनो फर्नांडीज ने

पेनाल्टी पर और चोटिल हो गए एंटोनी की जगह पर मार्क्स रशाफोर्ड ने चौथा गोल किया। चेल्सी के लिए 89वें मिनट में जेआओ फेलिक्स ने सांत्वना देने वाला गोल किया। चेल्सी के लिए पिछले 10 मैचों में यह आठवां हार रही। एंटोनी को खेल के 29वें मिनट में चोट लगी। वह मैदान के बाहर चले गए। एफए कप के फाइनल में उनका खेलना मुश्किल लग रहा है।

## आईफा में रूमर्ड गर्लफ्रेंड निधि संग नजर आए पृथ्वी शॉ, सुपर हिट लग रही दोनों की जोड़ी

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम और दिल्ली कैपिटल्स के सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ की लव लाइफ पिछले काफी समय से सुर्खियों में बनी हुई है। शॉ का नाम एक्ट्रेस और मॉडल निधि तपाड़िया के साथ जोड़ा जाता है। निधि को उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड कहा जाता है। कपल को सोशल मीडिया पर एक दूसरे की फोटोज पर काफी कमेंट करते हुए देखा गया है। लेकिन अब शॉ पहली बार निधि के साथ अवॉर्ड शो में एक साथ नजर आए हैं। दोनों की फोटो और वीडियो भी वायरल हो रही है।



कपड़ों में नजर आए। उन्होंने ब्लैक शर्ट, ब्लैक जैकेट डाल रखी थी। दोनों काले कपड़ों में काफी उत्कृष्ट नजर आए थे। बता दें कि आईफा रॉक्स इवेंट में बॉलिवुड के दिग्गज एक्टर सलमान खान, कुटि सैनन, नोरा फतेही और विक्की कोशल जैसे बड़े एक्टर्स नजर आए थे।

# नई संसद के सामने महिला महापंचायत की मंजूरी नहीं: महिला पहलवान बोलीं- जहां रोकेंगे वहीं महापंचायत होगी, पुलिस ने पीड़ितों के बयान दर्ज किए

पानीपत। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण के खिलाफ पहलवानों का धरना, जंतर-मंतर पर जारी है। शनिवार को मामले की स्टेटस रिपोर्ट लेकर दिल्ली पुलिस राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची। यहां दिल्ली पुलिस ने बताया कि पीड़ितों के धारा 164 के तहत बयान दर्ज किए गए हैं। अब मामले की सुनवाई 27 जून को होगी।

इससे पहले योग गुरु बाबा रामदेव का गुस्सा बृजभूषण पर फूटा। राजस्थान के भीलवाड़ा में बाबा रामदेव ने बिना नाम दिए कहा कि कुश्ती संघ का मुख्यालय रोज बहन-बेटियों के बारे में बकवास करता है। उसे तुरंत अरेस्ट करना चाहिए।

नई संसद के सामने महिला महापंचायत की मंजूरी नहीं: महिला पहलवान बोलीं- जहां रोकेंगे वहीं महापंचायत होगी, पुलिस ने पीड़ितों के बयान दर्ज किए।

बाबूत फोगाट ने कहा - आंदोलनजीवी कर रहा अगुआई : इस मामले में भाजपा नेता और पहलवान रहीं बाबूत फोगाट ने पहलवानों के धरने को लेकर गुस्सा फूटा है। बाबूत फोगाट ने कहा- यह बेहद ही शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है कि जंतर मंतर से शुरू हुए आंदोलन की अगुआई अब गुराम सिंह चढ़नी जैसे आंदोलनजीवी द्वारा की जा रही है।

जिस सभा में विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल बीजेपी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जहरीले बोल, अपशब्द और धमकियां दी जा रही है, वो

आंदोलन महिलाओं के अधिकार के लिए कैसे हो सकता है? महिलाओं के अधिकार के लिए उठी मांग व आंदोलन अब देश विरोधी ताकतों और खस राजनीतिक परिवारों को सुर्द होती दिख रही है।



बाबूत फोगाट ने कहा - आंदोलनजीवी कर रहा अगुआई : इस मामले में भाजपा नेता और पहलवान रहीं बाबूत फोगाट ने पहलवानों के धरने को लेकर गुस्सा फूटा है। बाबूत फोगाट ने कहा- यह बेहद ही शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है कि जंतर मंतर से शुरू हुए आंदोलन की अगुआई अब गुराम सिंह चढ़नी जैसे आंदोलनजीवी द्वारा की जा रही है।



## कसरत से कोई फायदा नहीं...?

आमतौर पर माना जाता है कि खूब कसरत करने से हमारे शरीर को बहुत से फायदे होते हैं, लेकिन नए शोध बता रहे हैं कि कई पारंपरिक ज्यादा कसरत करने से हृदय संबंधी परेशानियां होती हैं। हालांकि वर्षों से माहौल ऐसा बना दिया गया है कि अगर कोई इस ऐसी बात करने की कोशिश करता है तो उसकी आलोचना होने लगती है। इस अध्ययनों में अत्यधिक कसरत से होने वाले खतरों को पहचानने में जानकारी मिली है।

अक्सर कई दवाइयों के साथ होता है कि अगर उनकी जरूरत से ज्यादा मात्रा ली जाए तो वे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, ठीक उसी तरह जरूरत से ज्यादा कसरत करना भी हानिकारक हो सकता है। यह जानकारी एक नए अध्ययन से सामने आई है। शोधकर्ताओं ने उन अध्ययनों की समीक्षा की जो कसरत और हृदय संबंधी परेशानियों के संबंध में किए गए हैं और पाया कि इसके पछता सबूत हैं कि खूब कसरत करने से कार्डियो संबंधी और हृदय संबंधी स्थायी परेशानियां पैदा हो जाती हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि ज्यादा कसरत करने से हृदय संबंधी परेशानियां होती हैं। लेकिन माहौल यहां तक बना दिया गया है कि अगर कोई इस संबंध में बात करने की कोशिश करता है तो उसकी आलोचना होने लगती है। इस अध्ययन में अत्यधिक कसरत से होने वाले खतरों को पहचानने में जानकारी मिली है।

### आम कसरत से फायदा

आज जमाना खुद को फिट रखने का है। इसके लिए लोग तरह-तरह के नुस्खे आजमाते हैं। वर्जिश करते हैं। बदन को खींच-तानकर अपना वजन घटाने की कोशिश करते हैं। क्रंचेज करते हैं। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं करते हैं वे अफसोस न करें, क्योंकि हाल में तमाम रिसर्च से यह बात सामने आई है कि उठक-बैठक, क्रंचेज से कोई खास फायदा नहीं होता, बल्कि कई शोध तो यह भी दावा कर रहे हैं कि इनसे नुकसान भी हो सकता है। इन वर्जिशों से न तो आपके सिक्स पैक ऐब्स बनते हैं, न ही आपका पेट कम होता है, बल्कि पेट का घेरा कम करने के लिए अपने खान-पान में बदलाव लाना जरूरी है। साथ ही कुछ आम सी कसरत से भी इसमें फायदा होता है।

### कोई फर्क नजर नहीं आया

बीबीसी के मुताबिक वर्जिश को लेकर हाल में जो रिसर्च सामने आए हैं, उनके मुताबिक, उठने-लेटने की कसरत से आपके बदन का लचीलापन बढ़ता है। अगर आप सिक्स पैक ऐब्स बनाने का इरादा रखते हैं तो महज सिट-अप कसरत से आपका भला नहीं होने वाला। हाल ही में अमेरिका के इलिनॉय में एक तजुबा किया गया। कुछ लोगों को दो हिस्सों में बांटा गया। एक ग्रुप को सिट-अप कसरत करने को कहा गया। दूसरे समूह के लोगों को किसी कसरत की सलाह नहीं दी गई। करीब डेढ़ महीने बाद जब दोनों ग्रुप के लोगों के पेट का माप लिया गया तो दोनों में कोई फर्क नजर नहीं आया। कहने का मतलब ये कि जो लोग उठने-लेटने की कसरत कर रहे थे, उन्हें इससे पेट कम होने का फायदा नहीं हुआ।



### सिट-अप का असर नहीं

बहुत से खिलाड़ी सिट-अप करते हैं ताकि उनका शरीर खेल की बुनियादी जरूरतों के हिसाब से ढल सके। लेकिन अमरीका की इंडियाना स्टेट यूनिवर्सिटी के रिसर्च के मुताबिक, इससे खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर कोई असर नहीं पड़ता। कनाडा की वाटरलू यूनिवर्सिटी ने भी सिट-अप के बारे में एक रिसर्च की। कई सालों के उनके तजुबे पर भरोसा करें तो सिट-अप या क्रंचेज से शरीर को नुकसान होने का ज्यादा डर होता है बनिस्वत किसी फायदे के। सुअरों के एक झुंड पर यह तजुबा आजमाया गया। उन सुअरों की रीढ़ की हड्डी की पड़ताल की गई जो इंसानों के सिट-अप करने जैसी अंगड़ाई लेकर अपनी रीढ़ को सीधा करती हैं। पाया कि गया कि इससे सुअरों की रीढ़ की हड्डी को काफी नुकसान पहुंचा था। इस रिसर्च के लिए सुअरों को इसलिए चुना गया था क्योंकि उनकी और इंसानों की रीढ़ की हड्डी में काफी समानता है। हालांकि इस रिसर्च के विरोधियों का कहना है कि इंसान और सुअर में बहुत फर्क है। साथ ही क्रंचेज करने वाले अक्सर बीच में ब्रेक लेते हैं।

### चोटिल होने का जोखिम

अगर आप लगातार सिट-अप करते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी को नुकसान होने की आशंका रहती है। हालांकि रोजाना पंद्रह-बीस सिट-अप करने से बहुत फर्क नहीं पड़ता। फिर भी यह कसरत करते वक्त चोटिल होने का जोखिम तो रहता ही है। अमरीका के फोर्ट ब्रैन्स सैन्य अड्डे पर तैनात सैनिकों के सिट-अप की गई थी। इसके मुताबिक वहां चोटिल सैनिकों में से 56 फीसदी आर्मी के फिजिकल फिटनेस टेस्ट के दौरान चोटिल हुए थे, इसमें सिट-अप करते हुए लगी चोट भी शामिल थी।

### जीन्स से संबंध

वैसे कुछ लोग सिट-अप से पीठ की दिक्कतों का ज्यादा सामना करते हैं। हो सकता है कि हम बरसों तक रोजाना तीस उठने-लेटने वाली कसरत कर सकें। हो सकता है ऐसा न भी कर पाएं। असल में हमें पता ही नहीं होता कि हम किस खांचे में फिट बैठते हैं। अक्सर इसका सीधा संबंध हमारे जीन्स में होता है। कनाडा, फिनलैंड और अमरीका में टिवन स्पाइन्ड स्टडी हो रही है। इसमें जुड़वां लोगों के कसरत और इससे पीठ को होने वाली तकलीफ पर नजर रखी जा रही है। तजुबा करने वालों ने पाया कि चोटिल होने की आशंका का सीधा संबंध, किसी इंसान के जीन से जुड़ा होता है।

### कैसे बचें चोट से

क्रंचेज करते वक्त आपकी पीठ चोटिल न हो इसके लिए क्या करना चाहिए। कनाडा के एक विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि ऐसी वर्जिश के वक्त अपने हाथों को अपनी पीठ के नीचे रखना चाहिए। इससे बैलेंस बिगड़ने की सुरत में आपकी पीठ की जमीन से सीधी टकराव नहीं होगी। आप एक घुटना मोड़िए और दूसरा पैर फैला लीजिए। फिर अपने सिर और कंधों को जमीन से ऊपर उठाइए, इस दौरान अपना सिर इस तरह रखिए जैसे किसी चीज पर टिकाए हुए हों।

### पंद्रह से करें शुरुआत

न्यूजीलैंड की ऑकलैंड यूनिवर्सिटी में भी सिट-अप पर रिसर्च हुई है। शोधकर्ता कहते हैं कि कसरत के हर सेशन में आप साठ सिट-अप कर सकते हैं। हालांकि शुरुआत पंद्रह से ही होनी चाहिए। फिर इसे आप थोड़ा-थोड़ा करके बढ़ा सकते हैं। जब हम रात भर लेटे रहते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी की लंबाई थोड़ी बढ़ जाती है। ऐसे में बेहतर यह होगा कि सुबह उठते ही यह कसरत करने से बचें। यही नहीं दफ्तर की कुर्सी से सीधे उठकर सिट-अप करना भी ठीक नहीं। अपने बदन को थोड़ा रिलेक्स करने दीजिए। फिर करिए सिट-अप या क्रंचेज या फिर उठक-बैठक। तब आपको नुकसान होने का डर कम होगा।

## सांवले युवाओं के लिए फैशन...

सांवले लोग यह सोचते हैं कि उनकी स्टाइलिंग के विकल्प काफी कम हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। सांवले रंग वाले खुश रहें क्योंकि उन्हें अच्छे दिखने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। फैशन एक ऐसी चीज है जो हमेशा बदलती रहती है। कई लोगों को जानकारी के अभाव के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। खासकर जब बात सांवले युवाओं की आती है। इस समस्या का हल ढूंढने के लिए नीचे सांवले मर्दों के लिए कुछ नुस्खे दिए गए हैं।

### सफेद को ना कहें

सांवले युवाओं को यह पता होना चाहिए कि वे अपने कपड़ों का चुनाव कैसे करें और कौन से रंग के वस्त्र पहनें। सफेद रंग का प्रयोग न करें क्योंकि यह सांवले लोगों को असल रंग से भी ज्यादा काला दर्शाता है। कुछ रंग जैसे हल्का हरा और हल्का पीला या नींबू के रंग का पीला सांवले रंग पर काफी अच्छे लगते हैं। इसी तरह हल्की धारियों के साथ पेटल रंग भी ऐसी त्वचा पर काफी फबते हैं। कोई भी कपड़ा खरीदने से पहले उसे पहनकर अवश्य देखें।

### हलके रंगों का प्रयोग

भले ही सांवले लोगों को चमकदार रंग पसंद हों, लेकिन ध्यान रखें कि काला, नेवी ब्लू और गाढ़ा भूरा रंग उन्हें बेहतरीन लुक से नवाजेगा। अगर वे कहीं घूमने फिरने के लिए कपड़ों का रंग सोच रहे हैं तो नीले या मटमैलरंग के हल्के शेड्स पहनना ना भूलें।

### खाकी व वार्म कलर्स से मैच

ऐसा मौका कई बार आता है जब सांवली त्वचा वाले युवा अपनी पहनी हुई पतलून में आराम का अनुभव नहीं करते। अगर आप खाकी पहनना चाहते हैं तो मटमैले या हलके भूरे जैसे रंग चुनें। खाकी के साथ पीले शेड्स के कपड़े पहनें। इससे आप काफी अच्छे लगेंगे।

### सांवले लोगों के बालों का रंग

बालों के रंग को बदलकर भी भीड़ से अलग लगा जा सकता है। बालों के सही रंग के चुनाव से वे काफी स्टाइलिश लग सकते हैं। ऐसे कई रंग हैं जो कि सांवले लोगों पर काफी अच्छे लगते हैं। लाल हाईलाइट के साथ सुनहरा भूरा रंग सांवले लोगों पर काफी अच्छे लगता है। चेस्टनट कॉपर तथा महोगनी के रंग भी काफी फबते हैं। प्लेम रेड भी एक ऐसा रंग है जो कि सांवले लोगों के व्यक्तित्व को काफी निखारता है।



# उद्यमिता की राह पर युवा...

सफल उद्यमी वह है जिसे नकारात्मक परिस्थितियों में भी अवसर नजर आए और जो परिस्थितियों के अनुरूप आइडियाज का सृजन कर उसे बाजार में बेच सके। पैर पसारते मशीनीकरण और घटती नौकरियों के इस दौर में उद्यमिता रोजगार का मुख्य विकल्प है।

एक सर्वे के अनुसार 51 प्रतिशत भारतीय स्वरोजगार कर रहे हैं। इनमें एक बड़ा प्रतिशत उद्यमियों का है। अपनी शर्तों पर काम, अधिक मुनाफा और आइडियाज को मूर्त रूप में ढालने की बेहतर संभावना के चलते बड़ी संख्या में प्रोफेशनल डिग्रीधारक उद्यमिता की राह चुन रहे हैं। सरकार भी उभरते एंटरप्रेन्योरों को बढ़ावा दे रही है और नई-नई योजनाएं ला रही है। आइए नजर डालते हैं इस क्षेत्र में आ रहे बदलावों और संभावनाओं पर।

### बदला नजारा

पिछले कुछ सालों में भारत में एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर व्यापक बदलाव आए हैं। कंपनियों का विकास, विस्तार और प्रतिस्पर्धा को लेकर आपसी संघर्ष कर रही हैं। तकनीक और सूचना क्रांति ने पूरा नजारा ही बदल दिया है। एक प्रमुख उदाहरण है ऑनलाइन शॉपिंग के नए बेंड्स का उभरना और चमकना। हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ने के साथ ही नए उद्यमियों पर दबाव है कि वे किस तरह खुद को बाजार में पहले से मौजूद बेंड्स से बेहतर साबित करें। यह स्थिति जहां ग्राहकों के पक्ष में है, वहीं उद्यमियों के लिए चुनौती भरी है।

### एक आइडिया

आज के दौर में वही उद्यमी सफल है जिसके पास न सिर्फ बेहतरीन आइडिया हो बल्कि उसे बाजार में भुनाने की कूबत भी हो। परंपरागत क्षेत्रों में तो पहले से ही बड़े-बड़े दिग्गज बेंड्स जमे हुए हैं। हालांकि

उद्यमी बनने के लिए किसी विशेष शैक्षिक योग्यता का होना जरूरी नहीं है, पर किसी बिजनेस स्कूल से एंटरप्रेन्योरशिप की बारीकियां समझने वाला कोई कोर्स करना अच्छा रहता है। साथ ही रिस्क लेने की क्षमता होना भी बेहद जरूरी है। उद्यम से जुड़ी जानकारी होना एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स में इजाजा करता है। साथ ही तकनीकी पक्ष मजबूत होना भी बेहद जरूरी है।

### फंडिंग हुई आसान

तीन साल पहले उभरते एंटरप्रेन्योरों के लिए फंडिंग एक बड़ी समस्या थी और इसका मुख्य स्रोत उधार या लोन होता था, लेकिन अब स्थितियां ऐसी नहीं रहीं। अब उद्यम को लेकर आई सामाजिक और प्रशासनिक जागरूकता ने इंडस्ट्रीज डायनामिक एंटरप्रेन्योरियल ई कोसिस्टम को जन्म दिया है। अब नए उद्यमियों के लिए फंड जुटाने के कई नए तरीके मौजूद हैं। वर्तमान में भारत में इंडस्ट्री प्रमोशन के लिए कई योजनाएं चल रही हैं। इन योजनाओं के तहत विभिन्न औपचारिकताओं को कम किया गया है और इस बात पर जोर दिया गया है कि किस तरह नए उद्यमी एक-दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ें।



### संभावना से भरा क्षेत्र

वर्तमान में भारत में नए एंटरप्रेन्योरों के लिए असीमित संभावनाएं हैं। विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल्स, बायोमैडिकल, रिटेल, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंश्योरेंस और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में अवसरों की भरमार है। पिछले कुछ सालों में आया एक अन्य प्रमुख बदलाव है उद्यमिता में स्त्रियों की बढ़ती भागीदारी। स्त्रियों ने उद्यमिता के लगभग हर सेक्टर में अपनी छाप छोड़ी है। मुख्य रूप से रिटेल ट्रेड, होटल, एजुकेशन, इंश्योरेंस और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में।

### कुछ सावधानियां जरूरी

- अपने ब्रैंड का नाम तय करने और उसे रजिस्टर कराने के बाद बिजनेस बैंक अकाउंट खोल लें। अकाउंट का रिकॉर्ड या तो खुद मॉनिटर करें या इसके लिए किसी प्रोफेशनल को हायर कर लें। साल के अंत में अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करें। बिजनेस में खर्च हुए एक-एक पैसे का हिसाब आपके पास होना चाहिए।
- आज के प्रतिस्पर्धी भरे माहौल में आपको अपने ग्राहकों को पेमेंट के कई विकल्प उपलब्ध कराने होंगे। कैश पेमेंट ऑन डिलिवरी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग जैसे विकल्प शामिल करें। उद्यमियों के लिए क्रेडिट कार्ड मॉर्चे अकाउंट खोल लेना अच्छा रहता है।
- छोटे से छोटे उद्यमी को भी पेमेंट टर्मस पॉलिसी की व्यवस्था बनानी चाहिए। पेमेंट का समय निश्चित होना चाहिए लेकिन इसका तरीका ग्राहकों की सुविधा के हिसाब से लचीला होना चाहिए। किसी तरह की कन्स्यूजन से बचने और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह बेहद जरूरी है।
- सर्विस आधारित बिजनेस करने वालों को सर्विस उपलब्ध कराने से पहले अपने वलाइंट से एक निश्चित राशि जमा करा लेनी चाहिए, विशेष रूप से उस स्थिति में जब इसे उपलब्ध कराने के लिए आपको अपनी जेब से पैसा लगाना हो। यह राशि कम से कम आपकी लागत के बराबर होनी चाहिए। यह जानकारी आपके ऑर्डर फॉर्म या कॉन्ट्रैक्ट में साफ-साफ दी होनी चाहिए।

### यह करें

- अपने क्षेत्र से जुड़े खास लोगों से संपर्क में रहें और अपना नेटवर्क बनाएं। व्यवस्थित रहें।
- क्राइसिस को अवसर में परिवर्तित करने की कला सीखें।
- गहन ऑनर्लैन्डिंग की आदत डालें।
- बिजनेस की दुनिया में हो रहे बदलावों से वकिफ रहें।

### यह न करें

- ग्राहकों के सामने कभी खुद को बढ़ा-चढ़ा कर पेश न करें। उम्मीदों पर खरा न उतरने से आपकी साख मिट्टी में मिल जाएगी।
- अपने प्रोडक्ट या सर्विस की डिलिवरी हमेशा समय पर करें।
- आज के ग्राहक जागरूक हैं। उन्हें कभी भी कम न आंके। भ्रमित करने की कोशिश तो कतई न करें।